



11/11/19  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)**  
**PART II—Section 3—Sub-section (iii)**

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]  
No. 20]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2004/चैत्र 3, 1926  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2004/CHAITRA 3, 1926

**भारत निर्वाचन आयोग**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2004

आ.अ. 27(अ).—यतः निर्वाचन आयोग ने, समय-समय पर यथा-संशोधित, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबटेन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में जारी, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों और मुक्त प्रतीकों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, अपनी अधिसूचना सं. 56/2003/न्यायिक-III, तारीख 23 अक्टूबर, 2003 को अद्यतन करने का निर्णय लिया है;

2. अतः अब, समय-समय पर यथा-संशोधित, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आंबटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खण्ड-3, उप-खण्ड(॥॥) में प्रकाशित तारीख 23 अक्टूबर, 2003 की अपनी उपर्युक्त मुख्य अधिसूचना 56/2003/व्यायिक-॥॥ के अधिकरण में निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा विनिर्दिष्ट करता है :-

- (क) सारणी-। में, राष्ट्रीय दल और उनके लिए कमशः आरक्षित प्रतीक ;
- (ख) सारणी-॥ में, राज्यीय दल राज्य या वे राज्य जहाँ ये राज्यीय दल हैं और ऐसे राज्य या राज्यों में उनके लिए कमशः आरक्षित प्रतीक ;

- (ग) सारणी-III में, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल और उनके मुख्यालयों के डाक-बत्ते ;  
और
- (घ) सारणी-4 में, मुक्त प्रतीक

### सारणी-1 राष्ट्रीय दल

क्र०सं०	राष्ट्रीय दल	आदर्शित प्रतीक	पता
1	2	3	4
1)	बहुजन समाज पार्टी	हाथी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में (असम और सिक्किम राज्यों को छोड़कर जहाँ इनके अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची से कोई अन्य प्रतीक चुनना पड़ेगा)	12, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001.
2)	भारतीय जनता पार्टी	कमल	11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110002.
3)	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	बाल और हंसिया	अजय भवन, कोटाला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
4)	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हंसिया और सितारा	ए.के. गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल मार्केट), नई दिल्ली-110001.
5)	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011.
6)	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	घड़ी	10, बिशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001.

## सारणी-II राज्यीय दल

क्र. संख्या	राज्य/राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का नाम	आवृत्ति प्रतीक	पता
1)	आन्ध्र प्रदेश	तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन० दी० आर० भवन, रोड न० 2, ब्रजारा हिल्स, हैदराबाद-500033. (आन्ध्र प्रदेश)
2)	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल कांग्रेस	परम्पर काटते हुए दो दाव	जी-एक्सटेंशन, नहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश)
3)	असम	1. असम गण परिषद् 2. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	हाथी तीन सितारा वाला झंडा	मुख्य कार्यालय:-गोपीनाथ बोरदोलोई रोड, गुवाहाटी-781001 (असम) यू-90, शक्करपुर, दिल्ली-110092
4)	बिहार	1. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा 2. राष्ट्रीय जनता दल 3. जनता दल (यूनाइटेड)	तीर-कमान लालटेन तीर	बैरियाटु रोड, राँची-834008 (झारखण्ड) 13-वी पी हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 7, जन्म मंदिर रोड, नई दिल्ली-110001
5)	गोवा	1. महाराष्ट्रवादी गोमांतक 2. युनाइटेड गोअंस डेमोक्रेटिक पार्टी	शेर दो पत्तियाँ	विकास 'ए' बिल्डिंग, तीसरा तल, फार्मसी कॉलेज के पास, 18वाँ जून रोड, पणजी-403001 (गोवा) पहली मंजिल, कासा डोस अलिया डोस, गोमंत विद्या निकेतन के पीछे एक्सडे फेरिया रोड, माडगांव (गोवा)
6)	हरियाणा	इंडियन नेशनल लोक दल	चश्मा	100, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली।
7)	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल विकास कांग्रेस	टेलीफोन	समखेत बाजार, मंडी-175001 हिमाचल प्रदेश।
8)	जम्मू व कश्मीर	1. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉफेंस	हल	1) शेर-ए-कश्मीर भवन रेजिडेंसी रोड, जम्मू (जम्मू व कश्मीर) 2) नवाई सुब्बू कम्पलेक्स, जीरो ब्रिज, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर)

	2. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल पैथर्स पार्टी	साइकिल	17-वी0 पी0 हाउस रफी मार्ग नई दिल्ली - 110001
	3. जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	स्थाही की दवात और कलम	नौगाम बाई-पास, श्रीनगर-190001. (जम्मू व कश्मीर)
9)	झारखण्ड	1. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	तीर-कमान बैरियातू रोड, रॉची-834008 (झारखण्ड)
		2. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन 13-वी पी हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
		3. जनता दल(यूनाइटेड)	तीर 7, जनरल मंतर रोड, नई दिल्ली-110001
10)	कर्नाटक	1. जनता दल(सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला 5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003.
		2. जनता दल(यूनाइटेड)	तीर 7, जनरल मंतर रोड, नई दिल्ली-110003.
11)	केरल	1. केरल कांग्रेस	साइकिल स्टेट कमेटी आफिस, स्टार थिएटर जंक्शन के पास, कोट्टायम दक्षिण (केरल)
		2. केरल कांग्रेस(एम)	दो पत्तियां स्टेट कमेटी आफिस, फायर स्टेशन के पास, कोट्टायम (केरल)
		3. मुस्लिम लीग केरल स्टेट कमेटी	सीढ़ी केरल स्टेट कमेटी, लीग हाउस, रेड क्रॉस रोड, कालीकट-32 (केरल)
		4. जनशिक्षण समरक्षण समिति	बस केरल राज्य समिति कार्यालय, आयरन ब्रिज डाक घर, एलेप्पी-688011, केरल।
12)	मध्य प्रदेश	समाजवादी पार्टी	साइकिल 18, कोपरनिकस लेन, नई दिल्ली
13)	महाराष्ट्र	शिवसेना	तीर-कमान शिवसेना भवन, गडिकारी चौक, दादर, मुंबई-400028(महाराष्ट्र)
14)	मणिपुर	1. फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर	उदीयमान सूर्य सोरम लैटक, नागा मपल, इम्फाल-795001 (मणिपुर)
		2. मणिपुर पीपुल्स पार्टी	साइकिल पीपुल्स रोड, इम्फाल-795001 (मणिपुर)

15) मेघालय	1. हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	शेर	कैक्स ट्रेस, लाबन, शिलांग-793004 (मेघालय)
	2. मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी	बाद में अधिसूचित किया जाएगा	मिशन कम्पाउंड, मावखार, शिलांग-793001, मेघालय।
	3. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी	इम	मावलाइ नोनगलाम, शिलांग-793002 (मेघालय)
16) मिजोरम	1. मिजो नेशनल फंड	सिताला	जनरल हेडक्वार्टर्स-जरकावत आइजॉल (मिजोरम)
	2. जोरम नेशनलिस्ट पार्टी	सूर्य (किरण रहित)	जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल-796001 (मिजोरम)
	3. मिजोरम पीपुल्स कॉफेंस	बिजली का बल्ब	जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल-796001 (मिजोरम)
17) नागालैंड	1. जनता दल (यूनाइटेड)	तीर	7, जनरल मंटर रोड, नई दिल्ली-110003.
	2. नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेन्ट	बैटरी-टार्च	1) एन0 डी0 एम0 एच0 क्यू0, नागालैंड पो0 बॉ0-106, दीमापुर-797112, नागालैंड 2) चीसी गार्डन, दी हेबीटेड, तीसरा माईल, चीकिया गॉव, दीमापुर 797112, नागालैंड
	3. नागालैंड पीपुल्स फंड	मुर्गा	बर्मा कैम्प, दीमापुर-797112. (नागालैंड)
18) उड़ीसा	बीजू जनता दल	शंख	नवीन निवास, एरोझोम गेट, भुवनेश्वर -751009 (उड़ीसा)
19) पांडिचेरी	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कडगम	दो पत्तियाँ	275, अब्बाई वणमुगम सलाई, रोयापेट्टह, चेन्नई-600014. (तमिलनाडु)
	2. द्रविड मुन्नेत्र कडगम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अटिवालयम', 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018. (तमिलनाडु)
	3. पदाली मक्कल काची	आम	63, नदु मुषु नाइकेन स्ट्रीट, बन्निया तेनामपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु)
20) पंजाब	1. शिरोमणि अकाली दल	तराजू	मकान नं0 256, सेक्टर-9सी, चंडीगढ़।
	2. शिरोमणि अकाली दल (सिमरनजीत सिंह मान)	गाड़ी	फ्लैट नं0 36, सेक्टर-4, चंडीगढ़।

21)	सिक्किम	सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	छाता	अपर देवगली, गंगटोक पूर्व सिक्किम ।
22)	तमिलनाडु	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	दो पत्तियों	275, अक्काई घणमुगम सलाई, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014. (तमिलनाडु)
		2. द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अदिवालयम' 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु)
		3. मरुमलार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	लद्दू	'त्यागम,' नं० 141, रुक्मिणी लक्ष्मी पति सलाई, इनमोटे, चेन्नई-600008 (तमिलनाडु)
		4. पदगाली मक्कल काची	आम	63, नददु मुधु, नाईकेन स्ट्रीट, वन्निया तेनामपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु)
23)	त्रिपुरा	1. इन्डीजीनियस नेशनल पार्टी आफ तवीपरा	दो पत्तियों	अभय नगर, अगरतला-799005. (त्रिपुरा)
		2. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट कलकत्ता-600026 (पश्चिम बंगाल)
24)	उत्तर प्रदेश	1. समाजवादी पार्टी	साइकिल	18, कोपरनिकस लेन, नई दिल्ली
		2. राष्ट्रीय लोक दल	हस्तचालित पम्प	12, तुगलक रोड, नई दिल्ली-110011
25)	उत्तरांचल	समाजवादी पार्टी	साइकिल	18, कोपरनिकस लेन, नई दिल्ली
		उत्तराखण्ड कानि दल	कुर्सी	सैन्डल ऑफिस, पंचकुटी मलीताल, नैनीताल (उत्तरांचल)
26)	पश्चिम बंगाल	1. ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक	शेर	28, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड, नई दिल्ली-110001.
		2. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा और बेलचा	37, रिपन स्ट्रीट, (मुजफ्फर अहमद सरनी) कलकत्ता-700016. (पश्चिम बंगाल)
		3. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता-600026, पश्चिम बंगाल

## सारणी-III

### रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1)	आदर्श लोक दल	आबू नगर, पुलिस थाना फतेहपुर सिटीके सामने, जिला-फतेहपुर, (उत्तर प्रदेश)
2)	आदर्श पोलिटिकल पार्टी	405, कुन्दन भवन कोमर्शियल कॉम्प्लेक्स आजादपुर, दिल्ली-110033
3)	आदर्शवादी दल	जवाहर रोड, खुर्जा-203136, जिला-बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)
4)	अद्वैत ईशावास्यम् कांग्रेस	गुरुआर्जन बाडी आश्रम, टीवा नाकर, मैहर, जिला-सतना, मध्य प्रदेश।
5)	अगर जन पार्टी	वी-949, अग्रवाल वाली गली, मेन कृष्णा गली के पास, मौजपुर दिल्ली-110053.
6)	अजेय भारत पार्टी	ए-14, मोहन एस्टेट्स, मथुरा रोड, नई दिल्ली।
7)	अखंड भारत महासंघ सर्वहारा क्रान्तिकारी पार्टी	सनफूल, कोटा-1, (राजस्थान)
8)	अखंड भारत एकता आन्दोलन	बसंत भवन, 17/34, सिधन स्ट्रीट, काशीपुर पिन कोड-244713, जिला-उधम सिंह नगर (उत्तरांचल)
9)	अखण्ड भारती	ई0-5, प्रथम तल, बाली नगर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015
10)	अखिल भारत हिन्दू महासभा	मदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001.
11)	अखिल भारतीय अमन कमेटी	1/9986, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032
12)	अखिल भारतीय अशोक सेना	117/0/117, गीता नगर, कानपुर-208025, (उत्तर प्रदेश)
13)	अखिल भारतीय भारत माता-पुत्र पक्ष	ऑफिस-नन्दूरवार पिन-425412, जिला-धुलिया (महाराष्ट्र)
14)	अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन सेना	ओम बिल्डिंग, छत्रपति शिवाजी चौक, गोंधाले नगर हदसर, पुणे-411002 (महाराष्ट्र)
15)	अखिल भारतीय कांग्रेस दल (अम्बेडकर)	च-1, कुम्भा नगर, चितौड़गढ़, पिन-312001 (राजस्थान)
16)	अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी	ए-201/2, गली नं० 1, विकास मार्ग, शक्करपुर, दिल्ली-110092.

- 17) अखिल भारतीय दस्तकार मोर्चा  
चैम्बर नं० 187, नई दिल्ली कोर्ट्स, पटियाला हाउस,  
नई दिल्ली-110001.
- 18) अखिल भारतीय देश भक्त मोर्चा  
पुरन्दरपुर, जी.पी.ओ. पटना, (बिहार)
- 19) अखिल भारतीय गरीब पार्टी  
गाँव-कुराना, पोस्ट-सिम्मावाली, जिला-गाजियाबाद,  
(उत्तर प्रदेश)
- 20) अखिल भारतीय गरीब मजदूर किसान पार्टी  
4/74, सेक्टर-4, डा० अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली-110062
- 21) अखिल भारतीय जनरल लेबर पार्टी  
ए-3/85, नन्द नगरी, दिल्ली-93.
- 22) अखिल भारतीय गोरखा लीग  
महावीर बिल्डिंग, लाडेन्ना रोड, दार्जिलिंग-734101  
(पश्चिम बंगाल)
- 23) अखिल भारतीय जनसंघ  
जे-394, शंकर रोड, नई दिल्ली-110060.
- 24) अखिल भारतीय जनता कांग्रेस  
4, यू.एफ. बाबर प्लेस, टोडरमल रोड, बंगाली मार्केट के पास,  
नई दिल्ली-110001.
- 25) अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा  
श्री महात्मा गाँधी विचार केन्द्र, उलदान,  
झाँसी (उत्तर प्रदेश)।
- 26) अखिल भारतीय लोकतांत्रिक अल्पसंख्यक  
जन मोर्चा  
गाँव-बार्वे, पोस्ट दाहु, थाना-ओरमानाजी,  
जिला-राँची (झारखण्ड)
- 27) अखिल भारतीय लोकराज पार्टी  
एच.ओ.-रघुवीर नगर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद (हरियाणा)
- 28) अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी  
गाँव और पोस्ट-दत्तावाली, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश)
- 29) अखिल भारतीय मानव अधिकार दल  
1602, डी.डी.ए. जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एक्वलेव,  
दिल्ली-110093.
- 30) अखिल भारतीय मानव सेवा दल  
ए-74, सेक्टर-12, नोएडा (उत्तर प्रदेश)
- 31) अखिल भारतीय मुस्लिम लीग  
(सेक्युलर)  
खाटी कुआं मुथलपुरा फस्ट, मुरादाबाद-244001(उ०प्र०)
- 32) अखिल भारतीय राजार्य सभा  
आदर्श गुरुकुल शाही, जिला-पीलीभीत,  
पिन कोड-262001, उत्तर प्रदेश।
- 33) अखिल भारतीय राजीववादी कांग्रेस (दुबे)  
डब्ल्यू-जेड-8-93, तंवर मार्केट, रिंग रोड, नारायणा,  
नई दिल्ली-110028.
- 34) अखिल भारतीय राम राज्य परिषद्  
(प्रेम बल्लभ व्यास)  
गौघाट, मथुरा (उत्तर प्रदेश)



- 35) अखिल भारतीय राष्ट्रीय आजाद हिन्द पार्टी एच. ओ-1 आर. 11-12, विस्तार योजना दादाबायी, कोटा (राजस्थान)
- 36) अखिल भारतीय टेलीकम्युनिकेशन शोषित समाज दल वैशाली नगर, सिट्टेश्वर बेस, स्था0 और पो0-लादुर, जिला-लादुर-413512 (महाराष्ट्र)
- 37) अखिल भारतीय संघर्ष दल नंगली भट्टा, फतेहगढ़, चूडीयां रोड, अमृतसर-143001 पंजाब ।
- 38) अखिल भारतीय सेना ओम कला निकेतन संकल्प, को.आ. हाउसिंग सोसायटी, आनन्दगार, विखोदिली पार्क साइट (पश्चिम), मुम्बई-400079 (महाराष्ट्र)
- 39) अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी अखिल भारतीय शिवसेना भवन, गुड मंडी, लुधियाना (पंजाब)
- 40) अखिल भारतीय बेरोजगार पार्टी 7/96-97, विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 41) अखिल भारतीय जनता विकास पार्टी 21-डी, पाकेट ए-3, एक्स्टेंड अपार्टमेंट कालकाजी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली-19.
- 42) अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
- 43) अखिल जन विकास दल 50ए/1ए, नाहरपुर, राव एस0 के0 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-85
- 44) अखिल राष्ट्रवादी पार्टी मोहारवती सिसोदिया भवन, नजदीक डाक बंगला, नादी गेट, कासगंज, जिला एटा (उत्तर प्रदेश)
- 45) अली सेना 1/1, जफराबाद, न्यू झीलमपुर, दिल्ली-110053.
- 46) ऑल इंडिया बाबू जगजीवन राम बाबा साहेब नेशनल कांग्रेस सी-22, बेसमेंट, चिराग एनकलेव, नई दिल्ली-110048
- 47) ऑल इंडिया क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एण्ड बैकवर्ड पीपुल्स पार्टी ब्लॉक ए-1, फ्लैट-2, कलकत्ता-700054, (पश्चिम बंगाल)
- 48) ऑल इंडिया दलित वेलफेयर कांग्रेस फ्लैट नं0 44, सेक्टर बी-4, नरेला, दिल्ली ।
- 49) ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक (सुभासिस्ट) 49-एम, मोतीलाल फर्स्ट स्ट्रीट, मदुरई-625010. (तमिलनाडु)
- 50) ऑल इंडिया गरीब कांग्रेस ए-1/126, सेक्टर-6, रोहिणी, नई दिल्ली ।
- 51) ऑल इंडिया होमलेस पीपुल्स कांग्रेस नवग्राम गरीबा, पो0ओ0 पंचपोटा, साउथ-24, परगना-743518. (पश्चिम बंगाल)
- 52) ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस (सेक्युलर) 2680, चूडीवाला, दिल्ली-110006.
- 53) ऑल इंडिया क्रांतिकारी कांग्रेस 184/1469, मोती लाल नगर-1, गोटेगाँव (पश्चिम) मुम्बई-400104, महाराष्ट्र ।

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 54) | ऑल इंडिया लोकसभा पार्टी                          | गांव-मेहरबान, तहसील और जिला-लुधियाना (पंजाब)   |
| 55) | ऑल इंडिया महिला राज पार्टी                       | 5 ए, ओरियेंट रो, कलकत्ता-700017, (पश्चिम बंगाल)  |
| 56) | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन           | दामुस्सलाम बोर्ड, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)   |
| 57) | ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फंड                         | 148, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001.   |
| 58) | ऑल इंडिया मूवेन्दाट मुन्नानी कड़गम               | लेक एरिया, मेलुट रोड, मदुरई-625107. (तमिलनाडु)   |
| 59) | ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम                           | सी-177, सेक्टर 'जे' अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।  |
| 60) | ऑल इंडिया पीपुल्स पार्टी                         | सेन्ट्रल कमेटी, गांधी नगर, -प्रथम लाइन, बरेल्लामपुर-760001, (उड़ीसा)   |
| 61) | ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल                    | 17, अकबर रोड, नई दिल्ली-110001   |
| 62) | ऑल इंडिया राजीव कान्तिकारी कांग्रेस              | बी-68, जगत पुरी, दिल्ली-110051.  |
| 63) | ऑल इंडिया सद्गुणा पार्टी                         | कात्कीरी, इन्दु ग्राम, आर० के० वी० बी० पेट पोस्ट, कारवेट नगर मण्डल, पिन-517582, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश। |
| 64) | ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मजहबी दल        | गाँव और पो. ऑ. मजीठा, अमृतसर, (पंजाब)  |
| 65) | ऑल इंडिया तफसीली यूनाइटेड पार्टी                 | गाँव-सिमलपुर, पो०-ठाकुर नगर, जिला-24 परगना (एन) (पश्चिम बंगाल)   |
| 66) | ऑल इंडिया द्राइबस एण्ड माइनॉरिटीज फंड            | विंङरुश हिल एनेक्सी, शिमला-2, (हिमाचल प्रदेश)  |
| 67) | ऑल जे एण्ड के. पीपुल्स पैट्रिस्टिक फंड           | जवाहर नगर, हाऊस नं०-97, पुलिस स्टेशन, राघ-बाघ, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)                                      |
| 68) | ऑल झारखण्ड स्टुडेंट्स यूनियन                     | साफेत बिहार, हाटमू, रॉची, रॉची-834002 (झारखण्ड)।   |
| 69) | ऑल केरल एम.जी.आर. द्रविड़ मुन्नेत्र पार्टी       | दास बिल्डिंग नेमोम पी.ओ., तिरुवनंतपुरम-695020. (केरल)  |
| 70) | ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉफेंस (आर्मिडन मारक ग्रुप) | पी.ओ.-तुरा चंदमारी, वेस्टगारो हिल्स-794002. (मेघालय)   |
| 71) | अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस                          | 8-3-323 अमृतपेट, कास रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश  |
| 72) | अम्बेडकर पीपुल्स मूवमेंट                         | 39, सरावना स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)  |

- 73) अम्बेडकर प्रगतिशील रिपब्लिकन दल डा0 लोहिया कॉलोनी, शाहजहाँपुर, पिन-242001.  
(उत्तर प्रदेश)
- 74) अम्बेडकर समाज पार्टी 304, मन्दाकिनी एन्क्लेव अलकनन्दा, नई दिल्ली-110019.
- 75) अम्बेडकरवादी पार्टी 136/1, डायमंडहारबर रोड, कलकत्ता-700063.  
(पश्चिम बंगाल)
- 76) अम्बेडकरिस्ट रिपब्लिकन पार्टी 20, छांडीवाल ले-आउट, रिंग रोड, जोगी नगर,  
नागपुर-440027, महाराष्ट्र
- 77) आगरा बांगाली नं0 2, बल्लव स्टीट, कलकत्ता-700004, (पश्चिम बंगाल)
- 78) अनैतिविया एम.जी.आर. काची 68, हबीबुल्ला रोड, टी नगर, चेन्नई-600017.(तमिलनाडु)
- 79) अनैतिविय तामिझागा मुन्नेत्र कडगम 10/2, नलदर नगर, कलवीरामपालायम, भारतीयार,  
यूनिवर्सिटी (पोस्ट) कोयम्बटूर-641048(तमिलनाडु)
- 80) अण्डमान निकोबार विकास कांग्रेस एम बी-23, एम.जी.रोड, मिडिल पाइंट, पोटे ब्लेयर-741001  
(अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह)
- 81) आन्ध्र नाडु पार्टी 10-5-14/1, मासब टैंक, हैदराबाद-500028 (आन्ध्र प्रदेश)
- 82) आन्ध्र प्रदेश नवोदय प्रजा पार्टी नं0 3-11, तुक्कुगुडा गांव, महेश्वरम मंडल, मनखाल पोस्ट,  
रंगा रेड्डी, जिला-आन्ध्र प्रदेश
- 83) अन्ना तेलुगु देशम पार्टी 4-1-825/8, 9 व 10, एन.टी. आर एस्टेट्स आबिड्स,  
हैदराबाद-500001, (आन्ध्र प्रदेश)
- 84) अन्नदाता पार्टी मंदिर श्री पुस्तोत्तम भगवान, चंद्रभागा-326023,  
झालारपाटन सिटी, जिला-झालाबाड़, (राजस्थान)
- 85) अंतश्चेतन पी0यू0-102, प्रथम मजिल, पीतमपुरा, दिल्ली-110088
- 86) अपना भारत सैनी भवन, कालकाजी माता मन्दिर के पास, कलकाजी,  
नई दिल्ली-110019
- 87) अपना दल 1/2 ए.पी. सेन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 88) अपना हिन्दु राम भक्त पार्टी ग्राम व डाकघर सेमरीखान कोट  
सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश-272192)।
- 89) आर्य सभा 7, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली-110001.
- 90) अति पिछडा जन दल ग्राम: रामपुर बाकली, पो0 एवं जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
- 91) ऑटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमेटी रौंगनीहंग, डिफू-782460, कारबी अंगलोंग (असम)

- 92) अवामी पार्टी ई-11/77, न्यू कॉलोनी, हीज खास एक्स्पेशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017.
- 93) बी० सी० यूनाइटेड फ्रंट 15, सप्तगिरि नगर, टेठी बोवली, हैदराबाद-500028, आन्ध्र प्रदेश ।
- 94) बहुजन एकता पार्टी (आर) 2151/17ए/12, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008.
- 95) बहुजन किसान दल बी-7/108-ए, सफदरजंग एक्स्प्लेन एक्स्पेशन, नई दिल्ली-110029
- 96) बहुजन लोकतांत्रिक पार्टी जी-161, जे.जे. कॉलोनी, वाजीपुर, दिल्ली-110052.
- 97) बहुजन रिपब्लिकन पार्टी म.न. 1-7-1046/18, एस.आर.टी. क्वार्टर्स-18, आजमाबाद, रामनगर, हैदराबाद-500020.(आन्ध्र प्रदेश)
- 98) बहुजन समाज पार्टी(अम्बेडकर) गांव और पो० ऑफिस-सेगती, जिला-अम्बाला (हरियाणा)
- 99) बहुजन विकास पार्टी बी०-3/512 जे० जे० सी० रघुबीर नगर नई दिल्ली-110027
- 100) बाइक वैली टेरीटोरी डिमांड कमेटी स्वराज भवन, सिलेहर रोड, पो०ओ०-शाना और जिला-कट्टीमगंज, पिन-788711, असम
- 101) भारत दल भारत सेवाधाम अस्पृश्यक, कान्तिदीप मौराना, मूरपुर, जिला-बिजनौर (उत्तर प्रदेश)
- 102) भारत जन पार्टी 324, कैलाश नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 103) भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी 3/250, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)
- 104) भारत कान्ति रक्षक पार्टी पुरानी बाजार, पोस्ट-भरवाडी, जिला-कौशांबी, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 105) भारत मंगलम परिषद् जमो बाजार, हास्पिटल चौक, पो०आ० जमो बाजार, जिला सिवान, बिहार
- 106) भारत नव ज्योति संघ 18/25-ए, कुटमावा, फूलबाग, कानपुर-208001. (उत्तर प्रदेश)
- 107) भारत पैशनर्स फ्रंट आर-17, हीज खास एक्स्प्लेन, नई दिल्ली-110016.
- 108) भारत सृजन गीता नगर, बालकेश्वर, आगरा-282004, उत्तर प्रदेश ।
- 109) भारत विशाल पार्टी मकान नं० 196, प्रथम मंजिल, गली बताशां, चावडी बाजार, दिल्ली-110006

- 110) भारत मकफल कांग्रेस एन-30, बेलुचेट्टी रोड स्टीट, एस कार्मिचल, जोलारपेट, नार्थ अर्कोट जिला (तमिलनाडु)
- 111) भारतीय नेताजी पार्टी 3857, चौथा फ़्लस, गायत्री नगर, बंगलौर-560021. (कर्नाटक)
- 112) भारतीय अम्बेडकर पार्टी मेन बाजार, कृष्णा नगर, जाउला फाटक, अमृतसर (पंजाब)
- 113) भारतीय अष्ट जन पार्टी 151, सी. सेक्टर, दूसरी मजिल, कम्मरा नं० 203, इन्दर पुरी, भोपाल-462022(मध्य प्रदेश)
- 114) भारतीय बैकवर्ड पार्टी 71, सूर्य अपार्टमेंट्स, फेजर रोड, पटना-800001 (बिहार)
- 115) भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल बंसल गांव, पो.ऑ.-वेघाट, पट्टी-मत्ता, चौकैट, जिला-अम्बोड़ा (उत्तरांचल)
- 116) भारतीय डेमोक्रेटिक दल नं० 1ए, गंगाई उम्मन कोइल, दूसरी स्टीट, वादापलानी, चेन्नई-600026 (तमिलनाडु)
- 117) भारतीय एकलव्य पार्टी गांव व पो०-बेल्हार कला, तहसील मेहडावल, जिला-संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश
- 118) भारतीय एकता दल 189, बसंत अपार्टमेंट, बसंत विहार, नई दिल्ली-57
- 119) भारतीय गांव ताज दल ग्राम-कुका, पो०ऑ० मकसूदपुर, जिला-कपूरथला (पंजाब)
- 120) भारतीय ग्रामीण दल आर्यव्रत प्रकाशन मंदिर, बस स्टाप, गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- 121) भारतीय हिन्दू सेना आमेर भवन, आमेर, जयपुर (राजस्थान)
- 122) भारतीय जय जवान जय किसान पार्टी ट्रक यूनियन के पास, झज्जर, जिला-रोहतक (हरियाणा)
- 123) भारतीय जन बेरोजगार छात्र दल आर०टी०ओ० ऑफिस के पास, हुसैनगंज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश।
- 124) भारतीय जन कांग्रेस 5158/15 महालक्ष्मी बिल्डिंग, रामकृष्ण मिशन के पीछे, पहाड़गंज लेन, नई दिल्ली-110055.
- 125) भारतीय जन जागृति पार्टी बूजधाम आश्रम, टणहेरा, तहसील-छाता, जिला-मथुरा (उत्तर प्रदेश)
- 126) भारतीय जन किसान पार्टी 35/सी/2, जयन्तीपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद-211011 (उत्तर प्रदेश)
- 127) भारतीय जन सभा मार्फत राजाराम यादव, टघुसीर नगर, न्यू कॉलोनी, देवरिया (उत्तर प्रदेश)

- |      |                                    |  |
|------|------------------------------------|--|
| 128) | भारतीय जन विकास पार्टी             | पूर्व अशोक नगर, पो.-गुलाब हाउस, रोड नं.14ए, कंकडबाग, पटना-20, (बिहार)                      |
| 129) | भारतीय जनतांत्रिक परिषद्           | 8/1, दतिया गेट के बाहर, झॉसी-284001.(उत्तर प्रदेश)   |
| 130) | भारतीय जनवादी पार्टी               | ए-559, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलन्द मस्जिद, दिल्ली-110053.                             |
| 131) | भारतीय किसान कामगार पार्टी         | 214-शाहपुर जट, नई दिल्ली-110049.   |
| 132) | भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी       | नगला दखाल, कोटला रोड, फिरोजाबाद-283203, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश                       |
| 133) | भारतीय कान्तिकाटी कम्मान्द पार्टी  | 214एल.आई.सी. कॉलोनी, टैगोर टाउन, इलाहाबाद-211002 (उत्तर प्रदेश)                            |
| 134) | भारतीय कुशल समाज पार्टी            | 80 यार्ड्स, हट्टिजन बस्ती, म0 नं0-82, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली-110041                        |
| 135) | भारतीय लेबर पार्टी                 | बी.पी.-281, रवि नगर, मुगलसराय, वाराणसी-232101 (उत्तर प्रदेश)                               |
| 136) | भारतीय लोक कल्याण दल               | एरिया/पोस्ट/तहसील-बिकाबुट, जिला-फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)                                     |
| 137) | भारतीय लोक न्याय पार्टी            | 7/103, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दर योजना, आगरा, उत्तर प्रदेश।                               |
| 138) | भारतीय मानव रक्षा दल               | बारखेडा, पठानी, भोपाल-21, (मध्य प्रदेश)  |
| 139) | भारतीय मानवता विकास पार्टी         | 133/4, कुतब एक्क्लेव, फेस-II, नई दिल्ली-110016.  |
| 140) | भारतीय माइनास्टिज सुरक्षा महासंघ   | 410, अर्कडिया बिल्डिंग, सर जे.जे.रोड, जे.जे.हॉस्पिटल के सामने, मुम्बई-400008. (महाराष्ट्र) |
| 141) | भारतीय मोमिन फ्रंट                 | 174, आनन्दपुरी, बेस्ट बोरिंग, कैनाल रोड, पटना-800001 (बिहार)                               |
| 142) | भारतीय मोहब्बत पार्टी (ऑल इण्डिया) | म.नं.-18184, चंदसार बस्ती, भटिण्डा-151001.(पंजाब)  |
| 143) | भारतीय मुस्लिम पार्टी (सिद्दिकी)   | गांव-सूरजपुर, पो.ऑ.-रादादेवरिया, जिला-खीरी-262071 (उत्तर प्रदेश)                           |
| 144) | भारतीय नागरीक पार्टी               | गांव-कनासी, पो.ओ.-कनासी, जिला-फर्रुखाबाद-207501 (उत्तर प्रदेश)                             |
| 145) | भारतीय नवशक्ति पार्टी              | 5, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001  |
| 146) | भारतीय परिवर्तन मोर्चा             | 3/8, शाह नगर, मंगलापुरी टर्मिनल, पालम, नई दिल्ली।  |

- |  |   |
|--|---|
| 147) भारतीय पीपुल्स एण्ड नेशनल सेक्युरिटी नेशनल पार्टी | मार्फत होटल नन्दा, 5वें फ्लास गांधीनगर, बंगलोर-560009 कर्नाटक   |
| 148) भारतीय प्रजा पक्ष                                 | नं.374/ए, प्रथम तल, 1-ब्लॉक, 1-फ्लॉस, रविन्द नाथ टैगोर नगर (आर.टी. नगर), बंगलोर-560032 (कर्नाटक)  |
| 149) भारतीय प्रजातंत्र पार्टी                          | पटेल नगर, रोड नं०-9, पटना-23 (बिहार)  |
| 150) भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल      | मिस्टा, जिला जाजगीर, विकास खण्ड नवगढ़., छत्तीसगढ़.चिल, छत्तीसगढ़.   |
| 151) भारतीय राजीव कांग्रेस                             | 145, ए-1, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029  |
| 152) भारतीय राष्ट्रवादी पक्ष                           | मुकुट निवास, शंकरदास देसाई स्ट्रीट, देसाईवागा नाडियाड-387001, गुजरात ।  |
| 153) भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी                     | सी-2968, सपना कॉलोनी, लखनऊ-226017.(उत्तर प्रदेश)  |
| 154) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल                         | नया सर्पफा, ग्वालियर-474001(मध्य प्रदेश)  |
| 155) भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा                           | नवदीय फतेहगढ़, फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)  |
| 156) भारतीय राष्ट्रीय परिषद्                           | ई-164, समस्तपुर रोड, पांडव नगर, दिल्ली-110092.  |
| 157) भारतीय रिपब्लिकन पक्ष                             | डा. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर, मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र)   |
| 158) भारतीय समाज दल                                    | 85, चौक माकाबु गंज, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)  |
| 159) भारतीय समाज कल्याण पार्टी भारत                    | रवेन्दर इलैक्ट्रॉनिक्स, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, हाबरस, जिला-अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)   |
| 160) भारतीय समाजवादी विकास पार्टी                      | एफ-717 मंगोलपुरी, दिल्ली-110083.  |
| 161) भारतीय समता पार्टी                                | ए-71-निर्माण विहार, नई दिल्ली ।   |
| 162) भारतीय सर्वकल्याण क्रान्ति दल                     | 2/643/सी, रामबाग कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001. (उत्तर प्रदेश)  |
| 163) भारतीय सत्यार्थ संगठन                             | भारत नगर, प्रेम विद्यालय, रेलवे क्वार्टिंग, संकीर्तन कुंज के पीछे बिडला मन्दिर के पास वृन्दावन रोड, जी०टी०पी०-3, मथुरा-281003, उत्तर प्रदेश । |
| 164) भारतीय सेवा दल                                    | 3-1-236/239/1, पहली मजिल, सोमासुन्दरम स्ट्रीट, सिक्कराबाद-500003 (आन्ध्र प्रदेश)  |

- 165) भारतीय श्रमिक दल एल-238, विकास प्राधिकरण कॉलोनी, इंदिरा नगर, राय बरेली (उत्तर प्रदेश)
- 166) भारतीय सुभाष सेना ग्राम और पो.ऑ. बानकमिया शिवरतन सिंह, जनपद-गोन्डा-271302 (उत्तर प्रदेश)
- 167) भारतीय सुराज्य मंच 831, सैक्टर-10, पंचकुला-134113, हरियाणा।
- 168) भारतीय युवा शक्ति बी-32-बी, न्यू गुप्ता कॉलोनी, दिल्ली-110009.
- 169) भारिपा बहुजन महासंघ डॉ. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र)
- 170) भारती समाजवादी मोर्चा 3/1108, देहरादून चौक, सहारनपुर-247001. (उत्तर प्रदेश)
- 171) भारती कृषक सेवा समाज गांव-खारखारी आश्रम, पोस्ट-खरखोदा, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश)
- 172) भारती लोक लहर पार्टी 136, अजीत नगर, अमृतसर (पंजाब)
- 173) भारती नारी संगठन सेक्टर-21/5, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- 174) भारती सर्वदर्शी परिषद् 86/12, डिप्टी का पड.व, देव नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
- 175) भारतीय देशभक्त पार्टी 92/एच/2, प्रताप मार्केट, मुनीरका (मार्फत सोमू प्रेस), नई दिल्ली-110067.
- 176) भारतीय गोरखा जनशक्ति 26/2, एच.डी. लामा रोड दार्जिलिंग-734101. (पश्चिम बंगाल)
- 177) भारतीय हरित क्रान्ति दल गांव व पो0-सोन्टा, वाया -अलीपुर, खेटी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
- 178) भारतीय जन कल्याण पार्टी 199/2, अर्जुन नगर कैथल-136027 (हरियाणा)
- 179) भारतीय जन कांग्रेस (राष्ट्रीय) 113/70बी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना-800023 (बिहार)
- 180) भारतीय किसान मजदूर पार्टी गांव और पोस्ट-मीरपुर, तहसील-खैर, जिला-अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
- 181) भारतीय महाशक्ति मोर्चा जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-209601.
- 182) भारतीय नौजवान दल सेक्टर-6, पॉकेट बी-2, म.न. 23, रोहिणी, नई दिल्ली-110085.
- 183) भारतीय रक्षक पार्टी म.नं. 397, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रोहतक-124001 (हरियाणा)
- 184) भारतीय विकास पार्टी 139-बी, टामुर नगर, न्यू फेड्स कॉलोनी, नई दिल्ली।



185) भूमि जोतक समूह	560/12, कृष्णा नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226005 (उत्तर प्रदेश)
186) श्रष्टाचार विरोधी दल	7/216, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015
187) बिहार पीपुल्स पार्टी	303, श्री ब्लॉक, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001 (बिहार)
188) बिहार विकास पार्टी	कमरा नं० 6, 1-स्पेशल फैमिली हाइप, आर-ब्लाक, पटना-800001 (बिहार)
189) बीरा ओड़िया पार्टी	मार्फत-श्री पी. सामन्तरे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), स्था./पो.ऑ.-मधुपटना, कटक-10 (उड़ीसा)
190) बोत्सैविक पार्टी ऑफ इंडिया	मार्फत-भाई बनसोद जुनी ओली, राम मंदिर काम्पटी, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)
191) बृज प्रदेश निर्माण संघ	श्री अष्टबिन्दो भवन, 28/352, गुदडी मन्सूर खान, आगरा-3 (उत्तर प्रदेश)
192) बुदेलखंड मुक्ति मोर्चा	श्री सुखलाल आइस फैक्ट्री भवन, इलीट चौड़ाहा, झांसी-28400 (उत्तर प्रदेश)
193) बुदेलखंड विकास दल	गांव और पो.ऑ. कुलपाहद, जनपद-हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)
194) चम्पारण विकास पार्टी	ब्लॉक-ए, फ्लैट नं. 102, दारोगा राय पथ, पटना (बिहार)
195) चंडीगढ़ विकास पार्टी	मकान नं० 230, सेक्टर 9-सी, चंडीगढ़-160009
196) छत्तीसगढ़ किसान मजदूर पार्टी	पी० आर० नेगी का मकान, झुलेलाल धाम के पीछे, गली डा० भानु प्रताप सिंह, कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़
197) छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	पो.ऑ. दल्ली राजहारा, जिला-दुर्ग-491228. (छत्तीसगढ़)
198) छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी	हांडीपाड़ा आजाद चौक, रायपुर-492001. (छत्तीसगढ़)
199) किस्तवा मक्कल काची	173-पोन्नागर, तिरुचिरापल्ली-620001. (तमिलनाडु)
200) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट	नं.9, रोसारी चर्च रोड, सनबोमे, चेन्नई (तमिलनाडु)
201) क्रिश्चियन मुन्नेत्र कडगम	93 तैयप्पा मुदाली स्ट्रीट, चेन्नई-600001. (तमिलनाडु)
202) कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी	कुन्नुकुझी, त्रिवेन्द्रम-695037. (केरल)
203) कांग्रेस (सेक्युलर)	राम राज भवन, मनीक्काठ रोड, कोचीन-16 (केरल)
204) कांग्रेस जनायक पिरावाई	24, ओरमेस रोड, किलपंक, चेन्नई-600010

- 205) कांग्रेस ऑफ पीपुल 5, पेद्रोपोलिस कोलाबा, मुम्बई-400005 (महाराष्ट्र)
- 206) कोंगुनाडु मक्कल काची टी.टी. एस. काम्पलैक्स-58, मेदुट्ट रोड, इरोडे जिला-638011 (तमिलनाडु)
- 207) दलित मजदूर किसान पार्टी इ-11/77 ब्यू कॉलोनी, हौज रानी मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017.
- 208) दलित मुस्लिम विकास पार्टी 2/306, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली-110062.
- 209) दलित समाज पार्टी नव चेतना पब, शिवपुरी, पो.ऑ.-अनीशाबाद, पटना-800002 (बिहार)
- 210) दिल्ली परिवर्तन पार्टी ई-37, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110027
- 211) दिल्ली विकास पार्टी बी-600, जहांगीर पुरी, दिल्ली-33.
- 212) डेमोक्रेटिक बहुजन समाज मोर्चा ग्राम-सोत्रान, पो.-चक कालाई तहसील व जिला-नवांशहर, (पंजाब)
- 213) डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी 985-बी, अर्जन नगर, लाडोवाली रोड, जालन्धर सिटी-144001, पंजाब
- 214) डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी 291, ओडियन वाली गली, गोपाल मंदिर के पास, मजीठा रोड, अमृतसर (पंजाब)।
- 215) डेमोक्रेटिक दल ऑफ हरियाणा पेंटावास हाऊस, भिवानी रोड, चरखी दादरी, जिला-भिवानी, हरियाणा।
- 216) डेमोक्रेटिक फार्वर्ड ब्लॉक 66, तमिल संगम रोड, मदुरई-625001.(तमिलनाडु)
- 217) डेमोक्रेटिक इन्साफ पार्टी डी-62, जी.टी.बी. नगर (करेली), इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश)
- 218) डेमोक्रेटिक जनता दल(जे. एण्ड के.) 344ई.पी. क्रिस्टेन कॉलोनी (शहीदी चौक) जोगी गेट, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)
- 219) डेमोक्रेटिक झारखंड मुक्ति मोर्चा पम्प रोड, टोंका टोली, पो.ऑ. चकवरपुर-833102. सिंहभूम पश्चिम (झारखण्ड)
- 220) डेमोक्रेटिक मूवमेंट वार्ड नं. 1, कथुआ (जम्मू और कश्मीर)
- 221) डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 162, आनन्दराव उमरा मार्ग, अशोक नगर, नागपुर-17 (महाराष्ट्र)
- 222) डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपुल पार्टी अखाम लिंकई, क्वाकैथल एयरपोर्ट रोड, इम्फाल-795001, मणिपुर

- 223) डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चन्द्र) 63-अनन्दा पलित रोड, कोलकाता-700014 पश्चिम बंगाल।
- 224) देश बचाओ जन मोर्चा डी-6/171, सेक्टर-31, नोएडा-201301. (उत्तर प्रदेश)
- 225) देश भक्त पार्टी बी-114, प्रीत विहार, दिल्ली-92.
- 226) देसिया पातुकाप्पु कडगम 'अरिवागम' 33, रामकृष्ण स्ट्रीट, गांधी नगर, सालीग्रामम, चेन्नई-600093 (तमिलनाडु)
- 227) देव सेना पार्टी ग्राम व पोस्ट:- सकरोद, तहसील व जिला-राजस्मंद (राजस्थान)
- 228) धीराचिदा तेलुगार मुन्नेत्र कलागम 4/802, कुरुंजी स्ट्रीट, तहसीलदार नगर, मदुरै-625020.
- 229) दिव्या शक्ति पार्टी 7/106, ग्राउंड फ्लोर, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031.
- 230) द्रविड मक्कल कांग्रेस नं० 11, जवाहरलाल नेहरू रोड, एवेन्यु, अशोक नगर, चेन्नई-600083. (तमिलनाडु)
- 231) द्रविड पेशवाई 69, रंगापिल्लई स्ट्रीट, पांडिचेरी-605001.
- 232) द्रविड विज्ञापुनारची कडगम 17-ए, गंगप्पा स्ट्रीट, (ए.वी.एम. स्टुडियो के सामने) बडपलानी, चेन्नई-600026. (तमिलनाडु)
- 233) एकता कान्ति दल यू.पी. मार्फत-सत्यपाल सागर अमनजय, जलाल नगर, छोटी लाइन के सामने, शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश)
- 234) एकता समाज पार्टी 6898, नीम स्ट्रीट, अहंता किदावा, बाडा, हिन्दू राव, दिल्ली-110006.
- 235) एकता शक्ति झंझाडी, पो०-मैनी खुर्द, तहसील-नीलोखेडी, जिला-कटनाल, हरियाणा।
- 236) इफेम यूनियन त्तांगडिंगिलआना बिल्डिंग, बाबंगकावन साउथ, आइजॉल-796012. (मिजोरम)
- 237) फार्मर्स डेवेलपमेंट्स पार्टी 149, माम्बालम, हाई रोड, टी नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु
- 238) फेडरल कांग्रेस ऑफ इण्डिया होलम्बी खुर्द, गॉव व पो०-होलम्बी कला, दिल्ली-110082
- 239) फेडरेशन ऑफ सभास 101, सावित्री काम्प्लेक्स, चौधरी सिनेमा के सामने, गाजियाबाद-201001. (उत्तर प्रदेश)
- 240) फर्चर्ड ब्लॉक (सोशलिस्ट) टेम्पल स्ट्रीट, पो.ऑ. व जिला-जलपाईगुडी-735101. (पश्चिम बंगाल)

- 241) गांधीवादी राष्ट्रीय कांग्रेस टीचर्स कॉलोनी, तहसील रोड, महोरिया, पोस्ट-महोरिया टाऊन और जिला-मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)
- 242) गरीबजन समाज पार्टी 450, जयदेवी नगर, गढ़ रोड, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
- 243) गरीब जनता पार्टी राजिन्दर नगर, मेन बाजार, पो.ऑ.-विजय नगर, बटाला रोड, अमृतसर (पंजाब)
- 244) गारो नेशनल काउन्सिल न्यू तुला, पश्चिम गारो हिल्स, (मेघालय)
- 245) गोवा पीपुल्स कांग्रेस मेनेजेस बिल्डिंग के सामने, अ. हो, पणजी, गोवा-403001.
- 246) गोवा पोकस मैनेजेस बिल्डिंग के सामने, अ. न. हो, पणजी, गोवा-403001
- 247) गोवा राजीव कांग्रेस पार्टी प्रथम तल, हायस बिल्डिंग, रूआ ओरमुज रोड, फौरी क्लार्क के सामने, पणजी, गोवा-403001
- 248) गोवा सु-राज पार्टी 383-ए, पीराजोना, मोइरा, बारडेज, गोवा, पिन-403514.
- 249) गोवा विकास पार्टी लक्ष्मी सदन, ग्राउंड फ्लोर, असेम्बली कॉम्प्लेक्स के सामने, जर्नलिस्ट कॉलोनी के पास, पूरवोरिम, गोवा-403507
- 250) गोल्डन इण्डिया पार्टी 'नन्दन वन', बी 94-ज्ञान मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)
- 251) गोमान्त लोक पोकस 31 जनवरी रोड, पो. बॉक्स-242, पंजिम (गोवा)
- 252) गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ग्राम व पो.ऑ. तिवेई, तहसील कुटघोरा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
- 253) गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट डॉ० जाकिर हुसैन रोड, (जलपहाड़ रोड) पो.ऑ. और जिला दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (पश्चिम बंगाल)
- 254) ग्राम मुन्नेत्र कड़गम 'जैड' मंगाम्मल सलाई, रेंगानगर, तिरुचिरापल्ली-620021.
- 255) गुजरात आदिजाति विकास पक्ष ब्लॉक नं. 6/4, एम.एल.ए. निवास, सेक्टर-21, गाँधी नगर (गुजरात)
- 256) गुजरात स्टेट जनता कांग्रेस इन्दुभाई पटेल भवन, वंसत चौक, भाद्रा, अहमदाबाद-380001 (गुजरात)
- 257) गुजरात युवा विकास पार्टी मार्फत दरबार कृषा ट्रान्सपोर्ट, बस स्टेशन के पास, बाइनगर-384355 मेहसाना (गुजरात)
- 258) हरियाणा गरीब पिछड़ा युवा संगठन पार्टी ग्राम व पोस्ट-अहरिका, तहसील व जिला-जिन्द (हरियाणा)

- 259) हरियाणा जनरक्षक दल 249/3, पार्क रोड, आदर्श नगर, गोहाड़ा जिला सोनीपत, हरियाणा।
- 260) हरियाणा लोक दल 705, सोनीपत रोड, रोहतक (हरियाणा)
- 261) हरियाणा रिपब्लिकन पार्टी 129-एल, ब्लू कॉलोनी, पलवल, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा।
- 262) हरियाणा विकास पार्टी क्रेटी नम्बर 136/22, सोनीपत रोड, रोहतक (हरियाणा)
- 263) हिमाचल क्रांति पार्टी ग्राम-खार्द, पो.ओ.नंदरूल, तहसील और जिला-कांगड़ा-176001
- 264) हिमाचल प्रदेश स्टेट अकांली दल बस स्टैंड के पास, पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश।
- 265) हिन्द किसान मजदूर पार्टी 31/419, कैला हाऊस, महाराणा प्रताप नगर, आगरा-4 (उत्तर प्रदेश)
- 266) हिन्द मोर्चा समाज सुधार आश्रम, सिरसपुर, (दिल्ली)
- 267) हिन्द स्वराज्य गणतन्त्र पार्टी एस-41, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017.
- 268) हिन्द विकास पार्टी पो.ओ. श्री हठ भगवान नगर तापाकालान, काली मन्दिर के पास, जलेसर रोड, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 269) हिन्दू एकता आन्दोलन पार्टी हिन्दी एकता कार्यालय, मल्हार, खान भद्रा, पुलिस चौकी, मकान नं० 927/1, सांगली-416416, जिला सांगली, महाराष्ट्र।
- 270) हिन्दू समाज पार्टी 117/के-36, सर्वोदय नगर कनपुर (उत्तर प्रदेश)
- 271) हिन्दुस्तान जनता पार्टी मैसर्स सोनो सेल्स कोरपोरेशन सब्जी मण्डी, खोक्डपुरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
- 272) हिन्दुस्तान पार्टी 202, देविका अपार्टमेंट्स, बाबा जन पूना-411001 (महाराष्ट्र)
- 273) हिन्दुस्तानी गरीबवादी पार्टी 61, अग्रवाल चैम्बर्स, विकास मार्ग, वीर सावरकर ब्लॉक शकटपुर, दिल्ली-110092.
- 274) हिन्दुस्तान सुरक्षा पार्टी नार्थ-इस्ट जोन, बरपेटा रोड, दूधिमट लोड के पास, बार्ड नं० 6, जिला बरपेटा, (आसाम)
- 275) हमार पिपुल्स कन्वेंशन द्वारा लालुवा, मकान नं०-ए/56, बावंगकाउन चिमवेग, एजल-796014 (मिजोरम)।
- 276) इक्किया मक्कल मुन्नेत्र कडगम मक्कलगाम नं० 11, पर्ल एम्पायर अपार्टमेंट, कुप्पम बीच रोड, तिरुवनमियुर, चेन्नई (तमिलनाडु)
- 277) इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी 2/3, अम्बेडकर नगर, पोस्ट-नगीना, जिला-बिजनौर-246762 (उत्तर प्रदेश)

- 278) इंडियन फिशियन फंड लॉट नं० 660, ईस्ट लास्ट रोड, अन्ना नगर, मदुरई-625020
- 279) इंडियन फिशियन सेक्युलर पार्टी सगाया माथा मालीगई नं० 105/167, तिरुवेलुयार नगर, अयानावारम, चैन्नई-600023 तमिलनाडु।
- 280) इंडियन एकता पार्टी ए-180, सेक्टर-40, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
- 281) इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी 1, बलवन्त राय मेहता लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
- 282) इंडियन जस्टिस पार्टी 5, पूसा रोड, तीसरी मंजिल, क्योल बाग, नई दिल्ली-110005
- 283) इंडियन लिबरेशन फंड टी-16, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016.
- 284) इंडियन नेशनल ग्रीन पार्टी ए-44, पर्यावरण काम्प्लेक्स, सेंदुला जैब, नई दिल्ली-30.
- 285) इंडियन नेशनल लेबर पार्टी ट्युनी मुखर्जी स्मृति, भाबर, कोल डॉक रोड, (पहले कोल कन्ट्रोलर्स ऑफिस) कलकत्ता-700043. (पश्चिम बंगाल)
- 286) इंडियन नेशनल लीग नं. 7, बलवन्त राय मेहता लेन, कस्तूरबा गॉंधी मार्ग क्रास, नई दिल्ली-110001
- 287) इंडियन पीस पार्टी एक्स-919, चौद मौहल्ला, गॉंधी नगर, दिल्ली-110031.
- 288) इंडियन पीपुल्स कांग्रेस 79, लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली-110001.
- 289) इंडियन रिपब्लिकन फंड 36/19/3, पी० डी० किडगंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 290) इंडियन सेक्युलर कांग्रेस 202, पाकेट-बी, एस.एफ.एस.(डी.डी.ए.फ्लैट्स) सुखदेव विहार, नई दिल्ली-110025.
- 291) इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 18, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001.
- 292) इंडियन्स विक्ट्री पार्टी 54-बी, हेनरी रोड, नागरकोइल-629001, तमिलनाडु।
- 293) इस्लाम पार्टी हिंद मौहल्ला-राजडे पुर, पो०-सिटी नगर, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
- 294) जगत तेलुगु मुन्नेत्र कडगम नं० 33, हात्स रोड, पी.ए. टावर, एफ-9 ओर 10, एग्मोटे, चेन्नई-600058, (तमिलनाडु)
- 295) जय भारत पार्टी आर जैड एच-710इ (इ/54), राज नगर-11. (देव हास्पिटल के पास) पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45.
- 296) जय हिन्द पार्टी वार्ड नं० 6, सुपौल, पो० व जिला-सुपौल, बिहार-852131
- 297) जय जवान जय किसान मजदूर कांग्रेस डब्ल्यू जैड-553-ए/3, सोनी कुंज, नांगल राय, नई दिल्ली-110046

- 298) जय प्रकाश जनता दल 16, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
- 299) जय तेलंगाना पार्टी मं० नं० 34/9, एस.बी.एच. कॉलोनी, श्रीनगर, हैदराबाद-500073 (आन्ध्र प्रदेश)
- 300) जय विजय भारतीय पार्टी पो० ऑ० चिन्नागोदरीगत्तूर, जिला -चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश ।
- 301) जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी नेशनल कांफेस 3-आर सी क्वाटर, प्रेस एक्क्लेव, प्रताप पार्क, श्रीनगर-190001 (जम्मू व कश्मीर)
- 302) जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स कांफेस जनरल ऑफिस, ओल्ड सैक्रेटेरिएट रोड, श्रीनगर-190001 (जम्मू व कश्मीर)
- 303) जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी लीग केन्द्रीय कार्यालय नं. 1, दुर्गानाग रोड, बर्ने हाल स्कूल के निकट, सेनाघर, श्रीनगर-190001.(जम्मू व कश्मीर)
- 304) जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट 168, रावलपोरा हाउसिंग कॉलोनी, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर)
- 305) जन चेतना पार्टी चेम्बर नं.475, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054
- 306) जन कान्ति मोर्चा 89-एम, किदवई नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
- 307) जन लोक कल्याण पार्टी ग्राम तथा पोस्ट: बुदाडा, तहसील-शामली, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
- 308) जन समानता पार्टी बी-125, नवजीवन कैम्प, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, दिल्ली-110019.
- 309) जन सेवा पार्टी जे.-7, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, दिल्ली-110092.
- 310) जन हितकारी पार्टी ए/13-14, इंडस्ट्रियल एस्टेट, रसूलगढ़., भुवनेश्वर-751010, उड़ीसा ।
- 311) जन प्रिय ए/2, कास्टेल-5, कार्नेवल रोड, बंगलौर-560025.(कर्नाटक)
- 312) जन उन्नयन मंच मार्फत डोलफिन इंजिनियरिंग कम्पनी, सेक्सपेयर सरणी, 5वॉ तल, कोलकाता-700017, पश्चिम बंगाल
- 313) जननिष्ठा मोहन विला, ए-1/347, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058.
- 314) जनता कॉंग्रेस पार्टी ऑफ भारतवर्ष ए-15/2, बसन्त विहार, पी.बी. नं० 8801. नई दिल्ली-57.
- 315) जनता पार्टी ए-77 निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली ।
- 316) जनता विकास पार्टी अब्बेक भवन, उदयनगर कॉलोनी, सागर रोड, विदिशा (मध्य प्रदेश)
- 317) जनहित मोर्चा कोठी नं० 75, सेक्टर-17, पंचकुला-134109.(हरियाणा)

- 318) जनहित समाज पार्टी भगवती मार्किट, शिव मन्दिर के पास, बैली रोड, जगदेव पथ, पोस्ट-बी०वी० कालेज, पटना-800014 (बिहार)
- 319) जनमंगल पक्ष राम प्रताप, गीता नगर, मेन रोड, गुस्कुल के पास, राजकोट -360002 (गुजरात)
- 320) जनसत्ता पार्टी 6-ए, प्रेम विहार जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर, (उत्तर प्रदेश)
- 321) जनसेवक समाज पार्टी 159, बुद्धाश्रम, तापा रोड, मोहल्ला-खेरा, फिरोजाबाद-283203 (उत्तर प्रदेश)
- 322) जवान किसान मोर्चा निर्मल प्लेस, न्यू कॉलोनी, पकड़ी, आरा, बिहार-802301
- 323) जेबामणि जनता नं० 33, सैकड स्ट्रीट, पूर्व अबियामपुरम, माइलापोर, चेन्नई-600004. तमिलनाडु।
- 324) झारखंड दिशोम पार्टी 12, मार्ग सं० 21, कदमा फार्म एरिया, जमशेदपुर-831005, झारखण्ड।
- 325) झारखण्ड की क्रान्तिकारी पार्टी गाँव और पोस्ट-नवगढ़, जिला-राँची-835103.
- 326) झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान) शुक्ला कॉलोनी, पोस्ट हिनू, राँची जिला, राँची-834002. (झारखण्ड)
- 327) झारखण्ड पार्टी मेन रोड, राँची (झारखण्ड)
- 328) झारखण्ड पार्टी (नरेन) स्थान-रघुनाथपुर, पो.ऑ.-झाड़ग्राम, जिला-मिर्जापुर-721507 (पश्चिम बंगाल)
- 329) झारखण्ड पीपुल्स पार्टी पो.ऑ. लौबासा, जमशेदपुर, पु०स्टे०-गोविन्दपुर, जिला-सिंहभूम (पूर्व) झारखण्ड।
- 330) झारखण्ड वनांचल कांग्रेस 5, रातू रोड, राँची-834005, झारखण्ड।
- 331) झारखण्ड विकास दल 10, ए.पी.एन. बोस कम्पाउण्ड, राँची-834001 (झारखण्ड)
- 332) कैपिनयगोर मुन्नेत्र कड़गम श्री विश्वेश्वर भवनम, 76, मिलर्स रोड, किलपोक, चेन्नई-600010 (तमिलनाडु)
- 333) कामराजार अदितनार कड़गम 6-ई, संस्थान कोइल स्ट्रीट, पुषुकुदिहुरुपु नागोरकोइल-629001 (तमिलनाडु)
- 334) कामराजार देसीया कांग्रेस 7-वेलायुथा, राजा स्ट्रीट, राजा अन्नामलाईपुरम, मंडावेली, चेन्नई-600028 (तमिलनाडु)
- 335) कामगार समाज दल मकान नं० 9/237, मोहल्ला: रायडोपुर, पोस्ट एवं जिला-आजमगढ़., उत्तर प्रदेश।



- 336) कमजोर वर्ग संघ; बिहार  
सेंट्रल ऑफिस-पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री नगर,  
पोस्ट ऑफिस, (ऊपर फ्लोर) पटना-800023 (बिहार)
- 337) कांथी अटिगेट अन्ना द्रविड़ मक्कल कड़गम  
नं० 10ए, नाथम मेट्टु स्ट्रीट, चेंगलपट्टु, (तमिलनाडु)
- 338) कन्नड़ पक्ष  
नं० 259/1, फर्स्ट फ्लोर, दंगारवामी टेम्पल स्ट्रीट  
(जैन टेम्पल के सामने) बंगलौर-560053 (कर्नाटक)
- 339) कन्नड़ चालवाली बाटल पक्ष  
154, दंगारवामी टेम्पल स्ट्रीट, बंगलौर-560053.(कर्नाटक)
- 340) कन्नड़ नाडु पार्टी  
गिरिराज एनेक्सी, सर्कट हाऊस रोड., हुबली-580029  
(कर्नाटक)।
- 341) कर्नाटक कानि दल  
नं० 240, सिक्सटीन्थ मेन, सिक्सथ फ्लास, फर्स्ट फेज, ॥ स्टेज,  
वी.टी.एम.(ई डब्ल्यू एस) लेआउट, बंगलौर-560076(कर्नाटक)
- 342) कर्नाटक राज्य द्योता संघ  
636, आईडल होम्स ले आउट, राजाराजेश्वरीनगर  
बंगलौर-560098 (कर्नाटक)
- 343) कर्नाटक तामीझार मुन्नेत्र कड़गम  
नं. 6, ॥ फ्लोर, चिक बाजार रोड, कन्न शिवाजी नगर,  
बंगलौर-560051 (कर्नाटक)
- 344) केरल काँग्रेस (जेकब)  
वार्ड 13, बिल्डिंग 346, टी.बी. रोड, कोट्टायम (केरल)
- 345) केरल काँग्रेस (बी)  
पी.टी. चाको स्मारक, मन्दिरम्, एस.एस. कोबिल रोड,  
थाम्पनूर तिरुवनपुरम-695001. (केरल)
- 346) खासी फार्मर्स डेमोक्रेटिक पार्टी  
मालकी चीनापट्टी, शिलांग-793001, मेघालय।
- 347) खून हिन्दूदिप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट  
द्वारा खासी स्टूडेंट यूनियन का कार्यालय जैव चापेल रोड,  
शिलांग-793002, मेघालय।
- 348) किसान कानि दल  
नांगला मुखदेव, नीमखेरा-जलेसेर, जिला-एरा, (उत्तर प्रदेश)
- 349) किसान मजदूर बहुजन पार्टी  
जे-1/2, दली बाग कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 350) किसान नौजवान पार्टी  
राजेन्द्र नगर, करमेर रोड, ओरई, जिला-जालौन, उत्तर प्रदेश
- 351) किसान विकास पार्टी  
अब्दुल पुरा, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश)
- 352) किसान व्यवसायी मजदूर पार्टी  
प्रकाश भवन, नरही बाजार, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
- 353) कोंगू नाडु मुनेत्र कड़गम  
320, बेस्ट कमप्लेक्स कुमारन रोड, त्रिपुरा-641601  
कोयम्बटूर (जिला) तमिलनाडु।
- 354) कोसल पार्टी  
जी.एम. कॉलेज रोड, सम्बलपुर-768004.(उड़ीसा)

- 355) कौशी विकास पार्टी मछली भवन, डॉ अम्बेडकर मार्ग, गांव, पो 0 व जिला-खगडि.या, बिहार-851204
- 356) कानि दल 132, बाबूगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 357) कानिकाटी जयहिन्द सेना द्वारा एडवोकेट आर० एन० काचवे, देवी प्रसाद होटल के पास, एम आई डी सी सेन्ट्रल रोड, अम्बेरी "पूर्व", मुम्बई-400093, महाराष्ट्र।
- 358) कानि परिषद् म० न० 2019, मिस्त्रीखान रोड, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (राजस्थान)
- 359) कानिकाटी बेरोजगार पार्टी म०न० 86, विनोबा वाई, वाई न० 6, जैन मन्दिर के पीछे, गवर्मेन्ट गर्ल्स स्कूल रोड, सिहोर, जिला-जबलपुर, 483225 (मध्य प्रदेश)
- 360) कानिकाटी मनुवादी मोर्चा एफ-62, सैक्टर-II, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)
- 361) कानिकाटी समाजवादी पार्टी लोहिया 18/22, ताशकन्द मार्ग, मूलचन्द यादव चौराहा सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 362) कानिकाटी साम्यवादी पार्टी एम एल ए फ्लैट न० 26, वीर चन्द पटेल पथ, पटना (बिहार)
- 363) कुडी मक्कल काची संख्या 7 कामराजार स्ट्रीट, पत्नीक्कारानै, चेन्नई-601302 (तमिलनाडु)
- 364) कूकी नेशनल असेम्बली ग्रेस कॉटेज, पेटेवेंग, कवाकेलथेल, पो.ऑ.-इम्फाल, पिन-795001. (मणिपुर)
- 365) लेबर एण्ड जॉब सीकर्स पार्टी ऑफ इण्डिया 66, रोयेपेट्टा हाइ रोड, मायलापोट.चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)
- 366) लेबर पार्टी (सेन्थुलुर) डी-338, सैक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)
- 367) लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया (बी.बी. प्रसाद) 4, रामचन्द्र लेन, राम किशोर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
- 368) लेबर विकास पार्टी 1407, न्यू प्रीत नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना (पंजाब)
- 369) लैराम पीपुल पार्टी मुख्यालय-लावंगलाई, पो.ऑ. लावंगलाई-796891 (मिजोरम)
- 370) लट्टिन कांग्रेस बवाली, पोस्ट-खाश, जिला-मेरठ-250621.(उत्तर प्रदेश)
- 371) लाइफ पीसफुल पार्टी सर्वधर्म भवन, हिन्दू-मुस्लिम विश्वशान्ति आश्रम एवं कौमूसोहार्द, विश्वशान्ति, सर्वधर्म आश्रम ट्रस्ट, राजनगर, पूना-बंगलौर रोड, तुमकुरु-572106.(कर्नाटक)
- 372) लोक भलाई पार्टी 5-एफ एफ, राजगुरु नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना, (पंजाब)

- 373) लोक दल  
सी-616, बुधनगर, इन्दुपुरी, नई दिल्ली-110012.
- 374) लोक हित पार्टी  
बस्ती अब्दुलापुरा, लुधियाना-3, (पंजाब)
- 375) लोक जन शक्ति पार्टी  
12-डी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001.
- 376) लोक राज्य पार्टी  
221/20, गीत गुब्बान सोसाइटी, सैक्टर-2, चारकोप, कन्डीवली "पश्चिम", मुम्बई-400067, महाराष्ट्र।
- 377) लोक सेवा दल  
पोस्ट बघिया, तहसील लखीसराय, बिहार-811302
- 378) लोक शक्ति  
83, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003.
- 379) लोक विकास पार्टी  
41, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092.
- 380) लोकप्रिय समाज पार्टी  
प्रजापति धर्मशाला मंदिर, श्री कालका जी, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019
- 381) लोकतांत्रिक चेतना पार्टी  
मुमताज मजिल, आजाद नगर, बॉम्बे (उत्तर प्रदेश)।
- 382) लोकतांत्रिक जन समता पार्टी  
सी. 7/166, यमुना विहार, दिल्ली-110053.
- 383) लोकतांत्रिक मोर्चा हिमाचल प्रदेश  
212, जवाहर सदन, शिमला-171004 हिमाचल प्रदेश।
- 384) लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी  
27-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110022.
- 385) लोकतांत्रिक समता दल  
डी0-104, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001 (बिहार)
- 386) लोकतांत्रिक जनता फंड  
डी-351/12, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092.
- 387) एम.जी.आर. कड़गम  
32, ब्यू टैंक स्ट्रीट, नुंगमबक्कन, चेन्नई-600034. (तमिलनाडु)
- 388) एम.जी.आर. मुन्नेत्र कड़गम  
कोन्नूर हाई रोड (केनाल एरिया) ओट्टेरी, चेन्नई-600012 (तमिलनाडु)
- 389) मातृ भूमि रक्षा दल  
205, बी-30, प्रकाश ट्रेड सेंटर, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
- 390) मध्य प्रदेश किसान मजदूर आदिवासी कान्ति दल  
विधायक विश्राम गृह, कमरा नं० 95, भाग-III, भोपाल-462003, मध्य प्रदेश।
- 391) मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक पार्टी  
19, दुर्गा कॉलोनी, संजीवनी नगर, गुड्डा, जबलपुर-482002 (मध्य प्रदेश)
- 392) महाभारत महाजन सभा  
प्लॉट नं० 10, विवेकानंद नगर, इनर टिम रोड, कोलाशुर, चेन्नई-600099. (तमिलनाडु)

- 393) महाकौशल विकास पार्टी 'शान्ति कुटीर' 281, संजीवनी नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
- 394) महाराष्ट्र प्रदेश कानिकाटी पार्टी स्थान/पोस्ट-तालुक कोरेगांव, कोरेगांव, जिला-अतारा (महाराष्ट्र)
- 395) महाराष्ट्र राजीव कांग्रेस डा0 बाबासाहेब अम्बेडकर नगर, बस स्टाप नं0 379 के पास, पी.एल. लोखन्डे मार्ग, चेम्बुर, मुम्बई-400089 (महाराष्ट्र)
- 396) महाराष्ट्र सेक्युलर फंड हिल व्यू, 109, ए/2, वैशाली नगर, (एस वी पी रोड, धारवाडी) दहीसर (पूर्व) मुम्बई-68 (महाराष्ट्र)।
- 397) महाराष्ट्र विकास कांग्रेस स्थान व पोस्ट-जलगांव, जिला-जलगांव-425001 (महाराष्ट्र)
- 398) महाशक्ति इंकलाब पार्टी टिगरी, खुशालपुर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
- 399) महिला अधिकार पार्टी 29-ए नहरपुर, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085.
- 400) मजलिस बचाओ तहरीक 16-4-593/ए चानेटलगुडा, हैदराबाद-500024. (आन्ध्र प्रदेश)
- 401) मक्कल नालीरीमैक कड़गम (पीपुल्स लिबरल पार्टी) 629, अन्ना सलाई, चेन्नई-600006. (तमिलनाडु)
- 402) मक्कल शक्ति इयक्कम 17-ए, साउथ एवेन्यू, कामराजनगर, तिरुवनमिपुर, चेन्नई-600041 (तमिलनाडु)
- 403) मक्कल तमिल देशम 14, हनुमन्ना रोड, बालाजी नगर, शोयापेट्टाह, चेन्नई-600014, तमिलनाडु
- 404) मक्कल विलीपुनार्तु इयाकाम सीरानामपालयम, पालाकरई-638057, शुबुपाथी (घाया), पेरन्दुरई तालुक, इरोड जिला, तमिलनाडु
- 405) मानव जागृति मंच 552, बैंक कॉलोनी, देवली गांव, नई दिल्ली-110062
- 406) मानव कल्याण संघ दल गद्दी स्थान-मेहतवाड़ा, तहसील-आस्बा, जिला-मेहोरे (मध्य प्रदेश)
- 407) मानव समाज पार्टी 9538, गोशाला बारादरी किशनगंज, दिल्ली-110006.
- 408) मानव सेवा पार्टी सी-6/28, सफदरजंग डेवलेपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016.
- 409) मानव पार्टी जी-23, यूरेका टावर्स, किट्टूर चेन्नम्मा सर्किल, हुबली-580029. (कर्नाटक)
- 410) मणिपुर नेशनल कांग्रेस बाबूपारा इम्फाल, मणिपुर-795001
- 411) मणिपुर पीपुल्स पार्टी (डेमोक्रेटिक) क्वार्टर नं0 1, टाईप-4, बाबूपारा, इम्फाल-795001, (मणिपुर)
- 412) मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी कैशमपट (राजभवन के सामने), इम्फाल-795001 (मणिपुर)

- 413) मनुवादी पार्टी 201, बिरहाना, पांडेगंज, सुभाषमार्ग, लखनऊ-226004. (उत्तर प्रदेश)
- 414) मारालैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट सेहा-796901, छिमतुईपुई जिला-(मिजोरम)
- 415) मरूमालाटची तमिझाकम 1/19, ओनानगुडी(डा0), अनिमालय (वाया) पुडुकोटाई, जिला- (तमिलनाडु)
- 416) मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (एस.एस. श्रीवास्तव) सैदपुर, पटना-800004 (बिहार)
- 417) मार्क्सिस्ट कोअर्डिनेशन 115-एम.एल.ए. फ्लैट, वीरचंद पटेल पब, पटना-800004. (बिहार)
- 418) मातृ भूमि विकास पार्टी मार्फत श्री काशीनाथ त्रिपाठी, अस्पताल रोड, मऊ चिबी, बांघा-210209. (उत्तर प्रदेश)
- 419) मिनिस्टीरियल सिस्टम एबोलिशन पार्टी 25, बुरोत्ता स्ट्रीट, कलकत्ता ।
- 420) मोमिन फाम्प्रेस 47/26, चारिस प्लाजा, हुसैन गंज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001 (उत्तर प्रदेश)
- 421) मूल भारती (एस) पार्टी म०न० 25, खूनी मसित के पास, मोगा, मेहला सिंह मोगा-142001, जिला-फरीदकोट, (पंजाब)
- 422) मूवेन्दर मुक्तेत्र फडगम लेक एरिया, मेलूर रोड, मदुराई-625107. (तमिलनाडु)
- 423) मुदीराज राष्ट्रीय समिति 7-1-282/सी/91, श्री राम नगर कालोनी, बी० के० गुडा, एस० आर० नगर, हैदराबाद-500038 (आन्ध्र प्रदेश) ।
- 424) मुक्त भारत पथ-22, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048.
- 425) मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश मुस्तान मजिल, तकिया पीर जलील, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
- 426) नारी शक्ति पार्टी सी/11, सुन्दरधाम रामबागलेन, आफिस एस०पी०रोड, बोटीवली (पश्चिम) मुम्बई-400092, महाराष्ट्र ।
- 427) नाग विदर्भ आन्दोलन समिति परदेसी तेलुपुरा बजेरिया, शुक्ला लॉज के पास, नागपुर-440018. (महाराष्ट्र)
- 428) नागा नेशनल पार्टी हेडक्वार्टर्स अजा डेली ऑफिस, चर्च रोड, देवलाहलैंड, इम्फाल (मणिपुर)
- 429) नागालैंड डेमोक्रेटिक पार्टी म०न० 65, रेजिडेंसी कॉलोनी (पी.डब्ल्यू.डी.) स्टेट स्टेडियम के पास, दीमापुर, नागालैंड, पिन-797112.
- 430) नागरिक एकता दल बी-15, हीन दयाल नगर, फेज-II, एम० डी० ए० मुरादाबाद-244001, उत्तर प्रदेश ।

- 431) नमाधू मक्कल कौची नं० 3, पित्तायट कैल स्ट्रीट, कम्बा, वेल्तोड-632001, तमिलनाडु।
- 432) नेशनल सिटिजन्स पार्टी फ्लैट नं० 202, श्री रामा निवास, मास्ति टावर्स के पीछे, कुआकाटपल्ली, हैदराबाद-500072, आन्ध्र प्रदेश।
- 433) नेशनल काँग्रेस ऑफ यूथ पोस्ट बॉक्स नं० 6204, 2ए/37-38, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015.
- 434) नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी सेन्ट्रल ऑफिस-चंगानाचेरी-2 कोदुरायम, जिला-(केरल)
- 435) नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट सी-4डी, 42बी, जनकपुरी, नई दिल्ली।
- 436) नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी 46, गुलिस्ता कॉलोनी, लखनऊ-226001. (उत्तर प्रदेश)
- 437) नेशनल माइनॉरिटीज पार्टी 7ए, जंक्शन एस.बी.रोड एवम् बांद्रा रेलवे स्टेशन रोड, लक्की होटल के सामने, बांद्रा (पश्चिम) मुम्बई-400050. (महाराष्ट्र)
- 438) नेशनल ऑरगनाइजेशन कांग्रेस नं० 1, जीवन नन्दम, सलिया, के.के. नगर, चेन्नई-600078. (तमिलनाडु)
- 439) नेशनल पार्टी रुदेन, बर्दौयू-202524. (उत्तर प्रदेश)
- 440) नेशनल पीपुल्स पार्टी मार्फत यूरोपोक नाओटेमबांग, इम्फाल-795001. (मणिपुर)
- 441) नेशनल रिपब्लिकन पार्टी टी-42/6, ओल्ड बैरक्स, चैम्बर कैम्प, मुम्बई-400074. (महाराष्ट्र)
- 442) नेशनल स्टुडेन्ट्स पार्टी 16/2 कर्णनीशवराट पागोडा स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई-600004 (तमिलनाडु)
- 443) नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया 5ए, बेली रोड, इलाहाबाद-211002. (उत्तर प्रदेश)
- 444) नेटिव पीपुल्स पार्टी मुख्यालय-गोटे निवास, तीसगांव रोड, कल्याण (पूर्व)-421306. (महाराष्ट्र)
- 445) नव महाराष्ट्र विकास पार्टी सी-6, भास्कर दर्शन, अस्नोदय नगर, मुलुन्द पूर्व, मुम्बई-400081(महाराष्ट्र)
- 446) नव निर्माण नागरिक समिति 6/7/8, शंकरमठ रोड, बासनगुडी, बंगलौर-560004 (कर्नाटक)
- 447) नवभारत निर्माण पार्टी 5/1, अशोक चेम्बरस, राजेन्द्र पार्क, बी-5, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060
- 448) नेसावालार मुन्नेत्र काची नं० 6, गंगा नगर, कोदाम्बक्कम, चेन्नई-600024.(तमिलनाडु)

- 449) नेताजी कांग्रेस सेना रंगा बिल्डिंग, एस0 नं0-123,  
कटराज पो0 ऑ0-पूणे-411046 (महाराष्ट्र) ।
- 450) नेताजी सुभाष पार्टी सहजनवा, जिला-गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
- 451) न्यू इण्डिया नेशनल मूवमेन्ट 2, बिंगसिटी हाउस मस्जिद के पीछे, कस्तूरबा गांधी मार्ग,  
नई दिल्ली-110001.
- 452) न्यू इण्डिया पार्टी म0 नं0 20-3-314, विधानगर गोदावरीखानी-505209,  
जिला कर्नीमनगर (आन्ध्र प्रदेश)
- 453) निदया मलिक (एन) पार्टी 242, सिविल लाइन्स, गोण्डा-271001. जिला-गोण्डा  
(उत्तर प्रदेश)
- 454) निरसाबादा भूटिपक्षम 113, पट्टुकल शापिंग कम्पलैक्स, द्वितीय तल, ईस्ट फोर्ट,  
त्रिवेन्द्रम फोर्ट, पो0-त्रिवेन्द्रम-केरल
- 455) निस्वार्थ सेवा पार्टी वेद आर्युवेदिक स्टोर, बस स्टैंड के पास,  
महेन्द्रगढ़, हरियाणा ।
- 456) एन.टी.आर. तेलुगु देशम पार्टी (लक्ष्मी पार्वती) रोड नं0 13, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034.(आन्ध्र प्रदेश)
- 457) न्यायनिष्ठ प्रजातन्त्र सैन्ट्रल हैड क्वार्टर और पो0-देवार (गोपेश्वर) 246401,  
जिला-चमोली, उत्तरांचल ।
- 458) उड़ीसा कम्युनिस्ट पार्टी एम.एल.ए. कॉलोनी, यूनिट-4, भुवनेश्वर, (उड़ीसा)
- 459) उड़ीसा कांग्रेस क्वार्टर नं0 डी.एस. 1/19, एम.एल.ए. कॉलोनी, यूनिट-4,  
भुवनेश्वर-750001 (उड़ीसा)
- 460) उड़ीसा गण परिषद् ए/52, खरवेला नगर, यूनिट-III, भुवनेश्वर-751001
- 461) उड़ीसा सोशलिस्ट पार्टी म्युनिसिपल कम्पाउण्ड, चौधरी बाजार, कटक-753009.  
(उड़ीसा)
- 462) पंचाल मोर्चा 137 बी-1, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049.
- 463) पंचायत राज पार्टी 106, पाकेट ए-3, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110034.
- 464) परचम पार्टी ऑफ इण्डिया 1-रहमत बानो मार्केट, मेडिकल कॉलेज रोड सिविल लाइन्स,  
अलीगढ़-202002 उत्तर प्रदेश ।
- 465) परिवर्तन समाज पार्टी गडि वाली सड़क, लश्कर, ग्वालियर-474001, (मध्य प्रदेश)
- 466) परमार्थ पार्टी ई-27, कमला नगर, दिल्ली-110007
- 467) पार्टी फार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म 183, जोधपुर पार्क, कोलकता-700068. (पश्चिम बंगाल)

- 468) पार्टी किसान मजदूर व्यापारी टेलवे रोड, हाबरस जंक्शन, महात्मा प्राकृतिक चिकित्सालय, नंगला हीरा हाबरस जंक्शन, महामाया नगर, हाबरस, उत्तर प्रदेश
- 469) पर्वतीय पुनर्न्यायन परिषद् 64, फर्स्ट फ्लोर, अथचिनी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016.
- 470) पश्चिम बंग राज्य मुस्लिम लीग 129, कोल्लिन स्ट्रीट, कलकत्ता-700016. (पश्चिम बंगाल)
- 471) पश्चिमबंगा गणतान्त्रिक मंच फ्लैट नं० 56, ब्लॉक-एच, सी.आई.टी. बिल्डिंग, क्रिस्टोफर रोड, कोलकत्ता-700014. (पश्चिम बंगाल)
- 472) पश्चिम उत्तर प्रदेश स्वराज पार्टी सरधना रोड, कंकड खारा, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
- 473) पवित्र हिन्दुस्तान कङ्गम 11, हरीश चन्द्र माथुर लेन, नई दिल्ली-110001.
- 474) पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी ऑफ इण्डिया हरि खन्डे निवास, महात्मा फुले रोड, नयगांव, दादर, मुम्बई (महाराष्ट्र)
- 475) पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट मुख्यालय-गुवाहाटी, एच.ओ. उदालगिरी, जिला-दारंग बोडालेण्ड (असम)
- 476) पीपुल्स जस्टिस पार्टी 'कार अरुल', ए-87 कंडासामी सलाई 8वीं. स्ट्रीट पेरियर नगर, चेन्नई-600028 (तमिलनाडु)
- 477) पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पो.ऑ. नाहर लागुन-791110 (अरुणाचल प्रदेश)
- 478) पीपुल्स डेमोक्रेटिक लीग ऑफ इण्डिया बिल्डिंग नं० 25, फ्लैट नं० 8, चिटनाविसनगर लेआउट, बैरामजी टाउन, मेन्टल हॉस्पिटल के पास, नागपुर-13 (महाराष्ट्र)
- 479) पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट मावलाइ नोंगक्वार, शिलांग-793008 (मेघालय)
- 480) पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मास बिल्डिंग, अरनाकुलम उत्तर, पो०-कोचीन-18 (केरल)
- 481) पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी साप्ताहिक जयभीम, आनंद टाक्ज के सामने, सीताबुन्दी, नागपुर-440012 (महाराष्ट्र)
- 482) फूले भारती लोक पार्टी 1793, गली नं० 1, न्यू कैलाश नगर, डाक घर बस्ती जोडेवाल, लुधियाना, पंजाब
- 483) पिछड़ा समाज पार्टी मोहल्ला जटी, नगीना, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश
- 484) प्लेन्स द्राइबल्स काउन्सिल ऑफ असम पो० व ऑ०-कोकाझाड, जिला-कोकाझाड (असम)
- 485) पोलिटिकल पार्टी ऑफ नेशनल मैनेजमेंट सर्विस सी-546, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024.
- 486) पांडिचेरी मन्नीला मक्कल मुनानी 17, कुमारन स्ट्रीट, कामराजार नगर, पांडिचेरी-605001.



- 487) प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी एम0डी0-26-17/6, एम0आर0टी0आर0 एम0सी0 एच0 चेन्नई रोड, अम्बाजोगई, जिला-बीड-431517, महाराष्ट्र ।
- 488) प्रगतिशील मानव समाज पार्टी गांव-वाडी (नईपुरवा) पो0 दशरथपुर-221304. जिला-भादोही (उत्तर प्रदेश)
- 489) प्रगतिशील पार्टी 111, बादशाह नगर, लखनऊ-226007. (उत्तर प्रदेश)
- 490) प्रजा पार्टी 3-5-898/1, हिमायतनगर, हैदराबाद-500029 (आन्ध्र प्रदेश)
- 491) प्रिजम टॉप फ्लोर, 4-सी.एच.एच.ए.-30, विज्ञान नगर, कोटा-324005 (राजस्थान)
- 492) पृथक बस्तर राज्य पार्टी 8, सीनियर एच0 आई0 जी0, सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ ।
- 493) प्राउटिस्ट सर्व समाज 10/105ए, सैक्टर-3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, जिला-गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
- 494) पंजाब पीपुल्स पार्टी 14, सैक्टर-28, अरुण विहार, नोएडा-201303. (उत्तर प्रदेश)
- 495) पंजाब जनता मोर्चा पंज पीर, जालन्धर शहर-144001 (पंजाब)
- 496) पंजाब प्रदेश विकास पार्टी मुख्यालय-एच.आई.जी.-970, पी.एच.बी. कॉलोनी, अरबन एस्टेट, फोकल प्वाइंट, लुधियाना (पंजाब)
- 497) पंजाब विकास कांग्रेस पार्टी पंज पीर चौक, जालन्धर, पंजाब ।
- 498) पंजाबी दल मकान नं0 बी.टी./30ए, रामगढ़िया गुरुद्वारा रोड, बटनाला-148101 जिला-संगरूर (पंजाब)
- 499) पुराची भारतम नं0 54, नेशनल हाईवे, पूनामत्ता, चेन्नई-56, (तमिलनाडु)
- 500) पूर्वांचल विकास पार्टी एल-131, गली नं0 5, महीपाल पुर एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110037
- 501) पुश्चिया नीधि कचि 6, नार्थ बोग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)
- 502) पुश्चिया तमिलागम 132, न्यू एम.एल.ए. होस्टल, गवर्नमेंट एस्टेट, चेन्नई-600002. (तमिलनाडु)
- 503) पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया 2-1-83, कोला स्ट्रीट, तिरुपति-517501. (आन्ध्र प्रदेश)
- 504) कौमी पार्टी 930, स्ट्रीट नं0 30/7, जाफराबाद, दिल्ली-110053.
- 505) कौमी जनता दल 9-बी, त्रिलोकनाथ रोड, लाल बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

- 506) राजस्थान देव सेना दल बस स्टैंड के सामने, घमाई हवेली, दूदू, जयपुर, राजस्थान ।
- 507) राजस्थान सामाजिक न्याय मंच 5/8, विधायक नगर (पश्चिम) नई विधानसभा के सामने, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान
- 508) राजस्थान वीर सेना 1-8-17 (एस.एफ.एस.) डा0 शीला चौधरी रोड, तलवंडी, कोटा-324005. (राजस्थान)
- 509) राजस्थान विकास पार्टी 43, चौद बिहारी नगर, खादीपुरा रोड, जयपुर-302012. (राजस्थान)
- 510) राजीव मक्कल कांग्रेस नं0-16(पुराना नं0 18), विश्वनाथपुरम, III स्ट्रीट, कोडाम-बक्कम, चेन्नई-600024, तमिलनाडु
- 511) रामराज्य मार्ग नं0 17, वीनस कॉलोनी, सेक्टेड स्ट्रीट अलवरपेट, चेन्नई-600018. (तमिलनाडु)
- 512) राष्ट्र शक्ति 1112, एस/5, टैगोर गार्डन बस स्टैंड के पास यमुना नगर-135001, जिला यमुना नगर, हरियाणा ।
- 513) राष्ट्र सुरक्षा परिषद् कोठी नं0 ए-2/79, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063.
- 514) राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बेगाटिया का खेड़ा, पो0आ0-बरयान कलां, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
- 515) राष्ट्रवादी जनता पार्टी 43-ए, सुखबीर नगर, कटाला, नई दिल्ली-110081
- 516) राष्ट्रवादी विकास दल ए-37, सैक्टर-26, नोएडा-201301, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
- 517) राष्ट्रवादी समाज पार्टी 16/17, सिविल लाईन्स, पदम अपार्टमेन्ट के पास, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
- 518) राष्ट्रीय एकता मंच ए-1, विकास एनक्लेव, हस्ताल, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
- 519) राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी टी ए - 137/3 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019
- 520) राष्ट्रीय बहुजन एकता पार्टी आलोक नगर, एयर फोर्स, बरेली-243122. (उत्तरांचल)
- 521) राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा सेन्ट्रल ऑफिस-शिवाजी नगर, आबू पर्वत- 307501, जिला-सिरोही (राजस्थान)
- 522) राष्ट्रीय देहात मोर्चा पार्टी 601, रोहित हाउस, 3-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001
- 523) राष्ट्रीय देशभक्त पार्टी बी-61, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018.

- 524) राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी 108, शंकर शाह नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
- 525) राष्ट्रीय गरीब दल 110, रामनगर, पानीपत, हरियाणा ।
- 526) राष्ट्रीय गरिमा पार्टी बी-14, कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल-462001, (मध्य प्रदेश)
- 527) राष्ट्रीय ग्रामीण पार्टी चकशानपुर(केमटाला)पो0आ0 गौरी बछेरा (दादरी), जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
- 528) राष्ट्रीय गुरुजन पार्टी गुरुजन विद्याभवन, दूध सागर मार्ग, राजकोट-3 गुजरात ।
- 529) राष्ट्रीय हमारा दल 22/191, ढोली खार, मन्डोला, आगरा (उत्तर प्रदेश)
- 530) राष्ट्रीय हिन्दु संगठन 30, जाती कालोनी, रामबाग, साईनाथ मन्दिर के सामने, इन्दौर मध्य प्रदेश ।
- 531) राष्ट्रीय हित कांग्रेस 712-जी-ब्लॉक, मिलिंद्री रोड, कटोल बाग, नई दिल्ली-110005
- 532) राष्ट्रीय इन्दिरा पार्टी दत्तपुरा, सखीमण्डी के पास, मुठैना, मध्य प्रदेश ।
- 533) राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी जी-290, ओल्ड सीमा पुरी, दिल्ली-110095.
- 534) राष्ट्रीय जन संगम शर्मा कुंज, शिवपुरी, बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)
- 535) राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी 61, मंगला पुरी फेस-1, पालम, नई दिल्ली-45
- 536) राष्ट्रीय जनआन्दोलन पक्ष 'पोवरामवन' नं0 567 (38) 60 फीट रोड, गोकुल मधीकेटे लेआउट, बंगलौर-560054. (कर्नाटक)
- 537) राष्ट्रीय जनता जनार्दन पार्टी सूरज का पुरवा, अतरांरुल, पो.ऑ. अतरां, जिला-बोंदा, उत्तर प्रदेश ।
- 538) राष्ट्रीय जनसेवक परिषद् देवकन्या सदन, वाटर टैंक के पास, त्रिपोलिया रोड, बक्सवाड़ा-327001. (राजस्थान)
- 539) राष्ट्रीय जनता कांग्रेस ए-4, स्वर्ण सिंह रोड, आदर्श नगर, नई दिल्ली-110033.
- 540) राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल शुक्ला भवन, बुधापारा, रायपुर-429001, छत्तीसगढ़ ।
- 541) राष्ट्रीय किसान पार्टी गांव व पो0-धानौषा, तहसील व जिला-महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
- 542) राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी लिमडा लेन, मकहानी पाडा, जामनगर-361001.(गुजरात)
- 543) राष्ट्रीय कान्ति पार्टी 2, माल एवेन्यू, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 544) राष्ट्रीय कान्तिकारी दल गोपाल नगर, मेन सुरखपुर रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043.
- 545) राष्ट्रीय कान्तिकारी समाजवादी पार्टी 84, पान दरीबा चारबाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।

- 546) राष्ट्रीय लोक सेवा मोर्चा 206, लव कुश टावर, एक्जीवीशन रोड, पटना 800001, बिहार ।
- 547) राष्ट्रीय महासंघ एन.आर. कॉम्प्लेक्स, नगर पालिका ऑफिस के सामने, अजमेर-305001 (राजस्थान)
- 548) राष्ट्रीय मानव अधिकार पार्टी 17/700, ग्राम-गोपालपुर, पो-आजादपुर(तिहारपुर), दिल्ली-110009
- 549) राष्ट्रीय मातृभूमि पार्टी 1265-सेक्टर-17डी, गुडगाँव, हरियाणा ।
- 550) राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी ब्लॉक बी, संत नगर, गली नं० 57, बुरारी रोड, दिल्ली-110009.
- 551) राष्ट्रीय न्याय पार्टी कॉलेज रोड देहरी, तहसील नुरपुर, जिला-कंगड़ा, पिन कोड-176022. (हिमाचल प्रदेश)
- 552) राष्ट्रीय परिवर्तन दल जन बी.एस.पी.ए. हाऊस, 4/93, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
- 553) राष्ट्रीय पार्टी गया प्रसाद धर्मशाला कॉम्प्लेक्स चारबाग, सब्जी मंडी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- 554) राष्ट्रीय प्रजा कांग्रेस (सेक्यूलर) 12-11-113, ए.बी. नागेश्वर राव स्ट्रीट, आर्य पुरम राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश)
- 555) राष्ट्रीय राजधानी कांग्रेस दिल्ली 8, नाब मार्केट, नई सड़क, दिल्ली-110006.
- 556) राष्ट्रीय रक्षा दल मार्फत, होटल पंकज, सेक्टर-22ए, चंडीगढ़ ।
- 557) राष्ट्रीय साकार पार्टी जी-12, गुप्ता टावर-1, मदन डेयरी के पास, विकासपुरी, दिल्ली-110018
- 558) राष्ट्रीय समाधान पार्टी 121-ए०, आर०-3/ए०-2, मंगल बाजार, मोहन गार्डन, नई दिल्ली-110059
- 559) राष्ट्रीय समाज पक्ष द्वारा एल० डब्ल्यू० काले, 17-रघुनाथ दादोजी स्ट्रीट, चौबी मंजिल, हैन्डलूम हाउस के पास, फोर्ट, मुम्बई-400001 (महाराष्ट्र)
- 560) राष्ट्रीय समाज सेवक दल भीरा खीरी, जनपद-खीरी-262901. (उत्तर प्रदेश)
- 561) राष्ट्रीय समाज सुधार पार्टी गांव तान्त्री, पो-घोडी, जिला-फरीदाबाद (हरियाणा)
- 562) राष्ट्रीय सामाजिक न्याय पक्ष 88/703, मोतीलाल नगर नं० 1, गोरेगांव(पश्चिम), मुम्बई-400104, महाराष्ट्र ।
- 563) राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस मकान नं०-जे-12/57-ए, वृषचंडी (लेबर कॉलोनी) वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

564)	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (यूनाईटेड)	9, कम्युनिटी सेन्टर, अशोक विहार, फेज-11, दिल्ली-110052
565)	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी 'प्रगतिशील'	बी-248, मोहन नगर, बाटीपुर, मोरार, गवालियर (मध्य प्रदेश)
566)	राष्ट्रीय समानता दल	8/440 त्रिलोक पुरी, दिल्ली-110091.
567)	राष्ट्रीय सवर्ण दल	दुबे का पड़ाव, अलीगढ़-202001. (उत्तर प्रदेश)
568)	राष्ट्रीय सुराज्य परिषद्	मृदुल टावर, भूतल, कैलाश सोसाइटी, एच.के. हाउस लेन, आश्रम रोड, अहमदाबाद -380009.(गुजरात)
569)	राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी	104-बी0 ब्लॉक, दाखलशेफा, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
570)	राष्ट्रीय स्वजन पार्टी	घाघा घाट रोड, मलेरिया कार्यालय के पास, महेन्द्र, पटना-800006. (बिहार)
571)	राष्ट्रीय उन्नतिशील दल	एफ 167, चांद बाग, पो0-कुलपुर, दिल्ली-110094.
572)	राष्ट्रीय विकास पार्टी	195, मेन अशोक एन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा।
573)	राष्ट्रीय युवा लोकतांत्रिक पार्टी	चैम्बर नं0 461, न्यू चैम्बर कांम्प्लेक्स, पटियाला हाउस कोर्ट्स, नई दिल्ली-110001.
574)	रिपब्लिकन जनता पार्टी	डी-29, गांधी विहार, डी.डी.ए. कॉलोनी, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009.
575)	रिपब्लिकन मुवमेंट	पो0बो0 न0 117, तादोबारोड, तुकुम, चन्द्रापुर, -442401, महाराष्ट्र।
576)	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	ई.एन.एस.ए. हटमेन्ट, आई-ब्लॉक, महापालिका मार्ग, आजाद मैदान, मुम्बई-400001.(महाराष्ट्र)
577)	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	मुकुन्द निवास, इंडिया नगर, लादुर-413572(महाराष्ट्र)
578)	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (कांम्बले)	11/174, आदर्श नगर, प्रभादेवी, मुम्बई-400025. (महाराष्ट्र)
579)	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (शिवराज)	10, सोलई स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई-600023. (तमिलनाडु)
580)	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(ए)	1/16, संजय कांम्प्लेक्स, टी0 टी0 नगर, भोपाल-462003 (मध्य प्रदेश)
581)	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोब्रागडे)	गीता विला, ईस्ट-मारेड पल्ली, सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश)
582)	रिपब्लिकन प्रेसिडियम पार्टी ऑफ इंडिया	उरली-कंचन, पुणे-412202. (महाराष्ट्र)
583)	रिवोल्यूशनरी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट)	84-आशुतोष मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700025. पश्चिम बंगाल

- 584) रिबोयूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरल (बोत्सोविक) टी.सी. 25/507, यू.टी.यू.सी. बिल्डिंग, थम्पानूर, तिरुवनंतपुरम-695001. (केरल)
- 585) सबजन पार्टी सी-1/50, यमुना बिहार, दिल्ली-110053.
- 586) सबका दल भारतीय समाजवादी कांग्रेस एन-14/169, सरईनन्दन (खोजवा), वाराणसी-221010 (उत्तर प्रदेश)
- 587) सचेत भारत पार्टी 13/ए/5, शिवाजी नगर, नं० 1, गोवन्दी, मुम्बई-43(महाराष्ट्र)
- 588) सद्भावना पार्टी कमरा नं० 14, प्रथम तल, लखनऊ होटल श्रीराम रोड, चौदाहा अमीनाबाद, लखनऊ-226018. (उत्तर प्रदेश)
- 589) शक्ति भारत देशम सं० 2/58, वैरावन चेद्री स्टोर, पाचीयाम्मन पाडीथुराई, मदुरै-625001 तमिलनाडु।
- 590) सामाजिक एकता पार्टी 22, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सोनीपत-131001.(हरियाणा)
- 591) सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी मुकाम राजा मार्किट, सिनेमा रोड, गोपाल गंज नगर पालिका, पोस्ट-गोपालगंज-841428, जिला-गोपालगंज (बिहार)
- 592) सामाजिक न्याय पार्टी एम-22, महावीर पार्क, मारिस रोड, अलीगढ़-202001. (उत्तर प्रदेश)
- 593) समाजतांत्रिक पार्टी ऑफ इण्डिया 40/1, बी० रोड., बामनशाची, हावडा-711006 (पश्चिम बंगाल)।
- 594) समाजवादी जन परिषद् जय माता प्रसाद, ट्रेती बुन्देर रोड, महागिरि, ठाणे (पश्चिम)-400601. (महाराष्ट्र)
- 595) समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक 14, डॉ० विशंभर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
- 596) समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) नरेन्द्र निकेतन, पुलिस मुख्यालय के पीछे, इन्दप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002.
- 597) समाजवादी जनता पार्टी (महाराष्ट्र) बैरक नं० 4, यशोधन दिनशा वाचा रोड के पीछे, चर्च गेट, मुम्बई-400020. (महाराष्ट्र)
- 598) समता पार्टी 220, विठ्ठलभाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
- 599) समता समाज पार्टी पाडव बाने के सामने, लक्ष्मणपुरा, पो० लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
- 600) समता संघर्ष पार्टी 618-एफ-2/2/1, शंकर गली, विश्वास नगर, दिल्ली-110032
- 601) सम्पूर्ण विकास दल 88, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-11

602) समुदाय मुनेत्रा कजगम	नं० 32, न्यू टेन्क गली, नूंगमबक्कम, चेन्नई-600034, तमिलनाडु
603) सनातन समाज पार्टी	रामानन्द नगर, बेगमपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, (उत्तर प्रदेश)
604) संयुक्त दस्तकार पार्टी	पी-205, बस्ती खाजा, मीर दर्द, बेरन रोड, नई दिल्ली-110002.
605) सर्वहिन्द शिरोमणी अकाली दल	103, न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी, पटियाला (पंजाब)
606) सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी	बी-31 भूतल, लाजपत नगर-। नई दिल्ली-110024.
607) सर्व सेवा पार्टी	बी-51, प्रताप विहार, पार्ट-3, नांगलोई, दिल्ली-110041.
608) सर्वधर्म पार्टी (मध्य प्रदेश)	सी-44, पद्मनाभ नगर, भोपाल-462023.(मध्य प्रदेश)
609) सर्वहारा समाज पार्टी	68-ए ब्लॉक, दारुलशाफा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
610) सर्वहारा दल	केवला फरियदा, बाया-गिधौर, जिला-जमुई (बिहार)
611) सर्वोदय पार्टी	पी-3, यूनिवर्सिटी कैम्पस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर-302004. (राजस्थान)
612) सत्य मेव पार्टी	548, रामदास पाटे, नागपुर-10 (महाराष्ट्र)
613) सत्युग पार्टी	फ्लैट नं० 203, बिल्डिंग नं० 6-4-323/ए, विवेक वंशी रेजिडेन्सी, मेकलर मंडी रोड, भोलकपुर, सिकन्दराबाद-500080. (आन्ध्र प्रदेश)
614) सवर्ण समाज पार्टी	ईस्ट ऑफ स्टेडियम, नन्द हार्डवेयर, सिरमौर रोड, रीवा-486001 (मध्य प्रदेश)
615) मेक्यूलर नेशनल द्रविड पार्टी	काडक्कवूर बिल्डिंग, धुमपाटा नगर, मुन्डाक्कल, कोलम शहर, कोलम-691001, केरल ।
616) मेक्यूलर पार्टी ऑफ इंडिया	मं० नं० 122-ए, रामविहार, ओल्ड जानीपुर, जम्मू-180007 (जम्मू व कश्मीर)
617) सहजधारी सिख फेडरेशन	622/9, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, रायकोट, जिला लुधियाना, पंजाब ।
618) शक्ति दल	ए-4, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065
619) शेतकरी विचार दल	49, ममता, आनन्दनगर को-ओप. हाउसिंग, गुलमोहर रोड, सावेदी, अहमदनगर-414001, (महाराष्ट्र)
620) शिक्षित बेरोजगार सेना	कम्मू कटरा सदरगंज, शबनम टेलर, मरयाहुन, जोनपुर, उत्तर प्रदेश ।

- 621) शिरोमणि यूथ अकाली दल (कहलोन) 5/5051, शक्ति नगर, खंडवाला, चहार्ता, अमृतसर (पंजाब)
- 622) शिव राज्य पार्टी 6-ए, भूमि तल, सर्वोदय ट्रस्ट बिल्डिंग, गोखले रोड दक्षिण, दादर पश्चिम, मुम्बई-400028, महाराष्ट्र।
- 623) शोषित समाज दल सैंटर ऑफिस:-दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001 (बिहार)
- 624) शोषित समाज पार्टी 327, कृषि अपार्टमेंट, डी. ब्लॉक, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018.
- 625) श्री भारत विकास पक्ष 220, श्री जी कमप्लेक्स, एलिसब्रिज पोस्ट आफिस के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006 (गुजरात)
- 626) शुभा कर्नाटक एम0आई0जी0-ए नं0 129, हुडक्वे कॉलोनी, बस डिपो के पीछे, जागरथ अंजनय मन्दिर, गडग-582403
- 627) सिक्किम हिमाली राज्य परिषद् मेदो प्वाइंट पांचवामाइल टाडोंग, गंगटोक सिक्किम पूर्व।
- 628) सिक्किम जनशक्ति पार्टी रानीपूल मार्चक, चाकुंग हाउस, पो.ऑ.-रानीपूल, गंगटोक (सिक्किम)
- 629) सिक्किम नेशनल लिबरेशन फ्रंट 31-ए, नेशनल हाईवे, पो.ऑ.- गंगटोक (सिक्किम)
- 630) सिक्किम संग्राम परिषद् संग्राम भवन, जीवन थींग मार्ग, गंगटोक (सिक्किम)
- 631) सिंह जन सेवा पार्टी पब्लिक लाइब्रेरी के पास, चेराबल-362265. (गुजरात)
- 632) सरपंच समाज पार्टी टी-47, ओल्ड नांगल, दिल्ली कैंट-110010.
- 633) सोशल एक्शन पार्टी मडलाकल हाऊस, रान्नी, पठानामटिदल जिला, पिन-689072. (केरल)
- 634) सोशल जस्टिस पार्टी नं0 73, इल्लैअमन कॉलोनी, तेयनामपेट, चेन्नई-600086. (तमिलनाडु)
- 635) सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया) सिद्दीकी बिल्डिंग, 6122, बाडा हिन्दू राव, दिल्ली-110006.
- 636) सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी स्टेट कमेटी ऑफिस, द्यूटर्स, लेन, स्ट्रेच्यू त्रिवेन्द्रम-695001. (केरल)
- 637) सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी पोस्ट बाक्स नं0 1089, जनरल पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर-190001, जम्मू व काश्मीर।
- 638) सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ग्राम:फतेहपुर, पोस्ट:कटोना, थाना-फूलपुर, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
- 639) स्वराज दल नं0-4, स्टाय, पादर गुड्डा पोस्ट गाराहेहाराम, पोर्ट ब्लेयर-744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह



640)	सर्वप महासभा	मो० इस्लामाबाद, पो० मोहम्मदी, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश ।
641)	स्वतंत्र भारत पक्ष	'राही' खोकादपुरा, औरंगाबाद-431001.(महाराष्ट्र)
642)	स्वतन्त्र क्रांति दल	शान्ति होम्योपैथिक स्टोर, आर्य समाज चौक, पदार्थ उत्तर प्रदेश.
643)	तमिल देसियक काची	80 ए, चामुन्डी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेलम-636007 (तमिलनाडु)
644)	तमिल मनीला कांग्रेस (मूपनार)	सत्यमूर्ति भवन, जनरल पीटर्स रोड, चेन्नई-600002 (तमिलनाडु)
645)	तमिल मनीला कामराज कांग्रेस	मार्फत एफ०बी० बेन्जामिन जॉर्ज, वकील, न० 17, डूमिंग गली, सनशोम, चेन्नई-600004, तमिलनाडु ।
646)	तमिलनाडु देसीया ग्रामीया थोडिलालर कांग्रेस	5/58, मनियम बिल्डिंग थ्रीटीपालयम पोस्ट, कोयम्बटूर-641010. (तमिलनाडु)
647)	तमिलनाडु मक्कल कांग्रेस	310, बी ब्लॉक, बूपति नगर, चेन्नई-600024 (तमिलनाडु)
648)	तमिलनाडु पीजेन्ड्स एण्ड वर्क्स पार्टी	न० 1, जयाम्मल रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018. (तमिलनाडु)
649)	तमिलनाडु पीपुल्स पार्टी	16/2, के .पी. स्ट्रीट, मडलापोर, चेन्नई-600004.(तमिलनाडु)
650)	तमिलनागा मक्कल मुन्नेत्र कजगम	563-शान्ति कॉलोनी, एन.के.बी. नगर, पलायमकोटाई, त्रिनिवेली, तमिलनाडू
651)	तमिलार कडुगम	180, लोंगली रोड, शेवापेट, सेलेम-636002. (तमिलनाडु)
652)	तमिलनागा मुन्नेत्र मुन्नानी	न० 152 ए, नार्थ-उस्मान रोड, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)
653)	तमिलनागा राजीव कांग्रेस	6-II, मेन रोड, राजा अन्नामलाई पुरम, चेन्नई-600028. (तमिलनाडु)
654)	तमिझार पार्टी	8/43, एम.टी.सी. रोड, मदुरै डैम, 1, सेलेम जिला, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)
655)	तराई क्रांति दल	21/2, इन्दिरा नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
656)	तिलंगाना कांग्रेस पार्टी	फ्लैट न०-4, ब्लॉक-18, एम० आई० जी० फेज-11, बाघ लिंगम-पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
657)	तेलंगाना प्रजा पार्टी	अनन्त निलयम, द्वार स० 14-9-519, चुडी बाजार दरगाह, हैदराबाद-500012.(आन्ध्र प्रदेश)

658) तेलंगाना राष्ट्रीय समिति	मकान नं० 8-2-220/110/1/3, रोड नं० 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
659) त्याग मक्कल काची	7, वाई.बी.डी. काम्पलेक्स, चतीराम बस स्टैंड, तिरुचिरापल्ली-620002. (तमिलनाडु)
660) तमिलार भूमि	5, डा. सर.सी.बी. रमण, फर्स्ट स्ट्रीट कुमारा नगर, त्रिचिरापल्ली-620017. (तमिलनाडु)
661) तरासु मक्कल मंडराम	14-सैत कॉलोनी, फर्स्ट स्ट्रीट, इम्मोर-600008. (तमिलनाडु)
662) दि कम्युनर पार्टी ऑफ इंडिया	देशमुखवाडी काम्पलेक्स, पी०के० रोड और जावेर रोड जंक्शन मुलुब्द (पश्चिम) मुम्बई-400080, महाराष्ट्र
663) द ग्रेट इंडिया रिवोल्यूशनर्स	4/55, रूप नगर, दिल्ली-110007.
664) द ह्यूमेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	34, लवीना, 52 ए, टैगोर रोड, सान्ता क्लूज (पश्चिम), मुम्बई-400054. (महाराष्ट्र)
665) द रिलीजन ऑफ मैन रिवोल्विंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया	कवितीर्थ, कवितानगर, पो०-बोंगाव, जिला-पदगना (उत्तर)-743235. (पश्चिम बंगाल)
666) थेसिया जननायक मक्कल काची	न्यू नं० 2, ओल्ड नं० 33, सैफिड कास स्ट्रीट, वैस्ट सी०आई० टी० नगर, नन्दनम, चेन्नई-600035 (तमिलनाडु)
667) थोन्डर काँग्रेस	40-वेकटनायण रोड, त्यागरायनगर, चेन्नई-600017 तमिलनाडु ।
668) द्वाइबल पीपुल्स पार्टी	170, लिंगी चाट्टी स्ट्रीट, चेन्नई-600001. (तमिलनाडु)
669) त्रिलोक शक्ति काँग्रेस भारत	49-डी, त्रिवेणी नगर, नैनी, उद्योग नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
670) तृणमूल गण परिषद्	आनन्द प्लाजा काम्पलेक्स, चौथी मंजिल, गणेशगुटी चट्टीएली, गुवाहाटी-781006, असम ।
671) यूनाइटेड बोडो नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट	मार्फत देवरी बोरा, रामभापुरी, कहिलीपाड़ा, गुवाहाटी (असम)
672) यूनाइटेड सिटीजन पार्टी	डी-29, कोन्डली, दिल्ली-110096.
673) यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	नं० 2, 50वीं स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई-600083. (तमिलनाडु)
674) यूनाइटेड इंडिया पीपुल्स पार्टी	मन्नामादम मूझूर पो.ऑ. कोटायम जिला (केरल)
675) यूनाइटेड इंडियन डेमोक्रेटिक काउन्सिल	नं० 1205, ॥-स्टेज, राजाजी नगर, बंगलौर-560010 (कर्नाटक)

676)	यूनाइटेड माइनोऱिटीज फंड ऑफ असम	उलूबाटी, गुवाहाटी-781007 (असम)
677)	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ असम	एस.एस. रोड, लखटोकिया, गुवाहाटी-781001, असम
678)	यूनाइटेड रिजर्वेशन मूवमेंट काउन्सिल ऑफ असम	पो० बॉ. नं० 2, पो०-रेहाबाड़ी, गुवाहाटी-781008 (असम)
679)	यूनाइटेड द्राइबल नेशनलिस्ट लिबरेशन फंड	देउलगुटी, हरिसिंह, दारंग-784510. (असम)
680)	उर्स संयुक्त पक्ष	नं० 46, पैलेस रोड, बंगलौर-560001, कर्नाटक।
681)	उत्तर प्रदेश जन मानस पार्टी	ए-1445/6, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016. (उत्तर प्रदेश)
682)	उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी	552/2, राजेन्द्र नगर, सेकेंड स्ट्रीट, लखनऊ-226004. (उत्तर प्रदेश)
683)	उत्तराखण्ड संस्कृति परिषद्	डी-355, विनोद नगर (पश्चिम), दिल्ली-110092.
684)	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी	53-के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तरांचल
685)	उझैप्पलार काची	70-डी, पलानीसामी स्ट्रीट, वाणीयामबाडी रोड, तिरुप्पादट्टुर-635601. वेल्पोर जिला, तमिलनाडु।
686)	उझैप्पलार पोषु नालाकाची	तिरुप्पादट्टुर वेल्पोर जिला तमिलनाडु-635601.
687)	विदर्भ जनता कांग्रेस	अन्तर भारती आश्रम, डाभा वायुसेना नगर के पीछे, अमरावती रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)
688)	विदर्भा विकास पार्टी	ब्लॉक ए० सेकेंड फ्लोर, पूनम चैम्बर्स, छिन्दवाड़ा रोड, नागपुर-13, महाराष्ट्र
689)	विदर्भ राज्य मुक्ति मोर्चा	ए टाइप, सुखकर्ता अपार्टमेन्ट, बलराज मार्ग, धनताली, नागपुर-440012, (महाराष्ट्र)
690)	विदर्भ राज्य पार्टी	कामगार भवन, बैद्यनाथ चौक के पास, गेट नाम रोड, नागपुर-3, महाराष्ट्र।
691)	विशायक दल	एच०आई०जी०-205, सेक्टर-1, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
692)	विजेता पार्टी	501, अभिषेक प्लाजा, एक्जिबिशन रोड, पटना-800001. (बिहार)
693)	विकास पार्टी	सत्याग्रह मार्ग, दारुल सफा कम्पाउंड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
694)	विकासवादी कम्युनिज्म पार्टी	मखदुमपुर रोड, मवाना कलां, 250401. जिला-मैरठ (उत्तर प्रदेश)

- 695) विश्व माया पॉलिटीकल पार्टी 6 डी-6-18(हाउस नं०), मारकडेश्वर, स्वामी टैम्पल के पास, सदरन स्ट्रीट, इलुम्-534001, जिला पश्चिम गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश ।
- 696) विवासायी अनभु काची नं० 14, राघव नाट्य स्ट्रीट, उतारामेळ-603406. (तमिलनाडु)
- 697) वॉलन्टरी इंडियन पीपुल पार्टी हरियाणा म० न०-363, प्रथम तल, स्ट्रीट नं०-9, जवाहर नगर, हिसार, हरियाणा ।
- 698) वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी 42-आनन्द पलित रोड, कोलकाता-700014, पश्चिम बंगाल ।
- 699) यूथ एण्ड स्टूडेन्ट्स पार्टी नं० 1/120, गंगियामान कोइल स्ट्रीट, पाडीनल्लूर, रेडहिल्स, चेन्नई-52, तमिलनाडु ।
- 700) यूथ ब्रिगेड गांव काकगाची, डा० भन्देरहली, जिला-हिंगली, पश्चिम बंगाल ।
- 701) युवा गणतन्त्र पार्टी सरदार पटेल नगर, जमनीपाली-कोरबा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 702) युवा जन जागृति पार्टी बहलोलपुर, बुलंदशहर-202391, उत्तर प्रदेश ।

#### सारणी-4

#### (मुक्त प्रतीकों की सूची)

- 1) वायुयान
  - 2) अलमारी
  - 3) कुल्हाड़ी
  - 4) गुब्बारा
  - 5) केला
  - 6) चूड़ियाँ
  - 7) टोकरी
  - 8) बत्ता
  - 9) बल्लेबाज
  - 10) मोतियों की माला
  - 11) ब्लैक बोर्ड
  - 12) किताब
  - 13) डबलरोटी
  - 14) ईंट
  - 15) पुल
  - 16) बीफकेस
  - 17) बुश
  - 18) बंगला
  - 19) केक
  - 20) कैमरा
  - 21) मोमबत्तियाँ
  - 22) कार (आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
  - 23) कैरम बोर्ड
  - 24) गाजर
  - 25) छत का पंखा
- कोट

- 27) नारियल
- 28) कंधा
- 29) चारपाई
- 30) कप और प्लेट
- 31) दाव
- 32) डीजल पम्प
- 33) डोली
- 34) बिजली का खंभा
- 35) लिफाफा
- 36) काँटा
- 37) फाक
- 38) फाइंग पैन
- 39) गैस सिलिण्डर
- 40) गैस का चूल्हा
- 41) काँच का गिलास
- 42) हैंगर
- 43) हार्मोनियम
- 44) टोप
- 45) आइस क्रीम
- 46) प्रेस
- 47) जग
- 48) केतली
- 49) पतंग
- 50) लेडी पर्स
- 51) लैटर बाक्स
- 52) ताला और चाबी
- 53) मक्का
- 54) नगाड़ा (उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
- 55) नैफटाई
- 56) प्रेशर कुकर
- 57) टेल का इंजन
- 58) अंगूठी
- 59) रोड रोलर
- 60) आटी
- 61) कैची
- 62) सिलाई की मशीन
- 63) शटल
- 64) स्लेट
- 65) चम्मच
- 66) स्टूल
- 67) मेज
- 68) टेबल लैम्प
- 69) टेलीविजन
- 70) टेन्ट
- 71) टाफी

72)	वायलिन
73)	छड़ी
74)	सीटी
75)	ऊन

[सं. 56/2004/न्यायिक-III]

आदेश से,

के. एफ. विलफ्रेड, सचिव

### ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2004

O.N. 27(E).— Whereas, the Election Commission has decided to update its notification No. 56/2003/Jud.-III, dated 23rd October, 2003, specifying the names of recognised National and State Parties, registered-unrecognised parties and the list of free symbols, issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, as amended from time to time;

2 NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, as amended from time to time, and in supersession of its aforesaid principal notification No. 56/2003/Jud.III, dated 23<sup>rd</sup> October, 2003, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (iii), the Election Commission hereby specifies -

- (a) In Table I, the National Parties and the Symbols respectively reserved for them;
- (b) In Table II, the State parties, the State or States in which they are State parties and the Symbols respectively reserved for them in such State or States;
- (c) In Table III, the registered-unrecognized political parties and postal address of their Headquarters; and
- (d) In Table IV, the free symbols.

**TABLE - I**  
**NATIONAL PARTIES**

Sl. No.	National Parties	Symbol reserved	Address
1.	2.	3.	4.
1.	Bahujan Samaj Party	Elephant [ In all States/U.T.s except in the States of Assam and Sikkim, where its candidates will have to choose another symbol from out of the list of free symbols specified by the Commission ]	12, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi - 110001.
2.	Bharatiya Janata Party	Lotus	11, Ashoka Road, New Delhi - 110001
3.	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi - 110002
4.	Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star	A.K.Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg (Gole Market), New Delhi - 110001
5.	Indian National Congress	Hand	24, Akbar Road, New Delhi - 110011
6.	Nationalist Congress Party	Clock	10, Bishambhar Das Marg, New Delhi-110001.

**TABLE – II****STATE PARTIES**

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Andhra Pradesh	Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh)
2.	Arunachal Pradesh	Arunachal Congress	Two Daos Intersecting	G-Extention, Naharlagun, (Arunachal Pradesh)
3.	Assam	1. Asom Gana Parishad	Elephant	Head Office:- Gopinath Bordoloi Road, Guwahati- 781001 (Assam.)
		2. Communist Party of India (Marxist Leninist) (Liberation)	Flag with three Stars	U-90, Shakarpur, Delhi-110092.
4.	Bihar	1. Jharkhand Mukti Morcha	Bow & Arrow	Bariatu Road, Ranchi-834008 (Jharkhand).
		2. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V. P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
		3. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.



Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
5.	Goa	1. Maharashtrawadi Gomantak	Lion	Vikas 'A' Building, 3 <sup>rd</sup> Floor, Near Pharmacy College, 18 <sup>th</sup> June Road, Panaji-403001 (Goa)
		2. United Goans Democratic Party	Two Leaves	1 <sup>st</sup> Floor, Casa Dos Aliados, Behind Gomat Vidya Niketan, Absde Faria Road, Margao, Goa-403601.
6.	Haryana	Indian National Lok Dal	Spectacles	100, Lodhi Estate, New Delhi.
7.	Himachal Pradesh	Himachal Vikas Congress	Telephone	Samkhetar Bazar, Mandi-175001 (Himachal Pradesh).
8.	Jammu & Kashmir	1. Jammu & Kashmir National Conference	Plough	(i) Sher-e-Kashmir Bhavan, Residency Road, Jammu (Jammu & Kashmir)
				(ii) Nawai Subh Complex, Zero Bridge, Srinagar (Jammu & Kashmir).
		2. Jammu & Kashmir National Panthers Party	Bicycle	17, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
		3. Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party	Ink Pot & Pen	Nowgam Bye-Pass, Srinagar (J & K).
9.	Jharkhand	1. Jharkhand Mukti Morcha	Bow & Arrow	Bariatu Road, Ranchi-834008 (Bihar).

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.

2. Rashtriya Janata Dal  
Hurricane Lamp  
13, V. P. House,  
Rafi Marg,  
New Delhi-110001.

3. Janata Dal (United)  
Arrow  
7, Jantar Mantar Road,  
New Delhi-110001.

10. Karnataka  
1. Janata Dal (Secular)  
A Lady Farmer carrying Paddy on her head  
5, Safdarjung Lane,  
New Delhi – 110003.

2. Janata Dal (United)  
Arrow  
7, Jantar Mantar Road,  
New Delhi – 110001.

1. Kerala  
1. Kerala Congress  
Bicycle  
State Committee Office, Near Star Theatre Junction, Kottayam South (Kerala)

2. Kerala Congress (M)  
Two Leaves  
State Committee Office, Near Fire Station, Kottayam (Kerala)

3. Muslim League Kerala State Committee  
Ladder  
Kerala State Committee, League House, Red Cross Road, Calicut-32 (Kerala)

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		4. Janadhipathya Samrakshana Samithi	Bus	Kerala State Committee Office, Iron Bridge P.O., Alleppey-688011, Kerala.
12.	Madhya Pradesh	Samajwadi Party	Bicycle	18, Copernicus Lane, New Delhi.
13.	Maharashtra	Shivsena	Bow and Arrow	Shivsena Bhavan, Gadkari Chowk, Dadar, Mumbai-400028 (Maharashtra)
14.	Manipur	1. Federal Party of Manipur	Rising Sun	Soraya Leirak, Naga Maj. Imphal-795001 (Manipur)
		2. Manipur People's Party	Bicycle	People's Road, Imphal- 795001 (Manipur)
15.	Meghalaya	1. Hill State People's Democratic Party	Lion	Kench's Trace, Laban, Shillong-793004 (Meghalaya)
		2. Meghalaya Democratic Party	(To be notified later on)	Mission Compound, Mawkhar Shillong-793001, Meghalaya."
		3. United Democratic Party	Drum	Mawlai Nonglum, Shillong-793008 (Meghalaya).
16.	Mizoram	1. Mizo National Front	Star	General Headquarters, Zarkawt, Aizwal (Mizoram)

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		2. Zoram Nationalist Party	Sun (without rays)	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
		3. Mizoram People's Conference	Electric Bulb	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
17.	Nagaland	1. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
		2. Nationalist Democratic Movement	Battery Torch	(i) NDMHQ, Nagaland Post Box-106, Dimapur-797112, Nagaland.  (ii) Chisi Garden, The Habitet, 3 <sup>rd</sup> Mile, Chekiya Village, Dimapur-797112, Nagaland.
		3. Nagaland Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.
18.	Orissa	Biju Janata Dal	Conch	Naveen Nivas, Aerodrome Gate, Bhubaneswar-751009 (Orissa).
19.	Pondicherry	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu)
		2. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu)

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.

3. Pattali Makkal Katchi

Mango

63, Nattu Muthu  
Naiken Street, Vanniya  
Teynampet,  
Chennai-600018  
(Tamil Nadu)

20. Punjab

1. Shiromani Akali Dal

Scales

House No.256,  
Sector-9 C,  
Chandigarh.

2. Shiromani Akali Dal  
(Simranjit Singh Mann)

Cart

Flat No. 36, Sector-4,  
Chandigarh.

21. Sikkim

Sikkim Democratic Front

Umbrella

Upper Deorali,  
Gongtok, East Sikkim.

22. Tamil Nadu

1. All India Anna Dravida  
Munnetra Kazhagam

Two leaves

275, Avvai Shanmugam  
Salai, Royapettah,  
Chennai-600014  
(Tamil Nadu).

2. Dravida Munnetra  
Kazhagam

Rising Sun

'Anna Arivalayam'  
268-269, Anna Salai,  
Teynampet,  
Chennai-600018  
(Tamil Nadu)

3. Marumalarchi Dravida  
Munnetra Kazhagam

Top

'THAYAGAM',  
No.141, Rukmani  
Lakshmi Pathi Salai,  
Egmore, Chennai-  
600008 (Tamil Nadu).

4. Pattali Makkal Katchi

Mango

63, Nattu Muthu  
Naiken Street, Vanniya  
Teynampet,  
Chennai-600018  
(Tamil Nadu)

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.

23.	Tripura	1. Indigenous Nationalist Party of Tripura	Two Leaves	Abhayanagar, Agartala-799005 (Tripura)
		2. All India Trinamool Congress	Flowers & Grass	30-B, Harish Chatterjee Street, Calcutta-600026 (West Bengal)
24.	Uttar Pradesh	1. Samajwadi Party	Bicycle	18, Copernicus Lane, New Delhi
		2. Rashtriya Lok Dal	Hand Pump	12-Tughlak Road, New Delhi-110011
25.	Uttaranchal	1. Samajwadi Party	Bicycle	18, Copernicus Lane, New Delhi
		2. Uttarakhand Kranti Dal	Chair	Central Office: Panchakuti, Malital, Nainital, (Uttaranchal).
26.	West Bengal	1. All India Forward Bloc	Lion	28, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi -110001
		2. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Calcutta-700016 (West Bengal)
		3. All India Trinamool Congress	Flowers & Grass	30-B, Harish Chatterjee Street, Calcutta-600026 (West Bengal)

**TABLE - III**  
**REGISTERED UNRECOGNISED PARTIES**

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1.	Adarsh Lok Dal	Abu Nagar, Opposite Police Station Fatehpur City, Distirct, Fatehpur (U.P)
2.	Adarsh Political Party	405, Kundan Bhawan Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110 033.
3.	Adarshwadi Dal	Jawahar Road, Khurja-203136. Distt. Bulandshahr, (U.P.)
4.	Advait Ishawasyam Congress	Guruaaiyanwari Ashram, Riva Naka, Meher, Distt. Satna, Madhya Pradesh.
5.	Agar Jan Party	V-949, Aggarwal Wali Gali, Near Main Krishna Gali, Moujpur, Delhi-110053.
6.	Ajeaya Bharat Party	A-14, Mohan Estates, Mathura Road, New Delhi.
7.	Akahand Bharat Maha Sangh Sarvahara Krantikari Party	Sunfool, Kota-1, (Rajasthan)
8.	Akhand Bharat Ekta Andolan	Basant Bhawan, 17/34, Singhan Street, Kashipur-Pin Code-244713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttaranchal).
9.	Akhand Bharti	E-5 (1 <sup>st</sup> Floor), Bali Nagar, Shivaji Marg, New Delhi-110015.
10.	Akhil Bharat Hindu Mahasabha	Mandir Marg, New Delhi-110001.
11.	Akhil Bharatiya Aman Committee	1/9986, West Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032.
12.	Akhil Bharatiya Ashok Sena	117/0/117, Gita Nagar, Kanpur-208025 (Uttar Pradesh)
13.	Akhil Bharatiya Bharat Mata - Putra Paksha	Office - Nandurbar, Pin-425412, Distt. Dhulia (Maharashtra).

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 14. | Akhil Bharatiya Bhrastachar Nirmoolan Sena          | Om Building, Chhatrapathi Shivaji Chowk, Gondhale Nagar, Hadpsar, Pune-411002 (Maharashtra) |
| 15. | Akhil Bharatiya Congress Dal (Ambedkar)             | Ch-1, Kumbha Nagar, Chittorgarh-312001 (Rajasthan).   |
| 16. | Akhil Bharatiya Dalit Utthan Party                  | A-201/2, Gali No. 1, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092.                                   |
| 17. | Akhil Bharatiya Dastkar Morcha                      | Chamber No.187, New Delhi Courts, Patiala House, New Delhi-110001.                          |
| 18. | Akhil Bharatiya Desh Bhakt Morcha                   | Puranderpur G.P.O., Patna (Bihar)   |
| 19. | Akhil Bharatiya Gareeb Party                        | Village-Kurana, Post Simnavali, Distt. Ghaziabad (U.P.)                                     |
| 20. | Akhil Bharatiya Garib Mazdoor Kisan Party           | 4/74, Sector-IV, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062.                                      |
| 21. | Akhil Bharatiya General Labour Party                | A-3/85, Nand Nagari, Delhi – 93   |
| 22. | Akhil Bharatiya Gorkha League                       | Mahabir Building, Ladenla Road, Darjeeling – 734101 ( West Bengal)                          |
| 23. | Akhil Bharatiya Jan Sangh                           | J-394, Shankar Road, New Delhi –110060  |
| 24. | Akhil Bharatiya Janata Congress                     | 4 U.F. Babar Place, Todarmal Road, Near Bengali Market, New Delhi-110001.                   |
| 25. | Akhil Bharatiya Kisan Mazdoor Morcha                | Shri Mahatma Gandhi Vichar Kendra, Uldan, Jhansi. (Uttar Pradesh)                           |
| 26. | Akhil Bharatiya Lok Tantrik Alp-Sankhyak Jan Morcha | Village Barve, Post Dahu, P.S.Ormanazi, Distt. Ranchi (Bihar)                               |
| 27. | Akhil Bharatiya Lokraj Party                        | H.O.Raghubir Nagar, Ballabgarh, Faridabad (Haryana).  |
| 28. | Akhil Bharatiya Loktantra Party                     | Vill & P.O.Dattavali, Distt. Meerut (U.P.)  |
| 29. | Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal                   | 1602, D.D.A. Janta Flats, G.T.B.Enclave, Delhi-110093.                                      |
| 30. | Akhil Bharatiya Manav Seva Dal                      | A-74, Sector-12, Noida (U.P.)   |
| 31. | Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)             | Khari Kuan, Mughalpura Ist, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.                                |



- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 32. | Akhil Bharatiya Rajarya Sabha                                 | Adarsh Gurukul Shahi, District<br>Pilibhit-262001 (Uttar Pradesh).  |
| 33. | Akhil Bharatiya Rajivwadi Congress<br>(Dubey)                 | WZ-8-93, Tanwar Market, Ring Road,<br>Naraina, New Delhi-110028.  |
| 34. | Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad<br>(Prem Ballabh Vyas)     | Gaughat, Mathura (U.P).   |
| 35. | Akhil Bharatiya Rashtriya Azad Hind<br>Party                  | H.O. 1 R 11-12 Vistar Yojna Dadabari, Kota<br>(Rajasthan).  |
| 36. | Akhil Bharatiya Revolutionary Shoshit<br>Samaj Dal            | Vaishali Nagar, Sidheshwar Ves, At. & Post :<br>Latur, Distt. Latur, 413512 (Maharashtra).                                    |
| 37. | Akhil Bharatiya Sangharsh Dal                                 | Nangli Bhattha, Fethehgarh Choorian Road,<br>Amritsar-143001, Punjab.   |
| 38. | Akhil Bharatiya Sena  | Om Kala Niketan Sankalap, Co-op. Housing<br>Society, Anandgar,<br>Vikhorili Park Site (West),<br>Bombay-400079 (Maharashtra). |
| 39. | Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi                          | Akhil Bharatiya Shivsena Bhawan, Gur<br>Mandi, Ludhiana (Punjab).   |
| 40. | Akhil Bhartiya Berozgaar Party                                | 7/96-97, Vikas Nagar, Lucknow<br>(Uttar Pradesh).   |
| 41. | Akhil Bhartiya Janata Vikas Party                             | 21-D, Pocket A-3, Everest Apartment,<br>Kalkaji Extention, New Delhi - 110019   |
| 42. | Akhil Bhartiya Loktantrik Congress                            | F-3, Park Road, Lucknow (Uttar Pradesh)   |
| 43. | Akhil Jan Vikas Dal   | 50A/1A, Nahar Pur, Rao S.K. Shopping<br>Complex, Sector-7, Rohini, Delhi-85.  |
| 44. | Akhil Rashtrawadi Party                                       | Moharvati Sisoudiya Bhawan, Near Dak<br>Bangla, Nadri Gate, Kasganj, District Eta<br>(Uttar Pradesh).                         |
| 45. | Ali Sena  | 1/1, Jafrabad, New Seelampur, Delhi-110053.   |
| 46. | All India Babu Jagjivan Ram Baba Saheb<br>National Congress   | C-22, Basement, Chirag Enclave,<br>New Delhi-110048.  |
| 47. | All India Christian Democratic and<br>Backward People's Party | Block A-1, Flat 2, Calcutta-700054<br>(West Bengal)   |
| 48. | All India Dalit Welfare Congress                              | Flat No. 44, Sector B-4, Narela,<br>Delhi.  |

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 49. | All India Forward Bloc (Subhasist)               | 49-M, Mothilal, 1 <sup>st</sup> Street, Madurai- 625010 (Tamil Nadu)                                      |
| 50. | All India Gareeb Congress                        | A-1/126, Sector-6, Rohini, New Delhi  |
| 51. | All India Homeless People Congress               | Nabagram Garia, P.O. Panchpota, South 24 Parganas-743516 (West Bengal).                                   |
| 52. | All India Indira Congress (Secular)              | 2680, Chooriwalan, Delhi-110006.  |
| 53. | All India Krantikari Congress                    | 184/1469, Moti Lal Nagar-1, Goregaon (West), Mumbai-400104, Maharashtra.                                  |
| 54. | All India Lok Raj Party                          | Village-Meharban, Tehsil & District-Ludhiana (Punjab).  |
| 55. | All India Mahila Raj Party                       | 5A, Orient Row, Calcutta-700017 (West Bengal).  |
| 56. | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen           | Darussalam Board, Hyderabad (Andhra Pradesh)  |
| 57. | All India Minorities Front                       | 148, South Avenue, New Delhi-110001.  |
| 58. | All India Moovendar Munnani Kazhagam             | Lake Area, Melur Road, Madurai-625107 (Tamil Nadu).   |
| 59. | All India Muslim Forum                           | C-177, Sector 'J', Aliganj, Lucknow (Uttar Pradesh).  |
| 60. | All India People's Party                         | Central Committee, Ghandhi Nagar – 1 <sup>st</sup> Line, Berhampur-760001 (Orissa).                       |
| 61. | All India Progressive Janata Dal                 | 17, Akbar Road, New Delhi-110001.   |
| 62. | All India Rajiv Krantikari Congress              | B-68, Jagat Puri, Delhi-110051.   |
| 63. | All India Sadguna Party                          | Kalkiri Indlu Village, RKVB Pet Post, Karvet Nagar Mandal, Pin-517582, Chittoor District, Andhra Pradesh. |
| 64. | All India Shiromani Baba Jiwan Singh Mazhabi Dal | Village & P.O. Majitha, Amritsar (Punjab).  |
| 65. | All India Tafsili United Party                   | Village Simulpur, Post-Thakur Nagar Distt. 24-Parganas (N) (West Bengal).                                 |
| 66. | All India Tribes And Minorities Front            | Windrush Hill Annexe, Shimla-2 (Himachal Pradesh)   |

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 67. | All J & K Peoples Patriotic Front                          | Jawaharnagar, House No.97, Police Station,<br>Ragh Bagh, Srinagar (Jammu & Kashmir).                       |
| 68. | All Jharkhand Students Union                               | Saket Vihar, Harmu, Ranchi,<br>Ranchi-834 002 (Jharkhand).   |
| 69. | All Kerala M.G.R.<br>Dravida Munnetra Party                | Das Building Nemom P.O.<br>Thiruvananthapuram-695 020<br>(Kerala)  |
| 70. | All Party Hill Leaders Conference<br>(Armison Marak Group) | P.O. Tura Chandmari,<br>West Garo Hills-794002 (Meghalaya)   |
| 71. | Ambedkar National Congress                                 | 8-3-323, Amreetpet Cross Road, Hyderabad<br>(Andhra Pradesh).  |
| 72. | Ambedkar Peoples Movement                                  | 39. Saravana Street, T. Nagar,<br>Chennai- 600017 (Tamil Nadu).  |
| 73. | Ambedkar Pragatisheel Republican Dal                       | Dr. Lohia Colony, Shahjhapur, Pin-242001<br>(Uttar Pradesh).   |
| 74. | Ambedkar Samaj Party                                       | 304, Mandakini Enclave, Alaknanda,<br>New Delhi-110019.  |
| 75. | Ambedkarbadi Party   | 136/1, Diamond Harbour Road,<br>Calcutta-700063 (West Bengal).   |
| 76. | Ambedkarist Republican Party                               | 20, Dhandiwal Lay-out,<br>Ring Road, Joginagar,<br>Nagpur-440 027 (Maharashtra).                           |
| 77. | Amra Bangalee  | No.2, Ballav Street, Calcutta-700004<br>(West Bengal)  |
| 78. | Anaithindhia MGR Katchi                                    | 68, Habibullah Road, T. Nagar,<br>Chennai-600017, Tamil Nadu.  |
| 79. | Anaithinthiya Thamizhaga Munnetra<br>Kazhagam              | 10/2, Nalvar Nagar, Kalveerampalayam,<br>Bharathiar University (Post)<br>Coimbatore-641048<br>(Tamil Nadu) |
| 80. | Andaman Nicobar Vikas Congress                             | MB-23, M.G. Road, Middle Point,<br>Port Blair-741 001,<br>(Andaman Nicobar Islands)                        |
| 81. | Andhra Nadu Party  | 10-5-14/1, Masab Tank, Hyderabad-500028<br>(Andhra Pradesh).   |

- |     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 82. | Andhra Pradesh Navodaya Praja Party | No.3-11, Thukkuguda, Village,<br>Maheshwaram Mandal, Mankhal Post,<br>Ranga Reddy District (Andhra Pradesh). |
| 83. | Anna Telugu Desam Party             | 4-1-825/8,9 and 10, NTR Estates, Abids,<br>Hyderabad-500001, Andhra Pradesh.                                 |
| 84. | Anndata Party                       | Mandir Sri Purushottam Bhagwan,<br>Chandrabhaga-326023, Jhalarapatan City,<br>District-Jhalawar (Rajasthan). |
| 85. | Antashchetan                        | PU-102, 1 <sup>st</sup> Floor, Pitam Pura,<br>Delhi – 110 088.   |
| 86. | Apna Bharat                         | Saini Bhawan, Near Kalkaji Mata Mandir,<br>Kalkaji, New Delhi – 110 019.                                     |
| 87. | Apna Dal                            | 1/2A.P. Sen Road, Lucknow, (U.P.)  |
| 88. | Apna Hindu Ram Bhakat Party         | Village & P.O. Semrikhan Kot,<br>Sidharth Nagar, Uttar Pradesh-272 192.                                      |
| 89. | Arya Sabha                          | 7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.   |
| 90. | Ati Pichhra Jan Dal                 | Village: Rampur Bakli, Post & Distt. Bijnor,<br>Uttar Pradesh.   |
| 91. | Autonomous State Demand Committee   | Rongniheng, Diphu-782460, Karbi Anglong<br>(Assam).  |
| 92. | Awami Party                         | E-11/77, New Colony, Hauz Khas Ext.,<br>Malviya Nagar, New Delhi-110017.                                     |
| 93. | B.C. United Front                   | 15, Saptagiri Nagar, Rethi Bowli,<br>Hyderabad – 500 028, Andhra Pradesh.                                    |
| 94. | Bahujan Ekta Party ( R )            | 2151/17A/12, New Patel Nagar,<br>New Delhi-110008.   |
| 95. | Bahujan Kisan Dal                   | B-7/108-A, Safdarjung Enclave Extn.,<br>New Delhi – 110 029.   |
| 96. | Bahujan Loktantrik Party            | G-161, J.J.Colony, Wazirpur, Delhi-110052.   |
| 97. | Bahujan Republican Party            | H.No.1-7-1046/18, SRT Quarters-18,<br>Azamabad, Ramnagar, Hyderabad-500020<br>(Andhra Pradesh).              |
| 98. | Bahujan Samaj<br>Party (Ambedkar)   | Village & Post Office Segti, Distt. Ambala<br>(Haryana).   |

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 99.  | Bahujan Vikas Party                        | B-3/512, J.J.C. Raghubir Nagar,<br>New Delhi – 110027.                                  |
| 100. | Barak Valley Territory Demand<br>Committee | Swaraj Bhawan, Silehar Road, P.O., P.S. and<br>District - Karimganj, Pin-788711, Assam. |
| 101. | Bharat Dal                                 | Bharat Sevadham Arnayak, Krantideep<br>Mourana, Nurpur, Distt. Bijnaur (U.P.).          |
| 102. | Bharat Jan Party                           | 324, Kailash Nagar, Ghaziabad<br>(Uttar Pradesh)  |
| 103. | Bharat Ki Lok Jimmedar Party               | 3/250, Vishwas Khand, Gomti Nagar,<br>Lucknow-226010 (Uttar Pradesh)                    |
| 104. | Bharat Kranti Rakshak Party                | Purani Bazar, Post Bharwari, District<br>Kaushambi, Allahabad, Uttar Pradesh.           |
| 105. | Bharat Mangalam Parishad                   | Jamo Bazar, Hospital Chowk, P.O. Jamo<br>Bazar, District Siwan, Bihar.                  |
| 106. | Bharat Nav Jyoti Sangh                     | 18/25-A, Kursava, Fulbagh, Kanpur-208001<br>(Uttar Pradesh).                            |
| 107. | Bharat Pensioner's Front                   | F-17, Hauz Khas Enclave,<br>New Delhi-110016.   |
| 108. | Bharat Srijan                              | Geeta Nagar, Balkeshwar, Agra – 282 004,<br>Uttar Pradesh.                              |
| 109. | Bharat Vishal Party                        | House No. 196, 1 <sup>st</sup> Floor, Gali Batashan,<br>Chawri Bazaar, Delhi – 110 006. |
| 110. | Bharatha Makkal Congress                   | N.30, Veluchetty Street, S.Kadiyur, Jolarpet,<br>North Arcot Distt. (Tamil Nadu).       |
| 111. | Bharathiya Nethaji Party                   | 3857, 4 <sup>th</sup> Cross, Gayathri Nagar,<br>Bangalore-560021 (Karnataka).           |
| 112. | Bharatiya Ambedkar Party                   | Main Bazar, Krishna Nagar, Jaura Fatak,<br>Amritsar (Punjab)                            |
| 113. | Bharatiya Asht Jan Party                   | 151, C Sector, Second Floor, Room No. 203,<br>Inder Puri, Bhopal –462022 (M.P.).        |
| 114. | Bharatiya Backward Party                   | 71, Surya Apartments, Fraser Road,<br>Patna –800001 (Bihar).                            |
| 115. | Bharatiya Berözgar Mazdoor Kisan Dal       | Bansal Gaon, P.O.Dheghat, Patti Malla,<br>Chackaut, Distt- Almora (Uttaranchal)         |

- |      |                                     |  |
|------|-------------------------------------|--|
| 116. | Bharatiya Democratic Dal            | No. 1A, Gangai Amman Koil, Second Street, Vadapalani, Chennai-600026 (Tamil Nadu).           |
| 117. | Bharatiya Eklavya Party             | Village and Post Belhar Kalan, Tehsil Mahdawal, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh.    |
| 118. | Bharatiya Ekta Dal                  | 189, Basant Apartment, Basant Vihar, New Delhi – 57.   |
| 119. | Bharatiya Gaon Taj Dal              | Village-Kuka, P.O. – Maqsudpur, District Kapurthala, (Punjab).                               |
| 120. | Bharatiya Grameen Dal               | Aryavart Prakashan Mandir, Bus Stop Gosaiganj, Janpad, Lucknow, Uttar Pradesh.               |
| 121. | Bharatiya Hindu Sena                | Amer Bhawan, Amer, Jaipur (Rajasthan).   |
| 122. | Bharatiya Jai Jawan Jai Kisan Party | Near Truck Union, Jhajjar, Distt-Rohtak (Haryana).   |
| 123. | Bharatiya Jan Berojgar Chhatra Dal  | Near R.T.O. Office, Hussainganj, Siddarth Nagar, Uttar Pradesh.                              |
| 124. | Bharatiya Jan Congress              | 5158/XV, Mahalaxmi- Building, Behind Ramakrishna Mission, Paharganj Lane, New Delhi – 110055 |
| 125. | Bharatiya Jan Jagriti Party         | Brijdham Ashram, Ranhera, Tehsil-Chhata, District-Mathura (Uttar Pradesh)                    |
| 126. | Bharatiya Jan Kisan Party           | 35-C/2, Jaynteeppur, Dhumanganj, Allahabad-211011 (Uttar Pradesh).                           |
| 127. | Bharatiya Jan Sabha                 | C/o Raja Ram Yadav, Raghuvir Nagar, New Colony, Devaria (U.P)                                |
| 128. | Bharatiya Jan Vikas Party           | East Ashok Nagar, Post-Gulab House, Road No.14A, Kakkarbagh, Patna-20, Bihar.                |
| 129. | Bharatiya Jantantrik Parishad       | 8/1, Outside Datia Gate, Jhansi-284001 (U.P.)  |
| 130. | Bharatiya Janvadi Party             | A-559, Shastri Park Extn., Buland Masjid, Delhi-110053.                                      |
| 131. | Bharatiya Kisan Kamgar Party        | 214, Shahpur Jat, New Delhi-110049.  |
| 132. | Bharatiya Kisan Parivartan Party    | Nagla Dakhal, Kotla Road, Ferozabad-283203, District Ferozabad, Uttar Pradesh.               |

133.	Bharatiya Krantikari Kammand Party	214, LIC Colony, Tagore Town, Allahabad-211002 (U.P.)
134.	Bharatiya Kushal Samaj Party	80 Yards, Harijan Basti, H.No.82, Sultan Puri, New Delhi-110041.
135.	Bharatiya Labour Party	B.P. 281, Ravi Nagar, Mughalasarai, Varansai -232101 (U.P.)
136.	Bharatiya Lok Kalyan Dal	Area/Post/Tahsil Bikabur, Distt. Faizabad, (Uttar Pradesh)
137.	Bharatiya Lok Nyay Party	7/103, Awas Vikas Colony, Sikandra Yojna, Agra, Uttar Pradesh.
138.	Bharatiya Manav Raksha Dal	Barkhera, Pathani, Bhopal-21 (Madhya Pradesh).
139.	Bharatiya Manavata Vikas Party	133/4, Qutub Enclave, Phase-II, New Delhi-110016.
140.	Bharatiya Minorities Suraksha Mahasangh	410, Arcadia Building, Sir J.J.Road, Opp. J.J.Hospital Bombay-400008 (Maharashtra)
141.	Bharatiya Momin Front	174, Anand Puri, West Boring Canal Road, Patna-800001 (Bihar).
142.	Bharatiya Muhabbat Party (All India)	H.No.18184, Chandsar Basti, Bhatinda-151001 (Punjab).
143.	Bharatiya Muslim Party (Siddiqui)	Village Surajpur, P.O. Raradeoria, Distt. Khiri-262071 (Uttar Pradesh)
144.	Bharatiya Nagrik Party	Village Kanasi, P.O. Kanasi, Distt. Farukhabad-207501 (Uttar Pradesh).
145.	Bharatiya Navshakti Party	5, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi - 110001.
146.	Bharatiya Parivartan Morcha	3/8, Shah Nagar, Mangla Puri Terminal, Palam, New Delhi
147.	Bharatiya Peoples and National Security National Party	C/o Hotel Nanda, 5 <sup>th</sup> Cross Gandhinagar, Bangalore-560009 (Karnataka).
148.	Bharatiya Praja Paksha	No.374/A, I-Floor, I-Block, I-Cross, Ravindranath Tagoor Nagar (R.T.Nagar), Bangalore-560032 (Karnataka).
149.	Bharatiya Prajatantra Party	Patel Nagar, Road. No.9, Patna-23 (Bihar)

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 150. | Bharatiya Prajatantrik Shudh Gandhiwadi<br>Krishak Dal | Misda, Distt. Janjgeer, Vikas Khand Navgarh,<br>Chhattisgadhandchal, Chhattisgarh.   |
| 151. | Bharatiya Rajiv Congress                               | 145, A-1, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave,<br>New Delhi-110029.  |
| 152. | Bharatiya Rashtravadi Paksha                           | Mukut Niwas, Shankardas Desai Street,<br>Desaiwaga (Nadiad-387001), Gujarat.   |
| 153. | Bharatiya Rashtriya Janhit Party                       | C-2968, Sapna Colony, Lucknow-226017<br>(Uttar Pradesh).   |
| 154. | Bharatiya Rashtriya Mazdoor Dal                        | Naya Sarafa, Gwalior-474001<br>(Madhya Pradesh).   |
| 155. | Bharatiya Rashtriya Morcha                             | Navdiya Fatehgarh, Farukhabad (U.P.).  |
| 156. | Bharatiya Rashtriya Parishad                           | E-164, Samastpur Road, Pandav Nagar,<br>Delhi-110092.  |
| 157. | Bharatiya Republican Paksha                            | Dr.Ambedkar Bhawan,Gokuldas Pasta Road,<br>Dadar,Bombay-400014 (Maharashtra)   |
| 158. | Bharatiya Samaj Dal                                    | 85, Chowk Makandu Ganj, Pratapgarh,<br>Uttar Pradesh.  |
| 159. | Bharatiya Samaj Kalyan Party Bharat                    | Ravender Electronics,Purani Chungi, Agra<br>Road,Hathras, Distt. Aligarh (U.P)   |
| 160. | Bharatiya Samajwadi Vikas Party                        | F-717, Mangolpuri, Delhi-110083.   |
| 161. | Bharatiya Samata Party                                 | A-71, Nirman Vihar, New Delhi.   |
| 162. | Bharatiya Sarvkalayan Kranti Dal                       | 2/643/C, Rambagh Colony, Ramghat Road,<br>Aligarh-202001 (Uttar Pradesh)   |
| 163. | Bharatiya Satyarth Sangathan                           | Bharat Nagar, Prem Vidyalaya, Railway<br>Crossing, Beside Sankirtan Kunj, Near Birla<br>Mandiar, Varindavan Road, G.T.V – 3,<br>Mathura-281003, Uttar Pradesh. |
| 164. | Bharatiya Seva Dal                                     | 3-1-236/239/1, First Floor, Somasunderam<br>Street, Secunderabad-500003<br>(Andhra Pradesh).   |
| 165. | Bharatiya Shramik Dal                                  | L-238, Vikash Pradhikaran Colony, Indira<br>Nagar, Rai Bareilly (U.P.)   |
| 166. | Bharatiya Subhash Sena                                 | Vill. and Post Office: Bankasiya Shivratan<br>Singh, Janpad-Gonda -271302. (U.P.)  |



- |      |                                    |  |
|------|------------------------------------|--|
| 167. | Bharatiya Surajya Manch            | 831, Sector-10, Panchkula-134113, Haryana.   |
| 168. | Bharatiya Yuvak Shakti             | B-32-B, New Gupta Colony, Delhi-110009.  |
| 169. | Bharipa Bahujan Mahasangha         | Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Bombay-400014 (Maharashtra).        |
| 170. | Bharteey Samajvadi Morcha          | 3/1108, Dehradun Chowk Saharanpur-247 001 (Uttar Pradesh)                            |
| 171. | Bharti Krishak Seva Samaj          | Village-Kharkhari Ashram, Post-Kharkhoda, District-Meerut (Uttar Pradesh).           |
| 172. | Bharti Lok Lehar Party             | 136, Ajit Nagar, Amritsar (Punjab).  |
| 173. | Bharti Nari Sangathan              | Sector-21/5, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.                                   |
| 174. | Bharti Sarvadarshi Parishad        | 86/12, Deputy Ka Padav, Dev Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh.                            |
| 175. | Bhartiya Deshbhakt Party           | 92/H/2, Pratap Market, Munirka (C/o Somu Press), New Delhi-110067.                   |
| 176. | Bhartiya Gorkha Janashakti         | 26/2, H.D. Lama Road, Darjeeling-734 101, (West Bengal)                              |
| 177. | Bhartiya Harit Kranti Dal          | Village & P.O. - Sonta, Via - Alipur, Kheri, Distt. Mujjafar Nagar, Uttar Pradesh    |
| 178. | Bhartiya Jan Kalyan Party          | 199/2, Arjun Nagar, Kaithal-136 027, (Haryana)                                       |
| 179. | Bhartiya Jana Congress (Rashtriya) | 113/70B, Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna-800023 (Bihar).                            |
| 180. | Bhartiya Kisan Mazdoor Party       | Village And Post Meerpur, Tehsil-Khair, Distt. Aligarh (Uttar Pradesh).              |
| 181. | Bhartiya Mahashakti Morcha         | Jai Narayan Varma Road, Fatehgarh, District-Farrukhabad, Uttar Pradesh, Pin-209 601. |
| 182. | Bhartiya Nojawan Dal               | Sector-6, Pocket B-2, H.No.23, Rohini, New Delhi-110085.                             |
| 183. | Bhartiya Rakshak Party             | H.No. 397, Housing Board Colony, Rohtak-124 001 (Haryana)                            |

- |      |                                  |   |
|------|----------------------------------|---|
| 184. | Bhartiya Vikas Party             | 139-B, Tamur Nagar, New Friends Colony,<br>New Delhi  |
| 185. | Bhomi Jotak Samooch              | 560/12, Krishna Nagar, Kanpur Road,<br>Lucknow-226005 (Uttar Pradesh)   |
| 186. | Bhrashtachar Virodhi Dal         | 7/216, Ramesh Nagar, New Delhi-110015.  |
| 187. | Bihar People's Party             | 303, C-Block, Daroga Prasad Roy Path,<br>Patna-800001 (Bihar).  |
| 188. | Bihar Vikas Party                | Room No.6, 1-Special Family Type, R-Block,<br>Patna-800001 (Bihar).   |
| 189. | Bira Oriya Party                 | C/o Shri P.Samantaray, IAS(Retd.), At/P.O.<br>Madhupatna, Cuttack-10 (Orissa )                                    |
| 190. | Bolshevik Party Of India         | C/o Bhai Bansod Juni Oli, Ram Mandir,<br>Kamptee, District-Nagpur (Maharastra).                                   |
| 191. | Brij Pradesh Nirman Sangh        | Sri Aurobindo Bhawan, 28/352,<br>Gudri Mansoor Khan, Agra-3 (U.P.)  |
| 192. | Bundelkhand Mukti Morcha         | Sh. Sukhlal Ice Factory Bhavan, Elite<br>Chouraha, Jhansi-284001 (Uttar Pradesh).                                 |
| 193. | Bundelkhand Vikas Dal            | Village & P.O.-Culpahad, Janpad-<br>Hamirpur (U.P.)   |
| 194. | Champaran Vikas Party            | Block-A, Flat No.102, Daroga Roy Path,<br>Patna (Bihar).  |
| 195. | Chandigarh Vikas Party           | House No.230, Sector 9-C,<br>Chandigarh-160009.   |
| 196. | Chhattisgarh Kisan Mazdoor Party | House of P.R. Negi, Behind Jhule Lal Dham,<br>Gali Dr. Bhanu Pratap Singh, Katora Talab,<br>Raipur, Chhattisgarh. |
| 197. | Chhattisgarh Mukti Morcha        | P.O.Dalli Rajhara, Distt-Durg -491228<br>(Chhattisgarh)   |
| 198. | Chhattisgarhi Samaj Party        | Handipara, Azad Chowk,<br>Raipur-492001<br>(Chhattisgarh)   |
| 199. | Christhava Makkal Katchi         | 173, Ponnagar, Tiruchirapalli-620001,<br>(Tamil Nadu)   |
| 200. | Christian Democratic Front       | No.9, Rosary, Church Road, San Thome,<br>Chennai (Tamil Nadu)   |

201.	Christian Mannetra Kazhagam	93, Thaiyappa Mudali Street, Chennai-600001 (Tamil Nadu)
202.	Communist Marxist Party Kerala State Committee	Kunnukuzhy, Trivāndrum-695037 (Kerala)
203.	Congress (Secular)	Ram Raj Bhavan, Manikkath Road, Cochin-16. (Kerala)
204.	Congress Jananayaka Peravai	24, Ormes Road, Kilpank, Chennai-600010.
205.	Congress of People	5, Patropolis Colaba, Bombay-400005 (Maharashtra)
206.	Congunadu Makkal Katchi	TTS Complex-58, Mettur Road, Erode District-638011, Tamil Nadu.
207.	Dalit Mazdoor Kishan Party	E-11/77, New Colony, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
208.	Dalit Muslim Vikas Party	2/306, Dakshin Puri, New Delhi-110062.
209.	Dalit Samaj Party	Navchetna Path, Shiv Puri P.O. Anishabad, Patna-800 002 (Bihar)
210.	Delhi Parivartan Party	E-37, Tagore Garden Extention, New Delhi – 110 027.
211.	Delhi Vikas Party	B-600 Jahangir Puri, Delhi – 110033
212.	Democratic Bahujan Samaj Morcha	Village-Sotran, P.O. Chak Kalai, Tehsil & District-Nawanshahar, Punjab.
213.	Democratic Bharatiya Samaj Party	985-B, Arjan Nagar, Ladowali Road, Jalandhar City-144001, Punjab.
214.	Democratic Congress Party	291, Odeon Wali Gali, Near Gopal Mandir, Majitha Road, Amritsar (Punjab).
215.	Democratic Dal of Haryana	Paintawas House, Bhiwani Road, Charkhi Dadri, Distt. Bhiwani, Haryana.
216.	Democratic Forward Bloc	66, Tamil Sangam Road, Madurai-625001 (Tamil Nadu)
217.	Democratic Insaf Party	D-62, G.T.B.Nagar (Kareli), Allahabad (Uttar Pradesh).
218.	Democratic Janta Dal (J & K)	344 EP, Cristen Colony (Shaheedi Chowk), Jogi Gate, Jammu (Jammu & Kashmir).

219.	Democratic Jharkhand Mukti Morcha	Pump Road, Tonka Toli. P.O. Chakradharpur-833 102, Shinghbhum West (Jharkhand)
220.	Democratic Movement	Ward No.1, Kathua (Jammu & Kashmir)
221.	Democratic Party Of India	162, Anandrao Umra Marg, Ashok Nagar, Nagpur-17 (Maharashtra)
222.	Democratic Revolutionary Peoples Party	Akham Leikai, Kwakaithal Airport Road, Imphal-795001, Manipur.
223.	Democratic Socialist Party (Prabodh Chandra)	63- Ananda Plit Road, 1 <sup>st</sup> Floor, Kolkata-700014, West Bengal.
224.	Desh Bachao Jan Morcha	D-6/171, Sector-31, Noida-201301 (Uttar Pradesh).
225.	Desh Bhakt Party	B-114, Preet Vihar, Delhi- 110092
226.	Desia Pathukappu Kazhagam	"ARIVAGAM" 33, Ramakrishna Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai-600 093 (Tamil Nadu).
227.	Dev Sena Party	Village & Post: Sakrod, Tehsil & Distt. Rajasmand, (Rajasthan).
228.	Dhiravida Thelugar Munnetra Kalagam	4/802, Kurunji Street, Tahsildhar Nagar, Madurai-625020.
229.	Divya Shakti Party	7/106, Ground Floor, Geeta Colony, Delhi-110031.
230.	Dravida Makkal Congress	No.11, Jawharlal Nehru Road, 1 <sup>st</sup> Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600083, Tamil Nadu.
231.	Dravida Peravai	69, Rangapillai Street, Pondicherry-605001.
232.	Dravida Vizhipunarchi Kazhagam	17-A, Gangappa Street, (Opp. To A.V.M. Studio), Vadapalani, Chennai-600026, Tamil Nadu.
233.	Ekta Kranti Dal U.P.	C/o Satyapal Sagar Amanjai Jalal Nagar, Opp. Chhotti Line, Shahjhapur (Uttar Pradesh)
234.	Ekta Samaj Party	6898, Neem Street, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.

- |      |                               |   |
|------|-------------------------------|---|
| 235. | Ekta Shakti                   | Jhanjhadi, Post – Bhaini Khurd,<br>Tehsil – Nilokheri, Distt. Karnal,<br>Haryana.                     |
| 236. | Ephraim Union                 | Tlangdingliana Building, Bawngkawn South,<br>Aizawl-796012, (Mizoram)                                 |
| 237. | Farmers Developments Party    | 149, Mambalam High Road, T. Nagar,<br>Chennai-600017, Tamil Nadu.                                     |
| 238. | Federal Congress of India     | Holumbi Khurd, Village & P.O. – Holumbi<br>Kalan, Delhi – 110 082.                                    |
| 239. | Federation Of Sabhas          | 101, Savitri Complex, Opp. Chaudhry<br>Cinema, Ghaziabad-201001. (U.P.)                               |
| 240. | Forward Bloc (Socialist)      | Temple Street, P.O. & Distt.<br>Jalpaiguri-735101 (West Bengal)                                       |
| 241. | Gandhiwadi Rashtriya Congress | Teachers Colony, Tehsil Road, Mahoaria,<br>Post Mahoaria Town And Distt. Mirjapur<br>(Uttar Pradesh). |
| 242. | Gareebjan Samaj Party         | 450, Jaidebvi Nagar, Garh Road, Meerut<br>(Uttar Pradesh).  |
| 243. | Garib Janata Party            | Rajinder Nagar, Main Bazar, P.O. Vijay<br>Nagar, Batala Road, Amritsar (Punjab).                      |
| 244. | Garo National Council         | New Tura, West Garo Hills (Meghalaya)   |
| 245. | Goa People's Congress         | Opp. Menezes Building,<br>Altinho, Panaji, Goa-403 001.   |
| 246. | Goa Pokx                      | Opp. Menezes Building, Altinho, Panaji,<br>Goa-403001.  |
| 247. | Goa Rajiv Congress Party      | Ist Floor Dias Building, Rua Ormuz Road,<br>Opp. Ferry Wharf, Panaji, Goa-403 001.                    |
| 248. | Goa Su-raj Party              | 383-A, Pirazona, Moira,<br>Bardez-Goa (Pin-403514).   |
| 249. | Goa Vikas Party               | Laxmi Sadan, Ground Floor, Opp. Assembly<br>Complex, Near Journalist Colony, Porvorim,<br>Goa-403507. |
| 250. | Golden India Party            | ‘Nandan Van’, B-94, Gyan Marg, Tilak<br>Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan).                             |

- |      |   |   |
|------|---|---|
| 251. | Gommant Lok Pokx                            | 31 <sup>st</sup> January Road, P.O.Box-242, Panjim (Goa).   |
| 252. | Gondvana Gantantra Party                    | Village & P.O. Tiverth, Tehsil Kutghora, District-Bilaspur (Chhattisgarh)   |
| 253. | Gorakha National Liberation Front           | Dr. Zakir Hussain Road (Jalpahar Road), P.O. and District-Darjeeling, Darjeeling Gorkha Hill Council (West Bengal). |
| 254. | Grama Munnetra Kazhagam                     | 'Z' Mangammal Salai, Renga Nagar, Tiruchirapalli-620021 (Tamil Nadu)  |
| 255. | Gujarat Adijati Vikash Paksh                | Block No.6/4, MLA Nivas, Sector-21, Gandhi Nagar (Gujarat).   |
| 256. | Gujarat State Janta Congress                | Indubhai Patel Bhawan, Vasant Chowk, Bhardra, Ahmedabad-380001 (Gujarat).   |
| 257. | Gujarat Yuva Vikas Party                    | C/o Darbar Kruba Transport, Near Bus Station, Vadnagar-384 355, District-Mehsana (Gujarat)                          |
| 258. | Haryana Gareeb Pichhra Yuva Sangathan Party | Village & Post: Aahraka, Tehsil & Distt. Jind, (Haryana).   |
| 259. | Haryana Janrakshak Dal                      | 249/3, Park Road, Adarsh Nagar, Gohana, Distt. Sonapat, Haryana.  |
| 260. | Haryana Lok Dal                             | 705, Sonipat Road, Rohtak (Haryana)   |
| 261. | Haryana Republican Party                    | 129-L, New Colony, Palwal, Distt. Faridabad, Haryana.   |
| 262. | Haryana Vikas Party                         | Kothi No. 136/22, Sonipat Road, Rohtak (Haryana).   |
| 263. | Himachal Kranti Party                       | Village Khart, P.O.Nandrool, Tehsil & Distt. Kangra-176001(H.P.)  |
| 264. | Himachal Pradesh State Akali Dal            | Near Bus Stand, Paonta Sahib, Himachal Pradesh.   |
| 265. | Hind Kisan Mazdoor Party                    | 31/419, Kela House, Maharana Pratap Nagar, Agra-4. (U.P.)   |
| 266. | Hind Morcha                                 | Samaj Sudhar Ashram, Siraspur, Delhi  |

267.	Hind Swarajya Ganatantra Party	S-41, Panchsheel Park, New Delhi-110017
268.	Hind Vikas Party	P.O. Sri Harbhagwan Nagar, Tapakalan, Near Kali Mandir, Jalesar Road, Ferozabad (Uttar Pradesh)
269.	Hindu Ekta Andolan Party	Hindi Ekta Karyalay, Malhar, Khan Bhag, Police Chowki, H.No.927/1, Sangli-416416, District Sangli, Maharashtra.
270.	Hindu Samaj Party	117/K-36. Sarvodaya Nagar, Kanpur (U.P.)
271.	Hindustan Janta Party	M/s Sono Sales Corporation, Subji Mandi, Khokadpura, Aurangabad (Maharashtra)
272.	Hindustan Party	202, Devika Apts., Baba Jan, Poona-411001. (Maharashtra).
273.	Hindustani Gareebwadi Party	61, Aggarwal Chambers, Vikas Marg, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092.
274.	Hindusthan Suraksha Party	North East Zone, Berpeta Road, Near Tourists Lodge, Ward No.6, District Berpeta (Assam).
275.	Hmar Peoples Convention	C/o Lalauva, House No. A/56, Bawngkawn Chimveng, Aizawl – 796 014 (Mizoram).
276.	Ikkiya Makkal Munnetra Kazhagam	Makkalagam No.11, Pearl Empire Apartments, Kuppan Beach Road, Tiruvanmiyur, Chennai (Tamil Nadu).
277.	Indian Bahujan Samajwadi Party	2/3, Ambedkar Nagar, Post-Nagina, Distt. Bijnaur-246762 (Uttar Pradesh).
278.	Indian Christian Front	Plot No.660, East Last Road, Anna Nagar, Madurai-625020, Tamil Nadu.
279.	Indian Christian Secular Party	Sagaya Matha Mligai, No. 105/167, Thiruvalluyar Nagar, Ayanavaram, Chennai-600 023. (Tamil Nadu)";
280.	Indian Ekta Party	A-180, Sector-40, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
281.	Indian Federal Democratic Party	1, Balwant Rai Mehta Lane, K.G. Marg, New Delhi-110001.
282.	Indian Justice Party	5, Pusa Road, IIIrd Floor, Karol Bagh, New Delhi.

283.	Indian Liberation Front	T-16, Green Park Extension, New Delhi-110016.
284.	Indian National Green Party	A/44, Paryavaran Complex, Saidulazaib, New Delhi-30.
285.	Indian National Labour Party	Rajani Mukherjee Smriti, Bhabar, Coal Dock Road,(Former Coal Controller's Office) Calcutta-700043 (West Bengal).
286.	Indian National League	No.7, Balwant Rai Mehta Lane, Kasturba Gandhi Marg Cross, New Delhi-110001.
287.	Indian Peace Party	X-919, Chand Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031.
288.	Indian People's Congress	79, Lawyers Chambers, Supreme Court, New Delhi-110001.
289.	Indian Republican Front	36/19/3, P.D. Kidganj, Allahabad, (Uttar Pradesh).
290.	Indian Secular Congress	202, Pocket-B,SFS (DDA Flats), Sukhdev Vihar, New Delhi – 110025
291.	Indian Union Muslim League	18, Feroz shah Road, New Delhi – 110001
292.	Indians Victory Party	54-B, Henry Road, Nagercoil-629001, Tamil Nadu.
293.	Islam Party Hind	Mohalla: Rajde Pur, Post-City Janpad, Gazipur, Uttar Pradesh.
294.	Jaghat Telugu Munnetra Kazhggam	No.33, Halls Road, P.A. Tower, F-9 & 10, Egmore, Chennai-600008, Tamil Nadu.
295.	Jai Bharat Party	RZH-710E (E/54), Raj Nagar II (Near Dev Hospital), Palam Colony, New Delhi-45.
296.	Jai Hind Party	Ward No.6, Supaul, P.O. & Distt. Supaul, Bihar-852131.
297.	Jai Jawan Jai Kisan Mazdoor Congess	WZ-553-A/3, Soni Kunj, Nangal Raya, New Delhi-110046.
298.	Jai Prakash Janata Dal	16, Ashoka Road, New Delhi-110001.
299.	Jai Telangana Party	H.No.34/9, SBH Colony, Shrinagar, Hyderabad-500073 (Andhra Pradesh)



300.	Jai Vijaya Bharathi Party	Chinnagottigallu P.O., Chittoor District, Andhra Pradesh.
301.	Jammu & Kashmir Awami National Conference	3-R.C. Quarters, Press Enclave, Pratap Park, Srinagar-190001 (J & K).
302.	Jammu & Kashmir People Conference	General Office, Old Secretariat Road, Sri Nagar-190001 (Jammu & Kashmir)
303.	Jammu And Kashmir Awami League	Central Office, No.1, Durganag Road, Adjacent Burn Hall School, Senawar, Srinagar-190001 (Jammu & Kashmir).
304.	Jammu And Kashmir National Democratic Front	168, Rawalpura Housing Colony, Srinagar (Jammu & Kashmir).
305.	Jan Chetna Party	Chamber No.475, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.
306.	Jan Kranti Morcha	89-M, Kidwai Nagar, Kanpur (Uttar Pradesh)
307.	Jan Lok Kalyan Party	Village & Post : Butrada, Tehsil: Shamli, Distt. Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh.
308.	Jan Samanta Party	B-125, Navjiwan Camp, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
309.	Jan Sewa Party	J-7, Laxmi Nagar, Vikas Marg, Delhi-110092
310.	Jana Hitkari Party	A/13-14, Industrial Estate, Rasulgarh, Bhubaneswar-751 010, Orissa.
311.	Jana Priya	A/2, Kastel, 5, Cornwell Road, Bangalore-560025 (Karnataka).
312.	Jana Unnayan Mancha	C/o Dolphin Engineering Co., 39, Shakespeare Sarani, Kolkatta-700017 (West Bengal).
313.	Jananishta	Mohan Villa, A-1/347, Janak Puri, New Delhi 110058
314.	Janata Congress Party of Bharat Varsha	A-15/2. Vasant Vihar, P.B. No.8801. New Delhi – 110057.

- |      |                                  |  |
|------|----------------------------------|--|
| 315. | Janata Party                     | A-77, Nizamuddin East,<br>New Delhi.   |
| 316. | Janata Vikas Party               | Abashek Bhavan, Udainagar Colony, Sagar<br>Road, Vidisha (Madhya Pradesh).                                     |
| 317. | Janhit Morcha                    | Kothi No.75, Sector-17, Panchkula-134 109<br>(Haryana).  |
| 318. | Janhit Samaj Party               | Bhagwati Market, Near Shiv Mandir,<br>Belli Road, Jagdev Path, Post: B.V. College,<br>Patna – 800 014 (Bihar). |
| 319. | Janmangal Paksh                  | Ram Pratap, Geeta Nagar, Main Road,<br>Near Gurukul, Rajkot – 360 002<br>(Gujarat).                            |
| 320. | Jansatta Party                   | 6A, Prem Vihar, Jansath Road,<br>Muzaffarnagar (Uttar Pradesh)   |
| 321. | Jansevak Samaj Party             | 159, Bodhashram, Tapa Road, Mohalla-<br>Khera, Ferozabad-283203 (Uttar Pradesh).                               |
| 322. | Jawan Kisan Morcha               | Nirmal Palace, New Colony, Pakri, Aara,<br>Bihar-802301.   |
| 323. | Jebamani Janata                  | No.33, Second Street, East Abiramapuram,<br>Mylapore, Chennai-600004, (Tamil Nadu).                            |
| 324. | Jharkhand Disom Party            | 12, Road No.21, Kadma Farm Area,<br>Jamshedpur-831005, Jharkhand.  |
| 325. | Jharkhand Ki Krantikari Party    | Village & Post Nawagarh District<br>Ranchi-835103, Jharkhand.  |
| 326. | Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan) | Shukla Colony, Post Hinoo, Ranchi Distt,<br>Ranchi-834002 (Jharkhand).   |
| 327. | Jharkhand Party                  | Main Road, Ranchi (Jharkhand).   |
| 328. | Jharkhand Party (Naren)          | At-Raghunathpur, P.O.Jhargram, District-<br>Midnapur-721507 (West Bengal).                                     |
| 329. | Jharkhand People's Party         | P.O.Laubasa, Jamshedpur, P.S. Gobind Pur,<br>Distt. Singhbhum (East) (Jharkhand).                              |
| 330. | Jharkhand Vananchal Congress     | 5, Ratu Road, Ranchi-834005, Jharkhand.  |
| 331. | Jharkhand Vikas Dal              | 10, A.P.N. Bose Compound, Ranchi-834001<br>(Jharkhand).  |

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 332. | Kaivinayger Munnetra Kazhagam                | Sri Visweswara Bhavanam, 76, Millers Road, Kilpauk, Chennai-600010. (Tamil Nadu)  |
| 333. | Kamarajar Adithanar Kazhakam                 | 6-E, Sasthan Koil Street, Pudhukudieruppu, Nagercoil-629001, Tamil Nadu.  |
| 334. | Kamarajar Deseeya Congress                   | 7-Velayudha Raja Street, Raja Annamalaipuram, Mandaveli, Chennai-600028 (Tamil Nadu)  |
| 335. | Kamgar Samaj Dal                             | H. No.9/237, Mohalla : Raidopur, Post & Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh.   |
| 336. | Kamjor Varg Sangh, Bihar                     | Central Office: Post Office Building, Lal Bahadur Shastri Nagar, Post Office (Upper Floor) Patna-800023 (Bihar).                      |
| 337. | Kanchee Aringer Anna Dravida Makkal Kazhagam | No.10A, Natham Mettu St., Chengalpattu (Tamil Nadu).  |
| 338. | Kannada Paksha                               | No. 259/1, 1 <sup>st</sup> Floor, Rangswamy Temple Street (Opp. to Jain Temple) Bangalore-560053 (Karnataka)                          |
| 339. | Kannada Chalavali Vatal Paksha               | 154, Rangswamy Temple Street, Bangalore-560053 (Karnataka)  |
| 340. | Kannada Naadu Party                          | Giriraj Annexe, Circuit House Road, Hubli-580 029, (Karnataka).   |
| 341. | Karnataka Kranthi Dal                        | No.240, 16 <sup>th</sup> Main, 6 <sup>th</sup> Cross, Ist Phase, 2 <sup>nd</sup> Stage, BTM (EWS) Layout, Bangalore-560076(Karnataka) |
| 342. | Karnataka Rajya Ryota Sangha                 | 636, Ideal Homes Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-560098 (Karnataka).   |
| 343. | Karnataka Thamizhar Munnetra Kazhagam        | No.6, IInd Floor, Chick Bazar Road Cross, Shivaji Nagar, Bangalore-560051(Karnataka).   |
| 344. | Kerala Congress (Jacob)                      | Ward XIII, Building 346, T.B. Road, Kottayam (Kerala).  |
| 345. | Kerala Congress(B)                           | P.T. Chacko Smarka, Mandiram, S.S. Kovil Road, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 (Kerala)   |
| 346. | Khasi Farmers Democratic Party               | Malki Chinapatty, Shillong-793001, Meghalaya.   |

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 347. | Khun Hynnietrip National Awakning Movement | C/o Office of the Khasi Students Union, Jaiaw Chapel Road, Shillong-793 002 (Meghalaya).  |
| 348. | Kisan Kranti Dal                           | Nangla Sukhdev, Neemkhera – Jalesar Distt. Etah (Uttar Pradesh)   |
| 349. | Kisan Mazdoor Bahujan Party                | J-1/2, Dali Bagh Colony, Lucknow (Uttar Pradesh)  |
| 350. | Kisan Naujawan Party                       | Rajendra Nagar, Karmer Road, Orai, District Jalaun, Uttar Pradesh.  |
| 351. | Kisan Vikas Party                          | Abdul Pura, Distt. Meerut (Uttar Pradesh).  |
| 352. | Kisan Vyawasayee Mazdoor Party             | Prakash Bhavan, Narhi Bazar, Lucknow (Uttar Pradesh)  |
| 353. | Kongu Nadu Munnetra Kazhagam               | 320, Best Complex, Kumaran Road, Tirupur-641601, Coimbatore (District), Tamil Nadu.   |
| 354. | Kosal Party                                | G.M. College Road, Sambhalpur-768004 (Orissa)   |
| 355. | Kosi Vikas Party                           | Machhli Bhawan, Dr. Ambedkar Marg, At.+P.O. & Distt. Khagaria, Bihar – 851204.  |
| 356. | Kranti Dal                                 | 132, Babuganj, Lucknow (U.P.)   |
| 357. | Kranti Kari Jai Hind Sena                  | C/o Advocate R.N. Kachave, Near Devi Prasad Hotel, M.I.D.C., Central Road, Andheri (E), Mumbai-400093, Maharashtra.               |
| 358. | Kranti Parishad                            | House No.2019, Mistrikhan Road, Nahargarh Road, Jaipur (Rajasthan)  |
| 359. | Krantikari Berozgar Party                  | H.No.86, Vinoba Ward, Ward No.6, Behind Jain Temple, Govt. Girls School Road, Sihora District, Jabalpur-483 225, (Madhya Pradesh) |
| 360. | Krantikari Manuwadi Morcha                 | F-62, Sector-11, Noida-201301 (Uttar Pradesh)   |
| 361. | Krantikari Samajwadi Party Lohia           | 18/22, Taskand Marg, Mool Chand Yadav Chouraha, Civil Lines, Allahabad (U.P.)   |

362.	Krantikari Samyavadi Party	MLA Flat No.26, Veerchand Patel Path, Patna. (Bihar)
363.	Kudi Makkal Katchi	No.7, Kamarajar Street, Pallikkaranaï, Chennai-601302 (Tamil Nadu).
364.	Kuki National Assembly	Grace Cottage, Paiteveng, Kwakelthel, P.O. Imphal, Pin-795001, (Manipur).
36	Labour And Job Seeker's Party Of India	66, Royapettah High Road, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu)
366.	Labour Party (Secular)	D-338, Sector-10, Noida, (Uttar Pradesh).
367.	Labour Party Of India(V.V. Prasad)	4, Ramachander Lane, Ram Kishore Road, Civil Lines, Delhi-110 054
368.	Labour Vikas Party	1407, New Preet Nagar, Tibba Road, Ludhiana (Punjab).
369.	Lairam People Party	Hqrs. Lawngtlai, P.O.-Lawngtlai-796891 (Mizoram)
370.	Lattin Congress	Bavali, Post-Khash, Distt. Meerut-250621 (Uttar Pradesh).
371.	Life Peaceful Party	Sarvadharmha Bhawan, Hindu-Muslim Viswa Shanthi Ashrama and Komusowharda Vishwashanthi, Sarvadharmha Ashrma Trust, Rajanagara, Poona-Bangalore Road, Tumkur-572 106 (Karnataka)
372.	Lok Bhalai Party	5-FF, Raj Guru Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab.
373.	Lok Dal	C-616-Budh Nagar, Inderpuri, New Delhi-110012
374.	Lok Hit Party	Basti Abdulapura, Ludhiana-3 (Punjab)
375.	Lok Jan Shakti Party	12-D, Ferozshah Road, New Delhi-110001.
376.	Lok Rajya Party	221/20, Geet Gunjan Society, Sector-2, Charkop, Kandivali (West), Mumbai-400067 (Maharashtra).
377.	Lok Sewa Dal	Post: Badhiya, Tehsil: Lakhi Sarai, Bihar-811 302.
378.	Lok Shakti	83, Lodhi Eastate, New Delhi-110003.

379.	Lok Vikas Party	41, Vigyan Vihar, Delhi-110092.
380.	Lokpriya Samaj Party	Prajapati Dharmshala Mandir Shri Kalkaji, Nehru Place, New Delhi-110019.
381.	Loktantrik Chetna Party	Mumtaj Manjil, Azad Nagar, Baanda. (Uttar Pradesh).
382.	Loktantrik Jan Samta Party	C-7/166, Yamuna Vihar, Delhi-110053.
383.	Loktantrik Morcha Himachal Pradesh	212, Jawahar Sadan, Shimla-171004, Himachal Pradesh.
384.	Loktantrik Samajwadi Party	27-A, D.D.A.Flats, Mata Sundri Road, New Delhi-110002.
385.	Loktantrik Samata Dal	D-104, Daroga Prasad Rai Path, Patna-800 001. (Bihar)
386.	Loktantrik Janata Front	D-351/12, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
387.	M.G.R. Kazhagam	32, New Tank Street, Nungambakkan, Chennai-600034 (Tamil Nadu)
388.	M.G.R. Mannetra Kazhagam	Konnoor High Road (Canal Area) Otteri, Chennai-600012 (Tamil Nadu)
389.	Maatra Bhoomi Raksha Dal	205, B-30, Prakash Trade Centre, Subhash Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110 092.
390.	Madhya Pradesh Kisan Mazdoor Adivasi Kranti Dal	Vidhayak Vishram Girh, Room No. 95, Part-III, Bhopal-462 003. (Madhya Pradesh)
391.	Madhya Pradesh Loktantrik Party	19-Durga Colony, Sanjivani Nagar, Gadda, Jabalpur-482003 (Madhya Pradesh)
392.	Mahabharath Mahajan Sabha	Plot No, 10, Vivekananda Nagar, Inner Ring Road, Kolathur, Chennai-600099 (Tamil Nadu)
393.	Mahakaushal Vikas Party	'Shanti Kutir' 281, Sanjivani Nagar, Jabalpur (M.P.)
394.	Maharashtra Pradesh Krantikari Party	At. Post-Tal. Koregaon, Koregaon, Distt. Satara (Maharashtra).

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 395. | Maharashtra Rajiv Congress                           | Dr. Babasaheb Ambedkar Nagar, Near Bus Stop, No. 379, P.L. Lokhande Marg, Chembur, Mumbai-400089 (Maharashtra) |
| 396. | Maharashtra Secular Front                            | Hill View, 109, A/2, Vaishali Nagar, (S.V.P. Road, Dharkhadi), Dahisar (East), Mumbai-68, (Maharashtra).       |
| 397. | Maharashtra Vikas Congress                           | At & Post-Jalgaon, Distt. Jalgaon-425001 (Maharashtra)   |
| 398. | Mahashakti Inqualab Party                            | Tigri, Khushhalpur, Muradabad, Uttar Pradesh.  |
| 399. | Mahila Adhikar Party                                 | 29-A, Naharpur, Sector-7, Rohini, Delhi-110085.  |
| 400. | Majlis Bachao Tahreek                                | 16-4-593/A, Chenehalguda, Hyderabad-500024 (Andhra Pradesh)  |
| 401. | Makkal Nalaurimaik Kazhagam (People's Liberal Party) | 629, Anna Salai, Chennai-600006 (Tamil Nadu)   |
| 402. | Makkal Sakthi Eyakkam                                | 17-A, South Avenue, Kamaraj Nagar, Thiruvannmiyur, Chennai-600041 (Tamil Nadu).                                |
| 403. | Makkal Tamil Desam                                   | 14, Hanumantha Road, Balaji Nagar, Royapettah, Chennai-600014, Tamil Nadu.                                     |
| 404. | Makkal Vilipunarvu Eyakkam                           | Seeranampalayam, Palakkarai-638057, Thudupathi (via) Perundurai Taluk, Erode District, Tamil Nadu.             |
| 405. | Manav Jagriti Manch                                  | 552, Bank Colony, Devli Village, New Delhi - 110062.   |
| 406. | Manav Kalyan Sangh Dal                               | Gadi Sthan-Mehtwara, Tahsil Astha, District Sehore (Madhya Pradesh)  |
| 407. | Manav Samaj Party                                    | 9538, Gausala Baradari, Kishanganj, Delhi-110006.  |
| 408. | Manav Sewa Party                                     | C-6/28, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016.   |
| 409. | Manava Party   | G-23, Eureka Towers, Kittur, Chennamma Circle, Hubli-580029 (Karnataka)  |
| 410. | Manipur National Conference                          | Babupara Imphal, Manipur-795001.   |

- |      |   |  |
|------|---|--|
| 411. | Manipur People's Party (Democratic)                   | Qtr. No.1, Type-IV, Babupara,<br>Imphal-795001 (Manipur).  |
| 412. | Manipur State Congress Party                          | Keishampat (Opposite Raj Bhawan),<br>Imphal-795 001 (Manipur).   |
| 413. | Manuvadi Party  | 201, Birhana Pandeyganj, Subhash Marg,<br>Lucknow-226004, Uttar Pradesh.                               |
| 414. | Maraland Democratic Front                             | Saiha-796901, Chhimtuipui District<br>(Mizoram).   |
| 415. | Marumalarchi Thamizhakam                              | 1/19, Onangudi (P.O.) Arimalam (Via)<br>Pudukkottai District, Tamil Nadu.                              |
| 416. | Marxist Communist Party of India<br>(S.S. Srivastava) | Saidpur Patna-800004 (Bihar)   |
| 417. | Marxist Co-ordination                                 | 115 MLA Flat, Bir Chand Patel Path,<br>Patna-800004 (Bihar)  |
| 418. | Matra Bhoomi Vikas Party                              | C/o Shri Kashi Nath Tripathi, Aspathal Road<br>Mau Chibee, Bandha-210209 (Uttar Pradesh)               |
| 419. | Ministerial System Abolition Party                    | 25, Burtolla Street, Calcutta.   |
| 420. | Momin Conference                                      | 47/26, Waris Plaza, Hussain Ganj, Vidhan<br>Sabha Marg, Lucknow-226001,<br>Uttar Pradesh.              |
| 421. | Mool Bharati (S) Party                                | House No. 25, Near Khooni Masit Moga<br>Mehla Singh Moga- 142001 Distt. Faridkot<br>(Punjab).          |
| 422. | Moovendar Munnetra Kazhagam                           | Lake Area, Melur Road,<br>Madhurai-625 107 (Tamil Nadu)  |
| 423. | Mudiraj Rashtriya Samithi                             | 7-1-282/C/91, Sree Ram Nagar Colony,<br>B.K. Guda, S.R. Nagar, Hyderabad-500 038.<br>(Andhra Pradesh). |
| 424. | Mukt Bharat   | H-22, Kailash Colony, New Delhi- 110048.   |
| 425. | Muslim Majlis Uttar Pradesh                           | Sultan Manzil, Takia Peer Jaleel, Lucknow<br>(Uttar Pradesh)   |
| 426. | Naari Shakti Party                                    | C/11, Sunderdham, Rambauglane,<br>Off. S.V. Road, Borivali (W),<br>Mumbai-400 092 (Maharashtra).       |



427. Nag Vidarbha Andolan Samiti  
Pardesi Telepura, Bajeeeriya, Near Shukla Lodge, Nagpur-440018 (Maharashtra)
428. Naga National Party  
Hd.Qtrs. Aja Daily Office, Church Road, Dewlahland, Imphal, Manipur.
429. Nagaland Democratic Party  
H.No.65, Residency Colony (P.W.D.), Near State Stadium, Dimapur, Nagaland, Pin-797112.
430. Nagrik Ekta Dal  
B-15, Deen Dyal Nagar, Phase-II, M.D.A. Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
431. Namadhu Makkal Katchi  
No.3, Pillayar Kail Street, Kasba, Vellore-632001, Tamil Nadu.
432. National Citizens Party  
Flat no. 202, Sri Rama Nivas, Behind Maruti Towers, Kuakatpally, Hyderabad-500 072, Andhra Pradesh.
433. National Congress Of Youth  
Post Box No. 6204, 2A/37-38 Ramesh Nagar, New Delhi-110015.
434. National Democratic Party  
Central Office-Changanacherry-2, Kottayam District (Kerala)
435. National Democratic Peoples Front  
C-4D, 42 B, Janakpuri, New Delhi.
436. National Loktantrik Party  
46, Gulista Colony, Lucknow-226001 (Uttar Pradesh).
437. National Minorities Party  
7A-Junction S.V. Road and Bandra Railway Station Road, Opp. Lucky Hotel, Bandra (W), Mumbai-400050 (Maharashtra)
438. National Organisation Congress  
No.1, Jeevananandam, Salia, K.K.Nagar, Chennai-600078 (Tamil Nadu).
439. National Party  
Rudain Badayun-202 524 (Uttar Pradesh)
440. National People's Party  
C/o Uripok Naoremthong, Imphal-795001 (Manipur).
441. National Republican Party  
T-42/6. Old Barracks, Chamber Camp, Bombay-400074 (Maharashtra).
442. National Students Party  
16/2, Karaneeshwarar Pagoda Street, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).

443. Nationalist Party of India  
5A, Beli Road, Allahabad-211002.  
(Uttar Pradesh).
444. Native People's Party  
H.O. Gote Nivas, Tisgaon Road, Kalyan  
(East)-421306. (Maharashtra).
445. Nav Maharashtra Vikas Party  
C-6, Bhaskar Darshan, Arunoday Nagar,  
Mulund East, Mumbai-400081, (Maharashtra)
446. Nava Nirmana Nagarika Samithi  
6/7/8, Shankarmutt Road, Basavanagudi,  
Bangalore-560004 (Karnataka).
447. Navbharat Nirman Party  
5/1, Ashoka Chambers, Rajinder Park, B-5,  
Pusa Road, New Delhi-110060.
448. Nesavaalar Munnetra Kattchi  
No.6, Ganga Nagar, Kodambakkam,  
Chennai-600024 (Tamil Nadu).
449. Netaji Congress Sena  
Ranga Building, S. No. 123, Katraj P.O.,  
Pune - 411 046, (Maharashtra).
450. Netaji Subhash Party  
Shajanwa, Distt. Gorakhpur (Uttar Pradesh).
451. New India National Movement  
2, Bigcity House, Behind Masjid,  
Kasturba Gandhi Marg,  
New Delhi-110 001.
452. New India Party  
H. No. 20-3-314, Vidyanagar  
Godavarikhani,-505209, Distt. Karimnagar  
(Andhra Pradesh).
453. Nidaya Malik (N) Party  
242, Civil Lines, Gaunda,  
Distt. Gaunda-271001 (Uttar Pradesh).
454. Nissabada Bhooripaksham  
113, Pattukal Shopping Complex, IInd Floor,  
East Fort, Trivendrum Fort, P.O. Trivendrum,  
Kerala.
455. Niswarth Sewa Party  
Ved Ayurvedic Store, Near Bus Stand,  
Mahendregarh, Haryana.
456. NTR Telugu Desam Party (Lakshmi  
Parvathi)  
Road No. 13, Banjara Hills,  
Hyderabad-500034 (Andhra Pradesh)
457. Nyaynishth Prajatantra  
Central Head Quarter and P.O. - Dewar  
(Gopeshwar)-246401, District Chamoli,  
Uttanchal.
458. Orissa Communist Party  
MLA Colony, Unit-4, Bhubaneswar (Orissa).

- |      |                                      |  |
|------|--------------------------------------|--|
| 459. | Orissa Congress                      | Q.No.D.S. 1/19, MLA Colony, Unit-4,<br>Bhubaneswar -750001 (Orissa).   |
| 460. | Orissa Gana Parishad                 | A/52, Kharvela Nagar, Unit-III,<br>Bhubaneswar-751001.   |
| 461. | Orissa Socialist Party               | Municipal Compound, Choudhury Bazar,<br>Cuttack-753009 (Orissa).   |
| 462. | Panchal Morcha                       | 137 B-1, Gautam Nagar, New Delhi-110049.   |
| 463. | Panchayat Raj Party                  | 106, Pocket A-3, Sector-3, Rohini,<br>New Delhi - 110034   |
| 464. | Parcham Party of India               | 1-Rahmat Bano Market, Medical College<br>Road, Civil Lines, Aligarh-202002,<br>Uttar Pradesh.  |
| 465. | Parivartan Samaj Party               | Gande Wali Sarak, Laskar, Gwalior-474001,<br>Madhya Pradesh.   |
| 466. | Parmarth Party                       | E-27, Kamla Nagar,<br>Delhi-110 007.   |
| 467. | Party for Democratic Socialism       | 183, Jodhpur Park, Kolkata-700068,<br>West Bengal.   |
| 468. | Party Kisan Mazdoor Vyapari          | Railway Road, Hathras Junction, Mahatma<br>Prakrit Chikitsalya, Nangla Hira, Hathras<br>Junction, Mahamaya Nagar, Hathras,<br>(Uttar Pradesh). |
| 469. | Parvatiya Punrutthaan Parishad       | 64, 1 <sup>st</sup> Floor, Adhchini, Sri Aurobindo Marg,<br>New Delhi - 110016.  |
| 470. | Paschim Banga Rajya Muslim League    | 129, Collin Street, Calcutta-700016<br>(West Bengal)   |
| 471. | Paschimbanga Ganatantrik Mancha      | Flat No.56, Block-H, C.I.T. Building,<br>Christopher Road, Kolkata-700014<br>(West Bengal).  |
| 472. | Paschimi Uttar Pradesh Swaraja Party | Sardhana Road, Kankar Khara, Meerut<br>(Uttar Pradesh).  |
| 473. | Pavitra Hindustan Kaazhagam          | 11, Harish Chandra Mathur Lane,<br>New Delhi-110001.   |
| 474. | Peasants And Workers Party Of India  | Hari Kharude Niwas, Mahatma Phule Road,<br>Naigaon, Dadar, Bombay (Maharashtra).   |

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 475. | People's Democratic Front                      | H.Q. Guwahati, H.O. Udalgiri, Distt. Darrang, Bodoland (Assam).   |
| 476. | People's Justice Party                         | 'KAAR ARUL', A-87, Kandasamy Salai 8 <sup>th</sup> Street, Periyar Nagar, Chennai-600028 (Tamil Nadu).          |
| 477. | People's Party Of Arunachal                    | P.O. Nahar Lagun – 791110 (Arunachal Pradesh)   |
| 478. | Peoples Democratic League Of India             | Building No. 25, Flat No.8, Chitnavisnagar Layout, Byramji Town, Near Mental Hospital, Nagpur-13 (Maharashtra). |
| 479. | People's Democratic Movement                   | Mawlai Nongkwar, Shillong-793 008 (Meghalaya).  |
| 480. | Peoples Democratic Party                       | MASS Building Ernakulam North, P.O. Cochin-18 (Kerala).   |
| 481. | Peoples Republican Party                       | Saptahik Jaibheem, Opp. Anand Talkies, Sitabadi, Nagpur-440012 (Maharashtra).                                   |
| 482. | Phule Bharti Lok Party                         | 1793, Street No.1, New Kailash Nagar, P.O. Basti Jodhewal, Ludhiana, Punjab.                                    |
| 483. | Pichhra Samaj Party                            | Mohalla Jati, Nagina, District-Bijnor, Uttar Pradesh.   |
| 484. | Plains Tribals Council Of Assam                | P.O. & T.O. Kokrajhar, Distt. Kokrajhar (Assam).  |
| 485. | Political Party Of National Management Service | C-546, Defence Colony, New Delhi-110024.  |
| 486. | Pondicherry Mannila Makkal Munnani             | 17 Kumran Street, Kamarajar Nagar Pondicherry-605001  |
| 487. | Prabuddha Republican Party                     | MD-26-17/6, SRTRMCH Chanai Road, Ambajogai, District Beed-431517, Maharashtra.                                  |
| 488. | Pragatisheel Manav Samaj Party                 | Village Wari (Naipurva) Post Dashrathpur-221304, Distt. Bhadohi (Uttar Pradesh).                                |
| 489. | Pragatisheel Party                             | 111, Badshah Nagar, Lucknow-226007 (Uttar Pradesh).   |
| 490. | Praja Party                                    | 3-5-898/1, Himayatnagar, Hyderabad-500029 (Andhra Pradesh).   |

491. PRISM	Top Floor, 4-CHHA-30, Vigyan Nagar, Kota-324005 (Rajasthan).
492. Prithak Bastar Rajya Party	8, Senior H.I.G., Sector-3, Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh.
493. Proutist Sarva Samaj	10/105A, Sector 3, Rajendra Nagar, Sahibabad, Distt. Ghaziabad (U.P.)
494. Punjab People's Party	14, Sector 28, Arun Vihar, Noida-201303 (Uttar Pradesh)
495. Punjab Janata Morcha	Panj Pir, Jalandhar City -144001 (Punjab).
496. Punjab Pradesh Vikas Party	H.O. HIG-970, PHB Colony, Urban Estate, Focal Point, Ludhiana (Punjab)
497. Punjab Vikas Congress Party	Panj Peer Chowk, Jalandhar, Punjab.
498. Punjabi Dal	H.No. BV/30A, Ramgarhia, Gurdwara Road, Barnala-148101. Distt. Sangrur (Punjab).
499. Puratchi Bharatham	No. 54, National Highways, Poonamalla, Chennai-56, Tamil Nadu.
500. Purvanchal Vikas Party	L-131, Street No.5, Mahipal Pur Extn., New Delhi-110037.
501. Puthiya Needhi Katchi	6, North Boag Road, T-Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
502. Puthiya Tamilagam	132, New M.L.A.s Hostel, Govt. Estate, Chennai-600002 (Tamil Nadu)
503. Pyramid Party of India	2-1-83, Kola Street, Tirupati-517 501, (Andhra Pradesh)
504. Quami Party	930, Street No.30/7, Jafrabad, Delhi - 110053
505. Quami Janta Dal	9-B, Triloknath Road, Lal Bagh, Lucknow (Uttar Pradesh).
506. Rajasthan Dev Sena Dal	Opposite to Bus Stand, Dhamai Haveli, Dudu, Jaipur, Rajasthan.

507. Rajasthan Samajik Nyaya Manch  
5/8, Vidhayak Nagar (West), Opposite New Vidhan Sabha, Jyoti Nagar, Jaipur, Rajasthan.
508. Rajasthan Veer Sena  
1-8-17(SFS), Dr. Sheela Chowdhary Road, Talwandi, Kota-324005 (Rajasthan).
509. Rajasthan Vikas Party  
43, Chand Bihari Nagar, Khatipura Road, Jaipur-302012. (Rajasthan).
510. Rajiv Makkal Congress  
No.16 (Old No.18), Viswanathapuram, III Street, Kodambakkam, Chennai-600024, Tamil Nadu.
511. Ramrajya Marg  
No.17, Venus Colony, Second Street Alwarpet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
512. Rashtra Shakti  
1112, S/5 Tegore Garden, Near Bus Stand, Yamuna Nagar-135001, District - Yamuna Nagar, Haryana.
513. Rashtra Suraksha Parishad  
Kothi No.A-2/79, Paschim Vihar, New Delhi-110063.
514. Rashtravadi Communist party  
Begaria Ka Khera, P.O. Brawan Kalan, Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh.
515. Rashtravadi Janata Party  
43-A, Sukhbir nagar, Karala, New Delhi-110081.
516. Rashtravadi Vikas Dal  
A-37, Sector-26, Noida-201301, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
517. Rashtrawadi Samaj Party  
16/17, Civil Lines, Near Padam Apartment, Kanpur, Uttar Pradesh.
518. Rashtriya Aikta Manch  
A-1, Vikas Enclave, Hastal, Uttam Nagar, New Delhi -110059
519. Rashtriya Bahujan Congress Party  
TA-137/3, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
520. Rashtriya Bahujan Ekta Party  
Alok Nagar, Air Force, Bareilly-243122 (Uttar Pradesh).
521. Rashtriya Bhrastrhachar Virodhi Morcha  
Central Office : Shivaji Nagar, Abu Parbat, 307501, Distt. Sirohi (Rajasthan).
522. Rashtriya Dehat Morcha Party  
601, Rohit House, 3-Tolstoy Marg, New Delhi-110001.

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 523. | Rashtriya Deshbhakt Party                      | B-61, Shanker Garden, Vikas Puri,<br>New Delhi-110018.   |
| 524. | Rashtriya Dharmanirpeksha<br>Nava Bharat Party | 108, Shankar Shah Nagar,<br>Jabalpur (Madhya Pradesh)  |
| 525. | Rashtriya Garib Dal                            | 110, Ram Nagar, Panipat, Haryana.  |
| 526. | Rashtriya Garima Party                         | B-14, Kasturba Nagar, Near Chetak Bridge,<br>Bhopal-462001, (Madhya Pradesh).                                |
| 527. | Rashtriya Gramin Party                         | Village Chakershanpur (Kemrala), P.O. Ghor<br>Bachera (Dadri), District Gautam Budh<br>Nagar, Uttar Pradesh. |
| 528. | Rashtriya Gurujan Party                        | Gurujan Vidyabhuvam, Doodh Sagar Marg,<br>Rajkot - 3, Gujarat.   |
| 529. | Rashtriya Hamara Dal                           | 22/191, Dholi Khar, Mantola,<br>Agra (Uttar Pradesh).  |
| 530. | Rashtriya Hindu Sangathan                      | 30, Jati Colony, Ram Bagh, Opposite Sainath<br>Mandir, Indore, Madhya Pradesh.                               |
| 531. | Rashtriya Hith Congress                        | 712, G-Block, Military Road, Karol Bagh,<br>New Delhi - 110005   |
| 532. | Rashtriya Indira Party                         | Dattpura, Near Subzi Mandi, Morena,<br>(Madhya Pradesh).   |
| 533. | Rashtriya Jan Kalyan Party                     | G-290, Old Seema Puri, Delhi 110095  |
| 534. | Rashtriya Jan Sangam                           | Sharma Kunj, Shivpuri, Bulandshahr<br>(Uttar Pradesh).   |
| 535. | Rashtriya Janadhikar Party                     | 61, Mangla Puri Phase-I, Palam,<br>New Delhi-45.   |
| 536. | Rashtriya Janandholan Paksha                   | "Powrabhavan", No.567(38), 60 Ft. Road,<br>Gokula Mathikere Layout, Bangalore-560054<br>(Karnataka).         |
| 537. | Rashtriya Janata Janardan Party                | Suraj Ka-Purva, Atarrarural, P.O. Atarra,<br>District Banda, Uttar Pradesh.                                  |
| 538. | Rashtriya Jansevak Parishad                    | Devkanya Sadan, Near Water Tank, Tripolia<br>Road, Banswara-327001 (Rajasthan)                               |
| 539. | Rashtriya Janta Congress                       | A-4, Swaran Singh Road, Adarsh Nagar,<br>New Delhi-110033.   |

540. Rashtriya Jantantrik Dal Shukla Bhavan, Budhapara, Raipur-429 001, Chhattisgarh.
541. Rashtriya Kisan Party Village & P.O. Dhanaundha, Teh. & Distt. Mahendragarh (Haryana)
542. Rashtriya Komi Ekta Party Limda Lane, Makrani Pada, Jamnagar-361001, Gujarat.
543. Rashtriya Kranti Party 2, Mall Avenue, Lucknow, (Uttar Pradesh)
544. Rashtriya Krantikari Dal Gopal Nagar, Main Surakhpur Road, Najafgarh, New Delhi -110043
545. Rashtriya Krantikari Samajwadi Party 84, Pan Dasiba Charbagh, Lucknow, Uttar Pradesh.
546. Rashtriya Lok Seva Morcha 206, Lovekush Tower, Exhibition Road, Patna-800 001, Bihar.
547. Rashtriya Mahasangh N.R. Complex, Opp. Nagar Palika Office, Ajmer -305001 (Rajasthan).
548. Rashtriya Manav Adhikar Party 17/700, Village-Gopalpur, Post-Azadpur (Timarpur), Delhi-110009.
549. Rashtriya Matrabhoomi Party 1265 - Sector - 17C, Gurgaon, Haryana.
550. Rashtriya Mazdoor Ekta Party Block-B, Sant Nagar, Gali No.57, Burari Road, Delhi -110009
551. Rashtriya Nayay Party College Road Dehari, Tehsil Nurpur, Distt. Kangara, Pin Code-176 022 (Himachal Pradesh).
552. Rashtriya Parivartan Dal Jan BSPA House, 4/93, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
553. Rashtriya Party Gaya Prasad Dharmshala Complex, Charbagh Sabzi Mandi, Lucknow (Uttar Pradesh).
554. Rashtriya Praja Congress (Secular) 12-11-113, AB-Nageswara Rao Street, Arya Puram, Rajamundry, Andhra Pradesh.
555. Rashtriya Rajdhani Congress Delhi 8, Nath Market, Nai Sarak, Delhi-110006.
556. Rashtriya Raksha Dal C/o Hotel Pankaj, Sector-22A, Chandigarh.



557.	Rashtriya Sakar Party	G-12, Gupta Tower-1, Near Mother Dairy, Vikas Puri, Delhi - 110 018.
558.	Rashtriya Samadhaan Party	121-A, R-3/A-2, Mangal Bazar Mohan Garden, New Delhi - 110059.
559.	Rashtriya Samaj Paksha	C/o L.W. Kale, 17-Raghunath Dadoji Street, 4 <sup>th</sup> Floor, Near Handloom House, Fort, Mumbai-400 001 (Maharashtra).
560.	Rashtriya Samaj Sevak Dal	Bheera Khiri, Janpad-Khiri-262901 (U.P.)
561.	Rashtriya Samaj Sudhar Party	Village Thantri, Post Ghodi, Distt. Faridabad (Haryana).
562.	Rashtriya Samajik Nyay Paksha	88/703, Motilal Nagar No.1, Goregaon (W), Mumbai - 400 104, Maharashtra.
563.	Rashtriya Samajwadi Congress	H.No.J-12/57-A, Dhoopchandi,(Labour Colony) Varanasi (U.P.)
564.	Rashtriya Samajwadi Party (United)	9, Community Centre, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-11—52.
565.	Rashtriya Samajwadi Party 'Pragatisheel'	B-248, Mohan Nagar, Thatipur, Morar, Gwalior (Madhya Pradesh)
566.	Rashtriya Samanta Dal	8/440, Trilok Puri, Delhi-110091.
567.	Rashtriya Sawarn Dal	Dubey Ka Parav, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh)
568.	Rashtriya Surajya Parishad	Mrudul Tower, Ground Floor, Kailash Society, H.K.House Lane, Ashram Road Ahmedabad-380009 (Gujarat)
569.	Rashtriya Swabhimaan Party	104-B-Block, Darulshafa, Lucknow, Uttar Pradesh.
570.	Rashtriya Swajan Party	Ghagha Ghat Road, Near Malaria Office, Mahendru, Patna-800006 (Bihar).
571.	Rashtriya Unnatisheel Dal	F.167, Chand Bagh, P.O. Kulpur, Delhi - 110094
572.	Rashtriya Vikas Party	195, Main Ashoka Enclave, Faridabad, Haryana.

573.	Rashtriya Yuva Loktantrik Party	Chamber No.461, New Chamber Complex, Patiala House Courts, New Delhi-110001.
574.	Republican Janata Party	D-29, Gandhi Vihar, D.D.A. Colony, Mukherjee Nagar, Delhi – 110009
575.	Republican Movement	Post Box No.117, Tadoba Road, Tukum, Chandrapur – 442401, Maharashtra.
576.	Republican Party of India	ENSA Hutment, I-Block, Mahapalika Marg, Azad Maidan, Mumbai-400001 (Maharashtra)
577.	Republican Party Of India (Democratic)	Mukund Niwas, India Nagar, Latur-413512 (Maharashtra)
578.	Republican Party Of India (Kamble)	11/174, Adarsh Nagar, Prabhadevi, Bombay-400025 (Maharashtra)
579.	Republican Party Of India (Sivaraj)	10, Solai Street, Ayanavaram, Chennai-600023 (Tamil Nadu)
580.	Republican Party Of India(A)	1/16, Sanjay Complex, T.T. Nagar, Bhopal-462003, (Madhya Pradesh)
581.	Republican Party Of India(Khobragade)	Gita Villa, East Marredpally, Secunderbad, (Andhra Pradesh)
582.	Republican Presidium Party Of India	Uruli-Kanchan, Pune-412202 (Maharashtra)
583.	Revolutionary Communist Party Of India (Rasik Bhatt)	84-Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta-700025 (West Bengal)
584.	Revolutionary Socialist Party of Kerala (Bolshevik)	T.C.-25/507, UTUC Buildings, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 (Kerala).
585.	Sabjan Party	C-1/50, Kamuna Vihar, Delhi-110053.
586.	Sabka Dal Bharatiya Samajwadi Congress	N-14/169, Sarainandan (Khojva), Varanasi- 221010 (Uttar Pradesh).
587.	Sachet Bharat Party	13/A/5, Shivaji Nagar, No.1, Govandi, Mumbai-43 (Maharashtra)
588.	Sadbhavana Party	Room No.14,1st, Floor, Lucknow Hotel, Sri Ram Road Choraha, Aminabad, Lucknow-226018 (Uttar Pradesh).
589.	Sakhthi Baratha Desam	2/58, Vairavan Chetty Store, Pachiyamman Padithurai, Madhurai-625001, Tamil Nadu.

- |      |                                       |  |
|------|---------------------------------------|--|
| 590. | Samajik Ekta Party                    | 22, Housing Board Colony,<br>Sonipat-131001 (Haryana)  |
| 591. | Samajik Jantantrik Party              | Mukam Raja Market, Cinema Road,<br>Gopalganj Nagar Palika Post,<br>Gopalganj-841428, Distt. Gopalganj (Bihar). |
| 592. | Samajik Nyaya Party                   | M-22, Mahavir Park, Marris Road, Aligarh-<br>202001 (Uttar Pradesh).   |
| 593. | Samajtantric Party of India           | 40/1, B – Road, Bamanghachi,<br>Howrah – 711 006, (West Bengal).   |
| 594. | Samajwadi Jan Parishad                | Jai Malha Prasad, Reti Bunder Road,<br>Mahagiri, Thane (W)-400601 (Maharashtra).                               |
| 595. | Samajwadi Janata Dal Democratic       | 14, Dr. Bishambhar Das Marg,<br>New Delhi – 110 001.   |
| 596. | Samajwadi Janata Party<br>(Rashtriya) | Narendra Niketan, Behind Police<br>Headquarters, Indraprastha Estate, New<br>Delhi-110002.                     |
| 597. | Samajwadi Janata Party(Maharashtra)   | Barrack No.4, Behind Yashodhan Dinsha<br>Wacha Road, Church Gate, Mumbai-400020<br>(Maharashtra).              |
| 598. | Samata Party                          | 220, Vitthalbhai Patel House,<br>Rafi Marg, New Delhi – 110001.  |
| 599. | Samata Samaj Party                    | Opposite to Padav Police Station,<br>Laxmanpura, P.O. Lashkar, Gwalior,<br>Madhya Pradesh.                     |
| 600. | Samata Sangharsh Party                | 618-F 2/2/1, Shankar Gali, Vishwas Nagar,<br>Delhi-110032.   |
| 601. | Sampurna Vikas Dal                    | 88, South Avenue, New Delhi-11.  |
| 602. | Samudaya Munnetra Kazhagam            | No.32, New Tank Street, Nungambakkam,<br>Chennai-600034, (Tamil Nadu).   |
| 603. | Sanatan Samaj Party                   | Ramanand Nagar, Begumpura, Ayodhya,<br>Faizabad (Uttar Pradesh)  |
| 604. | Sanyukt Dastkar Party                 | P-205, Basti Khwaja Meer Dard, Barron<br>Road, New Delhi-110002.   |
| 605. | Sarb Hind Shiromani Akali Dal         | 103, New Officers Colony, Patiala, Punjab  |

606.	Sardar Patel Congress Party	B-31, Ground Floor, Lajpat Nagar-1, New Delhi - 110024.
607.	Sarva Seva Party	B-51, Pratap Vihar, Part-3, Nangloi, Delhi-110041.
608.	Sarvadharam Party(Madhya Pradesh)	C-44, Padmanabh Nagar, Bhopal- 462023 (Madhya Pradesh)
609.	Sarvahara Samaj Party	68-A Block, Darulshafa, Lucknow (Uttar Pradesh).
610.	Sarvhara Dal	Kewala Fariyatta, Via. Gidhour, Distt- Jamui (Bihar).
611.	Sarvodaya Party	P3, University Campus, University Of Rajasthan, Jaipur-302004 (Rajasthan)
612.	Satya Mave Party	548, Ramdass Pate, Nagpur-10 (Maharashtra).
613.	Satyayug Party	Flat No.203, Bldg. No.6-4-323/A, Vivek Vanshi Residency, Mekala Mandi Road, Bholakpur, Secunderabad-500080, (Andhra Pradesh)
614.	Savarn Samaj Party	East Of Stadium, Nand Hardware, Sirmor Road, Rewa-486001 (M.P.)
615.	Secular National Dravida Party	Kadakkavoor Buildings, Thumpara Nagar, Mundakkal, Kollam City, Kollam-691001, Kerala.
616.	Secular Party of India	House No.122-A, Ramvihar, Old Janipur, Jammu-180007 (Jammu & Kashmir)
617.	Sehajdhari Sikh Federation	622/9, Near Telephone Exchange, Raikot, District Ludhiana, Punjab.
618.	Shakti Dal	A-4, Maharani Bagh, New Delhi-110065.
619.	Shetkari Vichar Dal	49, Mamta, Anandnagar Co-op. Housing, Gulmohar Road, Sávedi, Ahmednagar-414001, Maharashtra.
620.	Shikshit Berozgar Sena	Kammu Katra Sadarganj, Shabnam Tailor Maryahun, Jaunpur, Uttar Pradesh.
621.	Shiromani Youth Akali Dal (Kahlon)	5/5051, Shakti Nagar, Khandwalla, Chaharta, Amritsar (Punjab).

- |      |                                  |  |
|------|----------------------------------|--|
| 622. | Shivrajya Party                  | 6-A, Ground Floor, Sarvoday Trust Building,<br>Gokhale Road (South), Dadar (West),<br>Mumbai-400028, Maharashtra.    |
| 623. | Shoshit Samaj Dal                | Center Office : Dakshnini Mandiree,<br>Patna-800001 (Bihar)  |
| 624. | Shoshit Samaj Party              | 327, Krishi Apartment, 'D'-Block, Vikas<br>Puri, New Delhi -110018   |
| 625. | Shree Bharat Vikas Paksh         | 220, Shreeji Complex,<br>Near Ellisbridge Post Office, Ashram Road,<br>Ahmedabad - 380 006 (Gujarat).                |
| 626. | Shubha Karnataka                 | MIG-II, No. 129, Hudco Colony, Behind Bus<br>Depot, Near Jagratha Anjaneya Tample,<br>Gadag - 582 103,<br>Karnataka. |
| 627. | Sikkim Himali Rajya Parishad     | Metro Point, 5 <sup>th</sup> Mile Tadong,<br>Gangtok (East Sikkim).  |
| 628. | Sikkim Janashakti Party          | Ranipool Marchak, Chakung House,<br>P.O. Ranipool, Gangtok (Sikkim)  |
| 629. | Sikkim National Liberation Front | 31-A, National Highway,<br>P.O. Gangtok (Sikkim)   |
| 630. | Sikkim Sangram Parishad          | Sangram Bhavan, Jewan Theeng Marg,<br>Gangtok (Sikkim).  |
| 631. | Sinh Jan Seva Party              | Near Public Library, Veraval-362265<br>(Gujarāt)   |
| 632. | Sirpanch Samaj Party             | T-47, Old Nangal, Delhi Cantt-110010.  |
| 633. | Social Action Party              | Mylackal House, Ranny, Pathanamtitta<br>Distt., Pin-689072 (Kerala).   |
| 634. | Social Justice Party             | No.73, Ellaiaman Colony, Teynampet,<br>Chennai-600086 (Tamil Nadu).  |
| 635. | Socialist Party(Lohia)           | Siddiqui Building, 6122, Bara Hindu Rao,<br>Delhi-110006.  |
| 636. | Socialist Republican Party       | State Committee Office, Tutor's Lane, Statue,<br>Trivandrum - 695001 (Kerala).                                       |
| 637. | Socialistic Democratic Party     | Post Box No.1089, General Post Office,<br>Srinagar-190001,<br>Jammu and Kashmir.                                     |

- |      |   |  |
|------|---|--|
| 638. | Suheldev Bharatiya Samaj Party                      | Village: Fatehpur, Post: Katona,<br>P.S. Phoolpur, Distt. Varanasi,<br>Uttar Pradesh.                    |
| 639. | Swaraj Dal  | No.4 Stop, Pattar Gudda, Post-Garaheharama,<br>Port Blair-744101<br>(Andaman & Nicobar Islands).         |
| 640. | Swarn Mahasabha                                     | Mo. Islamabad, P.O. Mohammadi,<br>Distt. Lakhimpur Kheeri,<br>Uttar Pradesh.                             |
| 641. | Swatantra Bharat Paksha                             | 'Rahi', Khokadpura,<br>Aurangabad-431001, Maharashtra.   |
| 642. | Swatntra Kranti Dal                                 | Shanti Homeopathic Store, Arya Samaj<br>Chowk, Badayu, Uttar Pradesh.                                    |
| 643. | Tamil Desiyak Katchi                                | 80-A, Chamundi Shopping Complex,<br>Salem-636007 (Tamil Nadu).   |
| 644. | Tamil Maanila Congress (Moopanar)                   | Satyamurthy Bhavan, General Petters Road,<br>Chennai -600002 (Tamil Nadu).                               |
| 645. | Tamil Maanila Kamraj Congress                       | C/o F.B. Benjamin George, Advocate, No.17,<br>Dooming Street, Santhome, Chennai-600004,<br>(Tamil Nadu). |
| 646. | Tamil Nadu Deseeya Grameeya<br>Thozhilalar Congress | 5/58, Maniam Building, Theethipalayam Post,<br>Coimbatore-641010 (Tamil Nadu).                           |
| 647. | Tamil Nadu Makkal Congress                          | 310- V-Block Boopathy Nagar,<br>Chennai-600024 (Tamil Nadu)  |
| 648. | Tamil Nadu Peasants & Workers Party                 | No. 1, Jayammal Road, Teynampet,<br>Chennai-600018 (Tamil Nadu).   |
| 649. | Tamil Nadu People's Party                           | 16/2 K.P.Street Mylapore,<br>Chennai-600004 (Tamil Nadu)   |
| 650. | Tamilaga Makkal Munnetra Kazhagam                   | 563, Shanti Colony, N.K.B. Nagar,<br>Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu.                             |
| 651. | Tamilar Kazhagam                                    | 180, Longly Road, Shevapet, Salem-636002<br>(Tamil Nadu)   |
| 652. | Tamizhaga Munnetra Munnani                          | No.152 A, North Usman Road, T. Nagar,<br>Chennai-600017 (Tamil Nadu)                                     |

- |      |   |   |
|------|---|---|
| 653. | Tamizhaga Rajiv Congress                                  | 6-II, Main Road, Raja Annamalaipuram,<br>Chennai-600028 (Tamil Nadu).   |
| 654. | Tamizhar Party  | 8/43, M.T.C. Road, Mattur Dam, 1, Salem<br>District, Chennai-600017 (Tamil Nadu)                                      |
| 655. | Tarai Kranti Dal  | 21/2, Indira Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).  |
| 656. | Telangana Congress Party                                  | Flat No.4, Block-18, MIG Phase-II, Bagh<br>Lingampally, Hyderabad, Andhra Pradesh.                                    |
| 657. | Telangana Praja Party                                     | 'Anantha Nilayam', Door No.14-9-519,<br>Chudi Bazar Dargah, Hyderabad-500 012,<br>Andhra Pradesh.                     |
| 658. | Telangana Rashtra Samithi                                 | House No. 8-2-220/110/1/3, Road No.14,<br>Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh.                                   |
| 659. | Thaayaga Makkal Katchi                                    | 7, Y.V.D.Complex, Chathiram Bus Stand,<br>Tiruchirappalli-620002, Tamil Nadu.   |
| 660. | Thamilar Bhoomi   | 5, Dr. Sir C.V. Raman, 1 <sup>st</sup> Street, Kumaran<br>Nagar, Tricherapalli-620017, (Tamil Nadu).                  |
| 661. | Tharasu Makkal Mandram                                    | 14-Sait Colony, First Street Egmore- 600008<br>(Tamil Nadu)   |
| 662. | The Consumer Party of India                               | Deshmukhwadi Complex, P.K. Road and<br>Zaver Road Junction, Mulund (West),<br>Mumbai-400080 (Maharashtra).            |
| 663. | The Great India Revolutioners                             | 4/55, Roop Nagar, Delhi-110007.   |
| 664. | The Humanist Party Of India                               | 34, Lavina, 52A, Tagore Road Santa Cruz<br>(West), Bombay-400054 (Maharashtra)  |
| 665. | The Religion Of Man Revolving Political<br>Party Of India | Kabithirtha, Kabitanagar, P.O.Bongaon, Distt.<br>24-Parganas (North)-743235 (West Bengal).                            |
| 666. | Thesia Jananayaka Makkal Katchi                           | New No. 2, Old No. 33,<br>2 <sup>nd</sup> Cross Street, West C.I.T. Nagar,<br>Nandanam, Chennai-600 035 (Tamil Nadu). |
| 667. | Thondar Congress  | 40-Venkatanarayana Road,<br>Thiyagarayanagar, Chennai-600017.<br>Tamil Nadu.  |
| 668. | Tribal People Party                                       | 170, Lingi Chatty Street, Chennai-600 001<br>(Tamil Nadu).  |

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 669. | Trilok Shakti Congress Bharat                | 49-D, Triveni Nagar, Naini, Udyog Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh.                          |
| 670. | Trinamool Gana Parishad                      | Ananda Plaza Complex, 4 <sup>th</sup> Floor, Ganeshguri Chariali, Gawahati-781006 (Assam).  |
| 671. | United Bodo Nationalist Liberation Front     | C/o Deori Bora, Rambhapuri, Kahilipara, Guwahati, (Assam)                                   |
| 672. | United Citizen Party                         | D-29, Kondli, Delhi-110096.   |
| 673. | United Communist Party Of India              | No.2 Fiftieth Street, Ashok Nagar, Chennai-600083 (Tamil Nadu).                             |
| 674. | United India Peoples Party                   | Manjamattam, Moozhoor P.O., Kottayam Distt. (Kerala).                                       |
| 675. | United Indian Democratic Council             | No.1205, II-Stage, Rajaji Nagar, Bangalore-560010 (Karnataka)                               |
| 676. | United Minorities Front, Assam               | Ulubari, Guwahati-781007(Assam)   |
| 677. | United Peoples Party of Assam                | S.S. Road, Lakhtokia, Guwahati-781001, Assam.   |
| 678. | United Reservation Movement Council Of Assam | Post Box No. 2, P.O.Rehabari, Guwahati-781008 (Assam).                                      |
| 679. | United Tribal Nationalists Liberation Front  | Deulguri, Harisingh Darrong-784510 (Assam)  |
| 680. | Urs Samyuktha Paksha                         | No. 46, Palace Road, Bangalore – 560 001, Karnataka.  |
| 681. | Uttar Pradesh Jan Manas Party                | A-1445/6, Indira Nagar, Lucknow-226016 (Uttar Pradesh).                                     |
| 682. | Uttar Pradesh Republican Party               | 552/2, Rajendra Nagar, 2 <sup>nd</sup> Street, Lucknow-226004 (U.P.)                        |
| 683. | Uttarakhand Sanskriti Parishad               | D-355, Vinod Nagar (West), Delhi-110092.  |
| 684. | Uttarkhand Janwadi Party                     | 53-K, Rajpur Road, Dehradun, Uttaranchal.   |
| 685. | Uzhaippalar Katchi                           | 70-D, Palanisamy Street, Vaniyambadi Road, Tirupattur-635601, Vellore District, Tamil Nadu. |
| 686. | Uzhaippalar Podhu Nalakatchi                 | Tirupattur, Vellore District, Tamil Nadu-635601.  |



- |      |                                       |   |
|------|---------------------------------------|---|
| 687. | Vidarbha Janata Congress              | Antar Bharti Ashram, Dabha,<br>Behind Vayusena Nagar, Amraoti Road,<br>Nagpur, (Maharashtra).   |
| 688. | Vidarbha Vikas Party                  | Block A, Second Floor, Poonam Chambers,<br>Chhindwara Road, Nagpur-13 (Maharashtra).  |
| 689. | Vidharabha Rajya Mukti Morcha         | A Type, Sukhkarta Apartment, Balraj Marg,<br>Dhantali, Nagpur-440012 (Maharashtra)  |
| 690. | Vidharbha Rajya Party                 | Kamgar Bhawan, Near Baidyanath Chowk,<br>Great Nag Road, Nagpur-3,<br>Maharashtra.  |
| 691. | Vidhayak Dal                          | HIG-205, Sector-1, Vikas Nagar, Lucknow,<br>Uttar Pradesh.  |
| 692. | Vijeta Party                          | 501, Abhishek Plaza, Exhibition Road,<br>Patna-800001 (Bihar).  |
| 693. | Vikas Party                           | Satyagarh Marg, Darul Safa Compound,<br>Lucknow (Uttar Pradesh).  |
| 694. | Vikaswadi Communism Party             | Makhdumpur Road, Mawana Kalan<br>250401, Distt. Meerut (U.P.)   |
| 695. | Viswa Maya Political Party            | 6D-6-18 (House No.),<br>Near Markandeswara Swamy Temple,<br>Southern Street, Eluru-534001,<br>West Godavari District, Andhra Pradesh. |
| 696. | Vivasayi Anbhu Katchi                 | No.14, Raghava Nattan Street,<br>Uthiramerur-603 406, Tamil Nadu.   |
| 697. | Voluntary Indian People Party Haryana | House No.363, 1 <sup>st</sup> Floor, Street No.9, Jawahar<br>Nagar, Hissar, Haryana.  |
| 698. | West Bengal Socialist Party           | 42-Ananda Palit Road, Kolkatta-700014.  |
| 699. | Youth and Students Party              | No.1/120, Gangaianman Koil Street,<br>Padinallore, Redhills, Chennai-52,<br>Tamil Nadu.   |
| 700. | Youth Brigade                         | Village Kakgachi, P.O-Bhanderhali,<br>District Hooghly, West Bengal.  |
| 701. | Yuva Gantantra Party                  | Sardar Patel Nagar, Jamnipali-Korba, District<br>Bilaspur, Chhattisgarh.  |
| 702. | Yuva Jan Jagriti Party                | Bahalolpur, Bulandshaher-202391,<br>Uttar Pradesh.  |

**TABLE-IV**  
**(LIST OF FREE SYMBOLS)**

1. Aeroplane
2. Almirah
3. Axe
4. Balloon
5. Banana
6. Bangles
7. Basket
8. Bat
9. Batsman
10. Bead Necklace.
11. Black Board
12. Book
13. Bread
14. Brick
15. Bridge
16. Brief Case
17. Brush
18. Bungalow
19. Cake
20. Camera
21. Candles
22. Car (In all States and Union Territories except Andhra Pradesh)
23. Carrom Board
24. Carrot
25. Ceiling Fan
26. Coat
27. Coconut
28. Comb
29. Cot
30. Cup & Saucer
31. Dao
32. Diesel Pump
33. Dolli
34. Electric Pole
35. Envelope
36. Fork
37. Frock
38. Frying Pan
39. Gas Cylinder
40. Gas Stove
41. Glass Tumbler
42. Hanger
43. Harmonium

44. Hat
45. Ice Cream
46. Iron
47. Jug
48. Kettle
49. Kite
50. Lady Purse
51. Letter Box
52. Lock and Key
53. Maize
54. Nagara (In all States and Union Territories except in the North Eastern States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura)
55. Neck Tie
56. Pressure Cooker
57. Railway Engine
58. Ring
59. Road Roller
60. Saw
61. Scissors
62. Sewing Machine
63. Shuttle
64. Slate
65. Spoon
66. Stool
67. Table
68. Table Lamp
69. Television
70. Tent
71. Toffee
72. Violin
73. Walking Stick
74. Whistle
75. Wool

[No. 56/2004/Jud.-III]

By Order,

K. F. WILFRED, Secy.